

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 नवम्बर 2014—कार्तिक 30, शक 1936

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, (पंचायत) छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 नवम्बर 2014

क्र. 3257-2014.—नगरपालिक निगम छिन्दवाड़ा के गठन एवं उसके इस आशय की अधिसूचना के प्रकाशन क्रमांक 106-एफ-1-15-2014-अठारह-3, भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2014 के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 11-95-बाईस-पंचा-2, दिनांक 23 फरवरी 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 126(1) के प्रावधान में अधीन राजस्व, जिला छिन्दवाड़ा के कलेक्टर द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है, के स्तम्भ-3 में दर्शाया गया है) ग्रामों के लिए जिसकी जनसंख्या सारणी के स्तम्भ-4 में दर्शायी गई है, सारणी के स्तम्भ-3 में उल्लेखित नाम से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विघटित किया जाता है तथा सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. इस संबंध में आपत्ति/ सुझाव दिनांक 26 नवम्बर 2014 तक क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) छिन्दवाड़ा को प्रस्तुत किये जा सकेंगे, जिसकी सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, छिन्दवाड़ा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर 2014 को कार्यालयीन समय में की जावेगी :—

सारणी

खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत के अन्तर्गत विघटित किये जाने वाले ग्राम का नाम	जनसंख्या (2011 की जनगणना अनुसार)	पटवारी हल्का हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छिन्दवाड़ा	1. लोनिया करबल	1. लोनिया करबल	14989	12
	2. खजरी	2. खजरी	7338	09

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
3.	कुकड़ा जगत	3.	कुकड़ा जगत	5997	11
4.	चंदनगांव	4.	चंदनगांव	16896	13
5.	सिवनी प्राणमोती	5.	सिवनी प्राणमोती	3054	20
6.	सोनाखार	6.	सोनाखार	2479	21
7.	बोरिया	7.	बोरिया	1892	17
8.	सारसवाड़ा	8.	सारसवाड़ा	1282	16
9.	सोनपुर	9.	सोनपुर	1678	63
10.	इमलीखेड़ा	10.	इमलीखेड़ा	2001	15
11.	खापाभाट	11.	खापाभाट	2646	10
		12.	कुसमेली	904	10
12.	सर्रा	13.	सर्रा	1457	14
		14.	मटकुली	172	14
		15.	थुनियाभांड	1203	14
13.	परतला	16.	परतला	4388	08
		17.	काराबोह	1529	08
14.	अजनिया	18.	अजनिया	774	22
		19.	कबाड़िया	924	22
15.	लहगडुआ	20.	लहगडुआ	2380	23
		21.	खैरीभोपाल	505	23
16.	पखड़िया	22.	इमलियाबोहता	830	18
17.	रोहनाखुर्द	23.	झण्डा	623	24
18.	पोआमा	24.	पोआमा	1611	05

महेश चन्द चौधरी, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर (पंचायत), जिला हरदा, मध्यप्रदेश

हरदा, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्र. 12855-पंचा. निर्वा.-जिपं-2014-15.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 25(2) एवं मध्यप्रदेश पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 के अनुसार जिला हरदा की 3 जनपद पंचायतों के अध्यक्ष पद का आरक्षण निम्नानुसार किया जाता है:—

क्रमांक (1)	जनपद पंचायत का नाम (2)	अध्यक्ष पद किस वर्ग के लिये आरक्षित है (3)
1	हरदा	अनुसूचित जनजाति महिला
2	टिमरनी	अनारक्षित महिला
3	खिरकिया	अनारक्षित

रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर.

कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), जिला हरदा

हरदा, दिनांक 13 नवम्बर 2014

क्र. 13040-2014.—जिला पंचायत हरदा में स्थानों के आरक्षण की स्थिति के संबंध में सूचना मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत हरदा के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है:—

निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक जिसके लिये निर्वाचन होना है	आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/ अनु. जनजाति/ अनु. जनजाति महिला/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/ अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)
1	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	हंडिया, नयापुरा, हीरापुर, मांगरूल, रातातलाई, उवां, भादुगांव, कोलीपुरा, खेड़ा, बेसवां, अजनासरेयत, बैड़ी, कचबैड़ी, रेलवां, देवतलाब, सिगोन, झाड़पा (नवीन), पचोला, धनगांव, कायागांव, साल्याखेड़ी, बागरूल, कांकड़दा, झालवा.
2	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	रिजगांव, अबगांवकला, करताना, कुहीगवाड़ी, तजपुरा, भवरास, छीपानेर, सोनखेड़ी, नांदरा, आदमपुर, खेड़ीनीमा, भुन्नास, डगावानीमा, अबगांवखुर्द, पिड़गांव, गोगिया, हरदा खुर्द, गोंदागांव खुर्द, उड़ा, सुरजना.
3	अनुसूचित जाति	उन्द्राकच्छ, धौलपुर कला, सन्यासा, चारखेड़ा, छिदगांवमेल, पोखरनी, बघवाड़, बिच्छापुर, अहलवाड़ा, नौसर, गोदड़ी, बाजनिया, सामरधा, नयागांव, गाड़ामोड़कला, रायबोर, गोंदागांवकला, पीपल्याकलां, गुल्लास, लछोरा, रूंदलाय.
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	नजरपुरा, रहटगांव, फुलड़ी, बरकला, गाड़ामोड़खुर्द, टेमागांव, डोलरिया, भादुगांव, सिरकम्बा, आलमपुर, दूधकच्छ, छिदगांव तमोली, पानतलाई, सोहागपुर, सोडलपुर, सौंताड़ा, मनियाखेड़ी, नांदवा, निमाचारखुर्द.
5	अनारक्षित	रैसलपुर, झाड़पा, मगरधा, धुरगाढ़ा, मोहनपुर, गहाल, नकवाड़ा, बालागांव, सिरकम्बा, सुखरास, खामापड़वा, कुकरावद, कनारदा, खिड़कीवाला, खमगांव, भाटपरेटिया, रन्हाईकला, रहटाखुर्द, बून्दड़ा, जिजगांवखुर्द.
6	अनारक्षित	सोनलताई, पांचातलाई, करनपुरा, छिड़गांव, नीमगांव, कड़ोलाउवारी, पलासनेर, मसनगांव, बीड़, कमताड़ा, रोलगांव, डगांवाशंकर, बारंगी, खमलाय, बारंगा, काल्याखेड़ी, केलनपुर, सामरधा, हनीफाबाद, बिछोलामाल, मरदानपुर, बैरागढ़, कालकुण्ड.
7	अनुसूचित जाति महिला	सारंगपुर, पाहनपाट, कुड़ावा, मांदला, सक्तापुर, मुहालकला, चौकड़ी, पोखरनी, पीपल्याभारत, पड़वा, पहटकला, बावडिया, डेडागांवमाल, कानपुरा, चारूवा, नगावामाल, कालधड़, बम्हनगांव, धनवाड़ा, सारसूद, कड़ोला, राधौ, बड़नगर.
8	अनुसूचित जनजाति महिला	सांगवामाल, टेमलावाड़ी, प्रतापपुरा, मक्तापुर, छुरीखाल, जूनापानी (भवरदी), मोरगढ़ी, रामटेक, कुकड़ापानी, सांवलखेड़ा, हसनपुरा, सोमगांवकला, भगवानपुरा, नहालीकला, दीपगांवकला, आमासेल, ढोलगांवकला, बेड़ियाकला, जटपुरामाल, जयमलपुरा, लोलांगरा.

(1)	(2)	(3)
9	अनुसूचित जनजाति महिला	जिनवानिया, रामपुरा, सिराली, धनकार, महेन्द्रगांव, पीपल्या (खूदिया), खूदिया, जूनापानी (मकड़ाई), जामन्याखुर्द, चिकलपाट, सांवरी, मकड़ाई, पटाल्दा, गोमगांव, आमाखाल, जामुखो, मुहाड़िया, रहटाकला.
10	अनुसूचित जनजाति	कचनार, केली, मालेगांव, रातामाटी, कायदा, रवांग, टेमरूबहार, चन्द्रखाल, लाखादेह, बोरी, राजाबरारी, बड़झिरी, कायरी, बड़वानी, कासरनी, छीरपुरा, झाड़बीड़ा, कपासी, बोरपानी, आमसागर, बांसपानी, बंशीपुरा, बोथी, पाटियाकुआ, लोधीढाना.

रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर.

हरदा, दिनांक 13 नवम्बर 2014

क्र. 13040-2014.—जनपद पंचायत हरदा में स्थानों के आरक्षण की स्थिति के संबंध में सूचना मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि जनपद पंचायत हरदा के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :—

निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक जिसके लिये निर्वाचन होना है	आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/ अनु. जनजाति/ अनु. जनजाति महिला/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/ अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)
1	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	मसनगांव, कमताड़ा
2	अनुसूचित जाति महिला	मोहनपुर, गहाल, धुरगाड़ा
3	अनारक्षित महिला	डगांवाशंकर, रोलगांव
4	अनुसूचित जनजाति	रैसलपुर, झाड़पा, नकवाड़ा
5	अनारक्षित महिला	जिजगांवधुर्द, बूंदड़ा, बालागांव
6	अनारक्षित	खामा पड़वां, केलनपुर, सुखरास
7	अनुसूचित जाति महिला	रन्हाईकला, कुकरावद, कनारदा
8	अन्य पिछड़ा वर्ग	मगरधा, सिरकम्बा
9	अन्य पिछड़ा वर्ग	उड़ा, भाटपेरटिया
10	अन्य पिछड़ा वर्ग	कड़ोला, उवारी, रहटाखुर्द, बैरागढ़
11	अनारक्षित	हरदा खुर्द, पिड़गांव
12	अनुसूचित जाति	आदमपुर, रिजगांव, नांदरा, गोगिया
13	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अबगांवकला, भुन्नास
14	अनारक्षित महिला	अबगांवखुर्द, डगावानीमा, सोनखेड़ी
15	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	सुरजना, खेड़ीनीमा, हीरापुर, बागरूल
16	अनारक्षित	हंडिया, मांगरूल
17	अनुसूचित जनजाति	सिगोन, उवां, साल्याखेड़ी
18	अनुसूचित जाति	भादुगांव, देवतलाब, कोलीपुरा
19	अनुसूचित जाति महिला	रेलवां, अजनास रैयत, खेड़ा

(1)	(2)	(3)
20	अनुसूचित जनजाति महिला	बिछोलामाल, हनीफाबाद, कांकड़दा
21	अनुसूचित जनजाति महिला	रातातलाई, पचोला, बेसवा, नयापुरा
22	अनुसूचित जनजाति	सोनतलाई, करनपुरा, कचबैड़ी, झालवा
23	अनुसूचित जनजाति महिला	छिड़गांव, पांचातलाई, धनगांव
24	अनारक्षित	बीड़, पलासनेर, नीमगांव
25	अनुसूचित जनजाति महिला	सामरधा, कायागांव, बैड़ी, झाड़पा (नवीन)

रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर.

हरदा, दिनांक 13 नवम्बर 2014

क्र. 13040-2014.—जनपद पंचायत टिमरनी में स्थानों के आरक्षण की स्थिति के संबंध में सूचना मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि जनपद पंचायत टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :—

निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक जिसके लिये निर्वाचन होना है	आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/ अनु. जनजाति/ अनु. जनजाति महिला/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/ अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)
1	अनुसूचित जनजाति	लाखादेह, बड़झिरी, बंशीपुरा, बांसपानी
2	अनुसूचित जनजाति महिला	मालेगांव, रातामाटी, बोरपानी, केली
3	अनुसूचित जनजाति महिला	कचनार, पाटियाकुआं, रवांग, लोधीढाना
4	अनुसूचित जनजाति	राजाबरारी, टेमरूबहार
5	अनुसूचित जनजाति	कायदा, चंद्रखाल, बडवानी
6	अनुसूचित जनजाति महिला	छीरपुरा, बोथी, कायरी, बोरी
7	अनुसूचित जनजाति	कासरनी, आमसागर, खमगांव
8	अनुसूचित जनजाति महिला	टेमागांव, डोलरिया, नांदवा, कपासी
9	अनारक्षित महिला	सिरकंबा, उद्राकच्छ, सौंताड़ा
10	अनारक्षित	छिदगांवमेल, भादुगांव, रायबोर
11	अनारक्षित	धौलपुरकलां, सामरधा, पीपल्याकलां
12	अनारक्षित	पोखरनी, बिच्छापुर,
13	अनुसूचित जाति	बाजनिया, नयागांव, बघवाड़
14	अनारक्षित	गोंदडी, गाडामोड़कला, कुहीगवाड़ी
15	अनारक्षित महिला	गोंदागांवखुर्द, छिपानेर, लछोरा
16	अनुसूचित जाति महिला	भवरास, गुल्लास, सन्यासा
17	अनारक्षित महिला	करताना, तजपुरा, रूंदलाय
18	अनारक्षित महिला	अहलवाड़ा गोंदागांवकला, नौसर
19	अनारक्षित	चारखेड़ा, बरकलां, निमाचाखुर्द
20	अनारक्षित	मनियाखेड़ी, सोहागपुर, खिड़की

(1)	(2)	(3)
21	अनुसूचित जाति	सोडलपुर
22	अनुसूचित जाति महिला	छिदगांवतमोली, दूधकच्छ, पानतलाई
23	अनारक्षित महिला	फुलड़ी, गाड़ामोडखुर्द, आलमपुर
24	अनुसूचित जनजाति महिला	नजरपुरा, झाड़बीड़ा
25	अनारक्षित महिला	रहटगांव

रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर.

हरदा, दिनांक 13 नवम्बर 2014

क्र. 13040-2014.—जनपद पंचायत खिरकिया में स्थानों के आरक्षण की स्थिति के संबंध में सूचना मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि जनपद पंचायत खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार हैं:—

निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक जिसके लिये निर्वाचन होना है	आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/ अनु. जनजाति/ अनु. जनजाति महिला/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/ अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायत
(1)	(2)	(3)
1	अनारक्षित	चौकड़ी, पाहनपाट, सारंगपुर
2	अनारक्षित	धनवाड़ा, कुड़ावा, नगावामाल
3	अनुसूचित जनजाति महिला	खमलाय, बड़नगर, काल्याखेड़ी, बम्हनगांव
4	अनारक्षित	मांदला, बारंगी, बारंगा
5	अनुसूचित जाति महिला	पोखरनी, पड़वा, कालधड़
6	अनुसूचित जाति	चारूवा
7	अनारक्षित महिला	कानपुरा, टेमलावाड़ीमाल, डेडगांवमाल, जयमलपुरा
8	अनुसूचित जनजाति	प्रतापपुरा, जूनापानीभवरदी, भक्तापुर
9	अनुसूचित जनजाति	मोरगढ़ी, छुरीखाल, कुकड़ापानी
10	अनुसूचित जनजाति महिला	चिकलपाट, सांवरी,
11	अनुसूचित जनजाति	जुनापानीमकड़ाई, जामन्याखुर्द
12	अनुसूचित जनजाति महिला	मकड़ाई, जामुखी, पटाल्दा, आमखाल
13	अनारक्षित महिला	खुदिया, गोमगांव, पीपल्याखुदिया
14	अनुसूचित जाति	महेन्द्रगांव, धनकार
15	अनारक्षित महिला	सिराली
16	अनारक्षित महिला	जिनवानिया, नहालीकलां
17	अनारक्षित	आमासेल, लोलांगरा, ढोलगांवकलां
18	अनुसूचित जनजाति	भगवानपुरा, सोमगांवकला, हसनपुरा
19	अनुसूचित जनजाति महिला	दीपगांवकला, रामपुरा, सांवलखेड़ा
20	अनुसूचित जनजाति महिला	जटपुरामाल, रामटेकरैयत
21	अनारक्षित	रहटाकलां, कालकुण्ड, मुहाड़िया
22	अनारक्षित महिला	मुहालकलां, पीपल्याभारत, पहटकलां
23	अनारक्षित	सांगवामाल, कडोलाराघौ, सारसूद, बावड़िया
24	अनुसूचित जाति महिला	बेड़ियाकला, सक्तापुर, मरदानपुर

रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर.

हरदा, दिनांक 13 नवम्बर 2014

क्र. 13040-2014.—मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत सोनखेडी खण्ड हरदा के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है:—

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिये निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण			आरक्षण की स्थिति यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिवर्ग/अन्य पिवर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला
	क्रमांक	ग्राम	मकान नम्बरसे तक	
1	2	3	4	5
सरपंच				अनारक्षित महिला
पंच	1	सोनखेडी	म.नं. 1 से म.नं. 12 तक सुशीला/मंशी से कैलाश/गब्बू के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	2	---	म.नं. 13 से म.नं. 26 तक जगदीश/भागीलाल से सुक्कू/जगू के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	3	---	म.नं. 27 से म.नं. 41 तक जगन्नाथ/भगवान से हरनारायण/ओमकार के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग
पंच	4	---	म.नं. 42 से म.नं. 65/2 तक के मकान तक हरलाल/रामलाल से सुमन/जगदीश के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	5	---	म.नं. 66 से म.नं. 64/1 नाथी/भीका से रेवाराम/खेताजी के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	6	---	म.नं. 65/1 से म.नं. 88 तक राधेश्याम/हरनारायण से कैलाश/गंगू के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	7	---	म.नं. 87 से म.नं. अन्त तक सुरज/दगडया से जगदीश/शिवराम के मकान तक	अनारक्षित
पंच	8	गुवनखेडी	म.नं. 2 से म.नं. 20/2 तक सुनील/मधुसुदन से रेवाराम/रामचन्द्र के मकान तक	अनारक्षित
पंच	9	---	म.नं. 20/3 से म.नं. 37 तक गंगा/रामचंद्र से जगदीश/मोती के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	10	---	म.नं. 38 से म.नं. 51/1 तक गुलाब/अमर से श्रीराम/नत्थू के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	11	---	म.नं. 52 से म.नं. 60 तक रेवाराम/धनालाल से कैलाश/शिवराम के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	12	---	म.नं. 61 से म.नं. 76 तक रामोत्तार/भुगान से रामबाई/दयाराम के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	13	---	म.नं. 77 से म.नं. 90 तक मनु/हीरासिंग से आनीखी/जंगराम के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	14	---	म.नं. 91 से म.नं. 110 तक संतोष/जंगराम से हरीशंकर/गंगाविशन के मकान तक	अनुसूचित जाति
पंच	15	---	म.नं. 111 से म.नं. 118 तक रामोत्तार/लक्ष्मण से भाउ/जैता के मकान तक	अनुसूचित जाति
पंच	16	---	म.नं. 119 से म.नं. 135/1 तक बोहर/मोती से नारायण/गोपाल के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग
पंच	17	---	म.नं. 136 से म.नं. अन्त तक सोना/अन्तर सिंग से रघुवामेश के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच		आगरा वीरान		

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत डगावानीमा खण्ड हरदा के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

2	सरपंच			अनारक्षित	
	पंच	1	डगावानीमा	म.नं. 1 से म.नं. 18 तक रामबिलास हवा से बलराम गंगाराम के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	2	---	म.नं. 20 से म.नं. 34 तक रामचंद्र सुखलाल से बुलारी यशवंत के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	3	---	म.नं. 35 से म.नं. 47/5 तक सावित्री मेहता से कमल सिंह नन्दु के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	4	---	म.नं. 48 से म.नं. 60/2 तक भागीरथ सुखराम के भागवती हजारी के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
	पंच	5	---	म.नं. 61/1 से म.नं. 74/3 तक बलराम भाउजी से महेश प्रहलाद के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला

1	2	3	4	5
पंच	6	---	म.नं. 75 से म.नं. 94 तक शिवप्रसाद टुकडया से किशोर सुखदेव के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग
पंच	7	---	म.नं. 95 से म.नं.116/2 तक जडिया घासीराम से मोतीराम बालाराम के मकान तक	अनुसूचित जाति
पंच	8	---	म.नं. 119 से म.नं. अन्त तक मुल्लु रामकरण से दीलतदास मुडीदास के मकान तक	अनुसूचित जाति
पंच	9	जिजगांवकला	म.नं. 1 से म.नं. 22 तक बलराम श्रीराम से रामचंद्र बांबूलाल के मकान तक	अनारक्षित
पंच	10	---	म.नं. 23 से म.नं. 36 तक भागवत सिंह देवकरण से सीतारामकरण के मकान तक	अनारक्षित
पंच	11	---	म.नं. 37 से म.नं.54 तक बाबूलाल रामकरण से करण रामनारायण के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	12	---	म.नं. 55 से म.नं. अंत तक कलाबाई पन्नालाल से गोविन्द नारायण के मकान तक	अनारक्षित
सरपंच				

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **भुन्नास** खण्ड हरदा के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है।

3	सरपंच			अन्य पिछडा वर्ग
	पंच	1	भुन्नास म.नं.1 से म.नं. 15 तक महेश/जगन्नाथ से शिवप्रसाद/राधेलाल के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग
	पंच	2	म.नं.17 से म.नं. 31 तक नारायणी/हजारी से गबू/हरिराम के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	3	म.नं. 32 से म.नं. 55 तक जियालाल/फल्लु से धन्नाबाई/नर्मदाप्रसाद के मकान तक	अनुसूचित जाति
	पंच	4	म.नं. 56 से म.नं. 73क तक सत्यनारायण/मोजीराम से कमरान खा के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	5	म.नं. 78 से म.नं. 91 तक अनोखीलाल/चूडया से हरिशंकर/दयाराम के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	6	म.नं. 93 से म.नं.116/1 तक रविशंकर/गणेशशंकर से प्रभुद्याल/पूनमचंद्र के मकान	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	7	म.नं. 117 से म.नं. 130 तक कमाल/शमशेर खां से भुजराम/रामकरण के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग
	पंच	8	म.नं. 131 से म.नं. 144 तक संतोष/छितर से गबरू/बदीजी के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	9	म.नं. 148 से म.नं. 166 तक रमेशचंद्र/हीरालाल से बोदर/मोहम्मद के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
	पंच	10	म.नं. 167 से म.नं. 180 तक बलराम/चामोतार से पासा बाई/शिवधरन के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	11	म.नं. 182/1 से म.नं. 197/3 तक गंगाराम/रामलाल से सुमान/शाहरुक के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	12	म.नं. 199 से म.नं. 224 तक अनवर/अल्लाबेली से नबाब खा/इमाम खां के मकान	अनारक्षित महिला
	पंच	13	म.नं. 225 से म.नं. 240 तक मालेखा/इमान खां से सुगना/गेंदालाल के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	14	म.नं. 241 से म.नं. 252 तक रविशंकर/हेमराज से नारायण/हीरालाल के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
	पंच	15	म.नं. 253 से अन्त तक कैलाश/हीरालाल से रेवाराम/जयराम के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	16	म.नं. 2 से म.नं. 15 तक गेंदालाल/कचरिया से नाथूराम/घासीराम के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	17	म.नं. 17 से म.नं. 36 तक बलरामदास से सुमान/शिवराम के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	18	म.नं. 37 से म.नं. 58/1 तक सखाराम/रामचंद्र से संतोष/राधाकिशन के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
	पंच	19	म.नं. 59 से म.नं. 73 तक शांला/कचरिया से लक्ष्मीनाराण/गीका के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	20	म.नं. 74 से म.नं. अन्त तक नर्मदी/नेदाजी से वंशीलाल/प्यारेलाल के मकान तक	अनारक्षित

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **अबगांवखुर्द** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है।

4	सं.सं.			अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	1	अबगांवखुर्द	म.नं. 2 से म.नं. 21 तक शंकरलाल/दवाजी से गुलाब/सालकराम के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	2	---	म.नं. 24 से म.नं. 33 तक नर्मदा/लक्ष्मीराम से लक्ष्मीनारायण/गोकुल के मकान तक	अनारक्षित
पंच	3	---	म.नं. 34 से म.नं. 52 तक जगदीश/शिवनारायण से अमीर/स के मकान तक	अनारक्षित
पंच	4	---	म.नं. 52/1 से म.नं. 62 तक इमरतलाल/रामप्रसाद से गोकुल/मिश्रीलाल के मकान	अनारक्षित
पंच	5	---	म.नं. 63/1 से म.नं. 81/2 तक चम्पालाल/प्रहलाद से दिनेश/जागेश्वर के मकान तक	अनुसूचित जाति
पंच	6	---	म.नं. 82 से म.नं. 98 तक मिश्रीलाल/हजारीलाल से रामदास/छीतर के मकान तक	अनारक्षित
पंच	7	---	म.नं. 99 से म.नं. 114 तक लीला/बेन्द्र से रेशांकर/रमेशचंद के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	8	---	म.नं. 115/1 से म.नं. 128/1 तक कमला/अनोखी से बाबूलाल/गोवर्धन के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	9	---	म.नं. 127 से म.नं. 138 तक रामशरण/उग्रामी से हरताल/शिवराम के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग
पंच	10	---	म.नं. 141 से म.नं. 152 तक कोकिला/पृथ्वीसिंह से गंगाहर/बृजमोहन के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	11	---	म.नं. 154 से म.नं. 160 तक रामदीन/कचरू से गंजराम/नन्दू के मकान तक	अनारक्षित
पंच	12	---	म.नं. 160क से म.नं. 167 तक रामाधार/रामप्रसाद से मोहन/गांगीलाल के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	13	---	म.नं. 169 से म.नं. 183 तक रामकृष्ण/हजारी से संतोष/हेमराज के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	14	---	म.नं. 185 से म.नं. 196 तक जगन्नाथ/बिहारी से राजेश/नर्मदाप्रसाद के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	15	---	म.नं. 196क से म.नं. 203 तक कैलाश/देवजी से कमल/हजारीलाल के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	16	---	म.नं. 203/1 से म.नं. 207 तक रमेश कामार/रामचरण से अशोक/रमेश के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग
पंच	17	---	म.नं. 208 से म.नं. 223 तक कैलाश/घुडया से रामविलास/गयाप्रसाद के मकान तक	अनारक्षित
पंच	18	---	म.नं. 224 से म.नं. 238 तक रेवाराम/नारायण से चंद्र सिंह/बाबूलाल के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	19	---	म.नं. 239 से म.नं. 244 तक पर्वत सिंह/जगन्नाथ से विनोद/गंगाविशान के मकान	अनारक्षित महिला
पंच	20	---	म.नं. 245 से म.नं. 256 तक रामदीन/रामप्रसाद से बहादुर/भादूसिंह के मकान तक	अनारक्षित

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **हरदाखुर्द** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है।

5	सं.सं.			अनुसूचित जनजाति
पंच	1	हरदाखुर्द	म.नं. 1 से म.नं. 33 तक महेश के म.नं. से सूरज/मनीष के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग
पंच	2	---	म.नं. 35 से म.नं. 92 तक रेवाराम/तुलसीराम के म.नं. से भालती/कैलाश के मकान	अनारक्षित
पंच	3	---	म.नं. 93 से म.नं. 143/1 तक रामविलास के म.नं. से रिन्की के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	4	---	म.नं. 144 से म.नं. 184 तक रामगोपाल के म.नं. से राजकुमार के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	5	---	म.नं. 185 से म.नं. 1/2 तक जानी/गोपाल के म.नं. से गणपत के मकान तक	अनारक्षित
पंच	6	---	म.नं. 1/4 से म.नं. 22/2 तक श्याम सिंह के म.नं. से रंजना के मकान तक	अनारक्षित
पंच	7	---	म.नं. 222 ख से म.नं. 207/ख तक बसंत के म.नं. से हरिराम के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	8	---	म.नं. 208/19क से म.नं. 200 ठ तक परशराम के म.नं. से सावित्री/राकेश के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	9	---	म.नं. 200 ड से म.नं. 48 तक कुसूम/कमल सिंह के म.नं. से ममता/मोहन के मकान	अनुसूचित जाति महिला

1	2	3	4	5
पंच	10	---	म.नं. 291/8 से म.नं. 202/3 तक संतोष/मदन के म.नं. से किर्ती/संजय के मकान तक	अनुसूचित जाति
पंच	11	---	म.नं. 204/4 से म.नं. 210/क तक गहेन्द्र के म.नं. से दिनेश/राधेश्याम के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	12	---	म.नं. 210 ख से म.नं. 290 ख तक बसु बाई/कलम के म.नं. से हरि सिंह/मूलचंद के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	13	हरदाखुर्द एवं रिछाडिया	म.नं. 292 से म.नं. 779 ड तक जगदीश/बाबूलाल के म.नं. से अमीन/आबिद के मकान तक	अनुसूचित जाति
पंच	14	हरदाखास	म.नं. 295 से म.नं. 212 तक लीला बाई/पलक के म.नं. से अपूर्ता/राजेन्द्र के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	15	---	म.नं. 212 क से म.नं. 223 तक राधा/लक्ष्मण के म.नं. से देवेन्द्र सिंह/कमल सिंह के	अनारक्षित
पंच	16	---	म.नं. 224 से म.नं. 237 तक कमला/सालकराम के म.नं. से दुर्गा बाई के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	17	---	म.नं. 346 क से म.नं. 687 तक दीनदयाल/भांगीलाल के म.नं. से नरेन्द्रसिंह के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	18	---	म.नं. 704 से म.नं. 362 तक रागिनी/विष्णु के म.नं. से संगीता/हरीशचंद्र के मकान तक	अनारक्षित
पंच	19	---	म.नं. 1 ट/1 से म.नं. 905/क तक किशोरीलाल/रामरतन के म.नं. से निजाम मोहम्मद के	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	20	---	म.नं. 1 क/1 से म.नं. 7क/2 तक कला बाई/देवशाम के म.नं. से गंगा बाई/सुन्दरलाल के	अन्य पिछड़ा वर्ग

मध्यप्रदेश पंचायत निवोचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **पिडगांव** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

सारणी

6	सुरपंच			अनुसूचित जाति
पंच	1	पिडगांव	म.नं. 1 से म.नं. 13 तक हरनारायण/कुंजीलाल से बलराम/छन्नू के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	2	---	म.नं. 13/1 से म.नं. 28 तक जगदीश/बजवा से कैलाश/जगन्नाथ के मकान तक	अनारक्षित
पंच	3	---	म.नं. 25 से म.नं. 36 तक शांता बाई/रघुनाथ से जगदीश के मकान तक	अनारक्षित
पंच	4	---	म.नं. 37 से म.नं. 50/2 तक विष्णु प्रसाद/गयाराम से हरिसिंह/पूया के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	5	---	म.नं. 50क से म.नं. 64 तक सुनिता/दिगिजय से रणछोड/पन्नालाल के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग
पंच	6	---	म.नं. 65 से म.नं. 82/1 तक भोगराज/आन्या से मुकेश/रेवाराम के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	7	---	म.नं. 83 से म.नं. 91 तक जगदीश/हीरालाल से मिठिया बाई/बालाराम के मकान तक	अनारक्षित
पंच	8	---	म.नं. 93 से म.नं. 101 तक करीम खां/बाबूलाल से मोहनलाल/शमेश्वर के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	9	---	म.नं. 102 से म.नं. 114 तक अनोखीलाल/शिवलाल से भगवान/जोगीलाल के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	10	---	म.नं. 115 से म.नं. 127 तक रामदयाल/भांगीलाल से अलाबकस/हैदर खां के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	11	---	म.नं. 128 से म.नं. 146 तक विसमिल्ला बाई/गुल्लु से प्रहलाद/गोरीशंकर के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	12	---	म.नं. 152 से म.नं. 186 तक चन्द्रशेखर/खेमराज से रामलाल/बाबूलाल के मकान तक	अनारक्षित
पंच	13	---	म.नं. 187 से म.नं. अन्त तक संतोष कुमार/बाखवा से अजय सिंह/जिन्दपाल सिंह के	अनारक्षित महिला
पंच	14	मझली	म.नं. 1 से म.नं. 11 तक दिनेश कुमार/राधाक्रिशन से राम /भागीरथ के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	15	---	म.नं. 12 से म.नं. 21 तक रामभरोस/नरथू से रामकृष्ण/आत्माराम के मकान तक	अनुसूचित जाति
पंच	16	---	म.नं. 22 से म.नं. 36/4 तक रामसिंह/भोखाजी से रज्जन कुमार/शिवराम के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग
पंच	17	---	म.नं. 37/4 से म.नं. 46 तक हबीब खां/रहमान खां से गायत्री/बाबूलाल के मकान तक	अनारक्षित
पंच	18	---	म.नं. 46क से म.नं. 65 तक जगदीश प्रसाद/भगवान से शिवनारायण/भागीरथ के	अनारक्षित महिला
पंच	19	---	म.नं. 66 से म.नं. 75 क तक भगवान सिंह/कर्ण सिंह से शांता बाई/राधेश्याम के	अनारक्षित
पंच	20	---	म.नं. 78 से म.नं. अन्त तक शिवराम/कुंजी से राजेन्द्र कुमार/बाबूलाल के मकान तक	अनारक्षित महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **उडा** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

सारणी

7	सरपंच			अनारक्षित महिला	
	पंच	1	उडा	म.नं. 1 से म.नं. 24 तक राधेलाल/हरि से महेश/नाथूराम के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	2	---	म.नं. 24/1 से म.नं. 84 तक विष्णु/नाथूराम से गफूर/खुदाबक्स के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	3	---	म.नं. 85 से म.नं. 110/2 तक गरीबा/सीताराम से बादर खां/नज्जू खां के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	4	---	म.नं. 113 से म.नं. 147 तक गैदालाल/खुनाथ से श्यामलाल/रामप्रसाद के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग
	पंच	5	---	म.नं. 148/1 से म.नं. 172/5 तक धीरज/लक्ष्मीनारायण से पार्वती/पप्पू के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	6	---	म.नं. 172/6 से म.नं. 199/1 तक शोमाराम/बोहरा से सुषमा के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	7	---	म.नं. 199/2 से म.नं. 248/1 तक रामदास/रामेश्वर से नितेश के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	8	---	249/2 से 272 तक अपना /रामगुलाम से मधु/मुकेश के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	9	---	म.नं. 273 से म.नं. 304 तक उमेश/राम से सोनम के मकान तक	अनुसूचित जाति
	पंच	10	---	म.नं. 305 से म.नं. अन्त तक कलावती/परमेश्वर से अन्त के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	11	कुलहरदा	म.नं. 345 से म.नं. 459 तक किशोरीलाल/धनलाल से आरती/सतीश के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	12	---	म.नं. 459 क से म.नं. 507 ख तक रमेशचंद्र/रामगोपाल से समेन्द्र/इन्द्रपाल के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	13	---	म.नं. 1/क से 4क/2 के मकान तक भीम सिंह/समरत से महेश/यादव के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	14	---	म.नं. 4/5क से 435 तक विजय/राधेश्याम से कैलाश के मकान तक	अनुसूचित जाति
	पंच	15	---	म.नं.209 से 278 तक सलामउद्दीन से साधना सिटोके के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग
	पंच	16	---	म.नं. 281 से 905 तक तार मोहम्मद से जलाउद्दीन के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
	पंच	17	---	म.नं. 24 से म.नं. 172 तक हरिप्रसाद/अनोखी से संगीता के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	18	---	म.नं. 18क से म.नं. 53/1 तक संतोषी से विकी के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
	पंच	19	---	म.नं. 486 से म.नं. 830क/4 तक हरनारायण/नथूलाल से शिवकन्या/जगननाथ के मकान	अन्य पिछडा वर्ग महिला
	पंच	20	---	म.नं. 283 से म.नं. 60 तक हरनारायण से मोहम्मद सद्दाम हुसैन के मकान तक	अनारक्षित

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **भाटपुरेटिया** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

सारणी

8	सरपंच			अनुसूचित जनजाति महिला	
	पंच	1	भाटपुरेटिया	म.नं. 1 से म.नं. 10 तक लक्ष्मीनारायण/ जगन्नाथ से नन्हेलाल/धनलाल के	अनारक्षित महिला
	पंच	2	---	म.नं. 11 से म.नं. 22 तक शरादाबाई / उमाशंकर से पृथ्वीलाल / कालूराम के	अन्य पिछडा वर्ग महिला
	पंच	3	---	म.नं. 23 से म.नं. 31 तक अर्चना / अनिल से गेदालाल / आनंदराम के मकान	अन्य पिछडा वर्ग महिला
	पंच	4	---	म.नं. 32 से म.नं. 42 तक पृथ्वीलाल/ अनवर से गीता बाई /पंजालाल के मकान	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	5	---	43 से 66 सुदरबाई / रणछोड से भगवान / मोहन के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	6	---	57 से 70 लक्ष्मीनारायण / मोहन से अमरसिंह /सोनु के मकान	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	7	---	71 से 86 जीवन / लच्छू से कांतीबाई / चंपालाल के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	8	---	87 से अंत तक छगनलाल / बदीप्रसाद से प्रीतम / बाबूलाल के मकान	अनारक्षित महिला

1	2	3	4	5
पंच	9	रूपीपरेटिया	म.नं. 1 से म.नं. 14 तक यूसूफखान/ईवाहिम खान से सुखलाल/सुदरलाल के	अनारक्षित
पंच	10	---	म.नं. 15 से म.नं. 30 तक मांगीलाल / रणछोड से श्रीराम / रामदास के मकान	अन्य पिछडा वर्ग
पंच	11	---	म.नं. 31 से म.नं. 43 तक आत्माराम / जागेश्वर से श्यामसिंह / गुलजारी के	अनुसूचित जाति
पंच	12	---	म.नं. 44 से म.नं. 53/1 तक रामकृष्ण / नानकराम से तुकाराम / शिवचरण	अन्य पिछडा वर्ग
पंच	13	---	म.नं. 54 से म.नं. 74 तक रैवाराम/रामा से कैलाश/नल्लू के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	14	---	म.नं. 76 से म.नं. अंत तक आशाबाई / शेर खा से इमरान / नुरु खा	अनारक्षित महिला
पंच	15	कोटल्याखेडी	म.नं. 1 से म.नं. 14/क तक रमेश / जयराम से मलखान / श्रीराम के मकान तक	अनारक्षित
पंच	16	---	म.नं. 15 से म.नं. अंत तक कोकिलाबाई/यशवतसिंह से सुबोध/गोरीशकर के मकान	अनुसूचित जाति
पंच	17	दुधकच्छ	म.नं. 1 से म.नं. अंत तक दशरथ / मानसिंह से रामकिशोर/कन्हेयालाल के मकान	अनारक्षित

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत कुकरावद खण्ड हरदा के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

सारणी

9	सरपंच			अनारक्षित महिला
पंच	1	कुकरावद	म.नं. 1 से म.नं. 19 तक अनोखी/देवा से अमरावती/किशोर के मकान तक	अनुसूचित जाति
पंच	2	---	म.नं. 20 से म.नं. 33 तक बसकर/किशन से जयपाल/भैरराज के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	3	---	म.नं. 34 से म.नं. 49 तक शंकरलाल/सुलसीराम से सुनीता/श्रीराम के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	4	---	म.नं. 50 से म.नं. 63 तक रामरतन/बालाराम से आरती/सत्यनारायण के मकान	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	5	---	म.नं. 64 से म.नं. 81 तक बालाराम/रामदास से प्रमिला/धन्नालाल के मकान तक	अनारक्षित
पंच	6	---	म.नं. 83 से म.नं. 94 तक हरीप्रसाद/गिरिधारी से क्षमा/प्रवीण के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	7	---	म.नं. 95 से म.नं. 108 तक राधेलाल/शिवलाल से नर्मदा/हीरा के मकान तक	अनुसूचित जाति
पंच	8	---	म.नं. 118 से म.नं. 128/2 तक अन्तरसिंग/जनमत से युक्ता/रामोतार के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	9	---	म.नं. 129 से म.नं. 140 तक प्रहलाद/जमराव से आरती/सोनू के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	10	---	म.नं. 140ख से म.नं. 150 तक राजू/भययालाल से राहुल/महेश के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	11	---	म.नं. 152 से म.नं. 178 तक रमा/सत्यनारायण से ओमप्रकाश/शंकरदयाल के मकान	अन्य पिछडा वर्ग
पंच	12	---	म.नं. 180 से म.नं. 199 तक मांगीलाल/पन्नालाल से प्रमिला/गणेश के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	13	---	म.नं. 200 से म.नं. 226 तक रुखमणी/मनोहर से क्षमा/अशोक के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग
पंच	14	---	म.नं. 228 से म.नं. 260 तक जयनारायण/पूनमचंद से संगीता/हेमंत के मकान तक	अनारक्षित
पंच	15	---	म.नं. 261 से म.नं. 289 तक भागवती/चंपालाल से रंजना/दीपक के मकान तक	अनारक्षित
पंच	16	---	म.नं. 290 से म.नं. अन्त तक नर्मदा/प्रहलाद से कपिल/पन्नालाल के मकान तक	अनारक्षित
पंच	17	झुण्डगांव	म.नं. 1 से म.नं. 20 तक रेशम/बाबू से भमता/सुरेश के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	18	---	म.नं. 21/1 से म.नं. 39 तक किशोर/रामकिशन से सुमाना/धुव कुमार के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	19	---	म.नं. 40 से म.नं. अन्त तक तुलसीबाई/रामलाल से शिवओम के मकान तक	अनुसूचित जाति
पंच	20	सुल्तानपुर	म.नं. 2 से म.नं. अन्त तक जाकिर/असिफ से सावरा/गफ्फार के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **रन्हाईकला** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है।

सारणी

10	सुरपंच			अनारक्षित	
	पंच	1	रन्हाईकला	म.नं. 1 से म.नं. 27/1 तक शबेलाल/मान्या से संदीप/भवानीशंकर के मकान तक	अनुसूचित जाति
	पंच	2	---	म.नं. 29 से म.नं. 50 तक गणेश/जोखीलाल से सखाराम/पंचम के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	3	---	म.नं. 51 से तक 77 तक रामभरोस /सखाराम से कमला/रामेश्वर के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	4	---	म.नं. 79 से म.नं. 98 तक शेकुन/रामलाल से गहेश/शिवनारायण के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
	पंच	5	---	म.नं. 99/1 से म.नं. 110 तक केवल/शिवकरण से भागीरथ/चम्पालाल के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	6	---	म.नं. 111 से म.नं. 132 तक मोतीराम/चंपालाल से सीताराम/मदनलाल के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
	पंच	7	---	म.नं. 133 से म.नं. 148 तक कोगलराम/ओंकर से मुरलीधर/बद्रीप्रसाद के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
	पंच	8	---	म.नं. 149 से म.नं. 167 तक किशोर/जागेश्वर से रमेश/मोहनलाल के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग
	पंच	9	---	म.नं. 168 से म.नं. 189 तक चंपालाल/मोहन से गयाप्रसाद/श्यामलाल के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग
	पंच	10	---	म.नं. 190 से म.नं. 204 तक सत्यानारायण/बृजलाल से हरिराम/जोखीलाल के मकान	अनारक्षित महिला
	पंच	11	---	म.नं. 205 से म.नं. 223 तक रामदास/जोखीलाल से अशोक/सालकराम के मकान	अनारक्षित
	पंच	12	---	म.नं. 224 से म.नं. 246 तक हरिराम/गेंदालाल से पांचा/गणपत के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	13	---	म.नं. 247 से म.नं. 273 तक रतिराम/गणपत से चैनसिंह/समोत्या के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	14	---	म.नं. 275 से म.नं. 302 तक कुसुम/गोकुल से गोवर्धन/जतन के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	15	---	म.नं. 303 से म.नं. 310 तक विष्णु/शिवकरण से शिवप्रसाद/बदरूलाल के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	16	---	म.नं. 312 से म.नं. 366 तक लक्ष्मण/सुंदरिया से प्रमोद/दुर्गाप्रसाद के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	17	---	म.नं. 367 से म.नं. 332क तक कुलदीप/बद्रीप्रसाद से मथुरादास/काशीराम के मकान	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	18	---	म.नं. 334 से म.नं. 358 तक द्वारकाप्रसाद/कशीराम से गंगाप्रसाद/बाबूलाल के मकान	अनारक्षित महिला
	पंच	19	---	म.नं. 359 से म.नं. 376 तक रामदुलारी/किशोर से भगवानदास/दीनदयाल के मकान	अनुसूचित जाति
	पंच	20	---	म.नं. 377 से म.नं. अन्त तक सविता/गरिबदास से रामबकश/छगन के मकान तक	अनुसूचित जाति
	पंच		भागानर विधान	---	

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **कडौलाउबारी** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है।

सारणी

11	सुरपंच			अन्य पिछडा वर्ग महिला	
	पंच	1	कडौलाउबारी	म.नं. 1 से म.नं. 9/1 तक जोरबी / छोटन खा से रेखा/नैनसिंग के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग
	पंच	2	---	म.नं. 9/2 से म.नं. 17/2 तक उदयसिंग /घनश्याम से राधाबाई/राजेंदसिंग के मकान	अनारक्षित महिला
	पंच	3	---	म.नं. 17/3 से म.नं. 24 तक देवीसिंग / बापूसिंग से राज/जगन्नाथ के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	4	---	म.नं. 25 से म.नं. 38 तक हरिबकश / मिश्रीलाल से सुलोचना/हरिसह के मकान	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	5	---	म.नं. 39 से म.नं. 64 तक हुसेन खा/शेखलाल से छीना/इकलाल खा के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	6	---	म.नं. 65 से म.नं. 65 तक हसरतवती/मजीदखा से रीतूराज/किशोर जाट के मकान	अनारक्षित
	पंच	7	---	म.नं. 66 से म.नं. 86 तक बाबूलाल/ नाथूराम से सुरज/ फुलचंद के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
	पंच	8	---	म.नं. 87 से म.नं. 102 तक रामलाल / हजारी से अखिल/सुरेशचंद विश्वाई के	अनारक्षित महिला

	1	2	3	4	5
पंच	9	---	---	म.नं. 103 से म.नं. 114 तक सुभाष / जगदीश से शशीनामी / जाहिद के मकान तक	अनारक्षित
पंच	10	---	---	म.नं. 115 से म.नं. 122/2 तक शशबीर / बाबू / अतीक / सिकदार खा के मकान तक	अनारक्षित
पंच	11	---	---	म.नं. 126 से म.नं. 140/1 तक बफातवी / कासम खाँ से वरक / इफलाक के मकान तक	अनारक्षित
पंच	12	---	---	म.नं. 141 से म.नं. 153 तक कैलाश / रंगलाल से धर्मद/गणेश के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	13	---	---	म.नं. 154 से म.नं. अंत तक अकीना / इबहिम खा से गंगाबाई / नर्मदाप्रसाद के	अनुसूचित जनजाति

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **सामरधा** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के,जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी मे दर्शाये गये अनुसार है ।

सारणी

12	सरपंच				अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	1	सामरधा	म.नं. 1 सीता बाई के मकान से म.क्र.13 उमेश के मकान तक		अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	2	---	म.नं. 14 गुन्ना के मकान से म.क्र.30 निर्मल कुमार के मकान तक		अनुसूचित जाति महिला
पंच	3	---	म.नं. 31 गोरेलाल के मकान से म.क्र. 38 आनंद सारन के मकान तक		अनारक्षित महिला
पंच	4	---	म.नं. 39 रनछोडजी के मकान से म.क्र. 49 बृजमोहन के मकान तक		अनुसूचित जनजाति
पंच	5	---	म.नं. 50क बालाराम/श्रीकिशन मकान से म.क्र. 58 संतोष के मकान तक		अनारक्षित
पंच	6	नहालखेडा	म.नं. 2 तुलसीराम मकान से म.क्र.22 नबा के मकान तक		अनुसूचित जनजाति
पंच	7	---	म.नं. 23 शारदा बाई मकान से म.क्र. 33 सचिन के मकान तक		अनारक्षित महिला
पंच	8	---	म.नं. 34 रामोतार के मकान से म.क्र.46 करणलाल के मकान तक		अनारक्षित
पंच	9	रन्धाखेडी	म.नं. 3 मेहताप के मकान से म.क्र. 14 राधेश्याम के मकान तक		अनारक्षित
पंच	10	---	म.नं. 15 अमर सिंह के मकान से म.क्र.41 दयाराम के मकान तक		अनुसूचित जनजाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **नीमगांव** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के,जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी मे दर्शाये गये अनुसार है ।

सारणी

13	सरपंच				अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	1	नीमगांव	म.नं. 1 से म.नं. 22 तक नर्मदाप्रसाद/जागेश्वर से अर्जुनलाल/केशवर के मकान तक		अनारक्षित महिला
पंच	2	---	म.नं. 24 से म.नं. 40 तक सत्यनारायण/प्रकाश से गजराज/कुंजीलाल के मकान तक		अनुसूचित जाति महिला
पंच	3	---	म.नं. 40क से म.नं. 50/1 तक शोभाराम/बलदेव से रामदयाल/हजारी के मकान तक		अनारक्षित
पंच	4	---	म.नं. 51 से म.नं. 67 तक लक्ष्मीबाई/गंगाविशन से सुखलाल/शामू के मकान तक		अनुसूचित जनजाति
पंच	5	---	म.नं. 68 से म.नं. 91 तक सुखलाल/रामसुख से शिवराम/भोती		अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	6	---	म.नं. 91/1 से म.नं. 105/1 तक मुकेश/बाबूलाल से बुद्धु खान के मकान तक		अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	7	---	म.नं. 106 से म.नं. 116/ज तक रामोतार / मोजीराम से हरनाथ/बाबूलाल के मकान तक		अनुसूचित जनजाति
पंच	8	---	म.नं. 118 से म.नं. 128 तक गजानंद/कमलसिंग से शारदाबाई/शमकेशोर के मकान तक		अनारक्षित महिला
पंच	9	---	म.नं. 127 से म.नं. 130 तक दिनेश/गंगाराम से शिवनारायण /रामचंद के मकान तक		अनारक्षित
पंच	10	---	म.नं. 139 से म.नं. 150 तक रामलाल/निमा से द्रोपती बाई/बगडावत के मकान तक		अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	11	---	म.नं. 151 से म.नं. 170 तक रामेश्वर/भोपी से प्रवीण/भोती सिंग के मकान तक		अनारक्षित

1	2	3	4	5
पंच	12	उडवा	म.नं. 1 से म.नं. 21 तक खिया/भोजीराम से सुव्या/गणेश के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	13	---	म.नं. 23 से म.नं. 167/1 तक शामथारी/जयकिशन से श्यामलाल/तेजा के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	14	मिर्जापुर	म.नं. 1 से म.नं. 11 तक कैलाश/भोजीलाल से रामोतार/पन्नालाल के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	15	---	म.नं. 12 से म.नं. 26 तक प्यारसिंग/भागचंद से मनसुखी/डाली के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	16	डोभनगड	म.नं. 1 से म.नं. 16 तक सोना बाई/बालाराम से किशोर/मांगीलाल के मकान	अनारक्षित महिला
पंच	17	---	म.नं. 19 से म.नं. 31 तक उमाशंकर/शुनाथ से प्रेमनारायण/घासीराम के मकान	अनारक्षित
पंच	18	---	म.नं. 31/1 से म.नं. 44 तक श्यामलाल/रामलाल से आशाबाई/मदन के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	19	---	म.नं. 46/1 से म.नं. 83/1 तक बालमुकुन्द/कुंजीलाल से गुलाबचंद/मांगीलाल के मकान	अनारक्षित

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **कायागांव** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

सारणी

14	सरपंच			अनुसूचित जनजाति
पंच	1	कायागांव	म.नं. 1 से म.नं. 13 तक केशव/प्रसाद से संजू/अर्जुन के मकान तक	अनारक्षित
पंच	2	---	म.नं. 14 से 27 तक रामभरोस से सुजाता /श्यामलाल के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	3	---	म.नं. 28 से म.नं. 39 तक पन्नालाल से राहुल/रामनारायण के मकान तक	अनुसूचित जाति
पंच	4	---	म.नं. 40 से म.नं. 47 तक रामकली/राजाराम से जितेन्द्र/उमेश के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	5	---	म.नं. 47क से म.नं. 58 तक पूनमचंद से मनुदेवी लाल के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	6	---	म.नं. 61 से म.नं. 69/2 तक सरजू/रामचन्द्र से लक्ष्मी/नर्मदाप्रसाद के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	7	---	म.नं. 70 से म.नं. 79 तक सुमेर सिंह /रुखड्या से हरनारायण के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	8	---	म.नं. 80 से म.नं. 87 तक गुलाब सिंग से रेखा अशोक के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	9	---	म.नं. 88 से म.नं. 97/1 तक उमेश सिंग से हुकुमचंद के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	10	---	म.नं. 97/2 से म.नं. अंत तक जुगराज से हीरालाल के मकान तक	अनुसूचित जनजाति

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **देवतालाब** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

सारणी

15	सरपंच			अनुसूचित जाति
पंच	1	देवतालाब	म.नं. 1 से म.नं. 24 तक बसू बाई/अनार सिंह से गेंदालाल/उमराव के मकान	अनुसूचित जाति महिला
पंच	2	---	म.नं. 26 से म.नं. 36 तक रामनिवास/रामप्रसाद से रामहेत/गब्बुलाल के मकान	अनारक्षित महिला
पंच	3	---	म.नं. 37 से म.नं. 61 तक रमेश/चैनसिंह से हेमराज/रामलाल के मकान तक	अनारक्षित
पंच	4	---	म.नं. 62 से म.नं. 79 तक हरकुबाई/भुजराम से धन्नालाल/किशनलाल के मकान	अनारक्षित महिला
पंच	5	---	म.नं. 80 से म.नं. 88 तक रामनारायण/काकाजी से हरिचंदर सिंग के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	6	---	93 से अन्त तक किशनलाल/रामथारी से रामधर के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	7	अतरसामा	म.नं. 1 से म.नं. 16 तक सुखलाल/ओकार से कली/रामकिशन के मकान तक	अनुसूचित जाति
पंच	8	---	म.नं. 20 से म.नं. 41 तक लक्ष्मण/बाबू से हरिशाम/भोजीराम के मकान तक	अनारक्षित

1	2	3	4	5
पंच	9	---	म.नं. 41क से म.नं. 58 तक लालबहादुर/रामलाल से जगदीश/मूलचंद के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	10	---	म.नं.59 से 74क तक रामबकस/रामभाउ से सरजू बाई/मोजीराम के मकान	अनुसूचित जाति
पंच	11	---	म.नं. 76 से म.नं. अंत तक राममरोस/गंगाराम से वर्षाबाई/मुकेश कुमार के मकान	अनुसूचित जनजाति
पंच	12	कोलवा	म.नं.1 से म.नं. 18 तक जगदीश/आशाराम से रेवाराम/हेमाजी के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	13	---	म.नं.19 से म.नं. 29तक जगन्नाथ/किशनलाल से नर्वदी/हेमाजी के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	14	---	म.नं.30 से म.नं. 40ख तक हरीराम/मोतीराम से माधो/गेंदालाल के मकान तक	अनारक्षित
पंच	15	---	म.नं. 40ग से म.नं. 58 तक नवलसिंह/दोलतराम से जसवंत/बाबूलाल के मकान	अनुसूचित जनजाति
पंच	16	---	म.नं.59 से म.नं. 81 तक शिव/मंगीलाल से रेवाराम/आशाजी के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	17	---	म.नं. 83 से म.नं. अन्त तक बसंती /शंकरलाल से कृपा बाई/रामू के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत रहटाखुर्द खण्ड हरदा के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के,जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

सारणी

16.	सरपंच			अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	1	रहटाखुर्द	म.नं. 1 से म.नं. 16/3 तक रोशन से निसार खा के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	2	---	म.नं. 17/1 से म.नं. 28 तक सत्तार खा से छोटे खा के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग
पंच	3	---	म.नं. 30 से म.नं. 47 तक अहसान खा से बुजलाल के मकान तक	अनारक्षित
पंच	4	---	म.नं. 48 से म.नं. 63 तक प्रेमबाई से राममरोस के मकान तक	अनुसूचित जाति
पंच	5	---	म.नं. 64 से म.नं. 75 तक सालकराम से रसीद खा के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	6	---	75क से 90 समीर खा से सुनिल के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	7	---	91 से 105 समीर खा से सुनिल के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग
पंच	8	---	106 से 119 अमरदास से रणछोड के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	9	---	म.नं. 120 से म.नं. 135 तक दशरत से जलील खा के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	10	---	म.नं. 136 से म.नं. 149 तक रामप्रसाद से सेवकराम के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	11	---	म.नं. 150 से म.नं. 156 तक राधेश्याम से ईशरतजहाँ के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	12	---	म.नं. 159 से म.नं. 174क तक आधार से रहेमान खा के मकान तक	अनारक्षित
पंच	13	---	म.नं. 174/थ से म.नं. 192 तक आजाद खा से विजय सिंह के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	14	विरजाखेडी	म.नं. 1 से म.नं. 8क तक रेहमान से मुबारिक खा के मकान तक	अनारक्षित
पंच	15	---	म.नं. 9 से म.नं. 45 तक जब्बार खा से अलताफ खा के मकान तक	अनारक्षित

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **बालागांव** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

सारणी

17	सरपंच			अनुसूचित जनजाति महिला	
	पंच	1	बालागांव	म.नं. 1 से म.नं. 11 तक श्रवण कुमार / सुरेश से गोपाल / श्रीराम के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
	पंच	2	---	म.नं. 12 से म.नं. 28 तक रामलाल / नारायण से अरुणा / अखलेश के मकान	अनारक्षित
	पंच	3	---	म.नं. 29 से म.नं. 42 तक नारायण / चंपालाल से गणेश / नानकराम के मकान	अनारक्षित
	पंच	4	---	म.नं. 43/2 से म.नं. 62 तक फतु / बिहारी से शिवकुमारी / राहुल के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	5	---	म.नं. 62 छ से म.नं. 83 तक कसुम / रमेश से शशी // रामदास के मकान तक	अनुसूचित जाति
	पंच	6	---	म.नं. 84 से म.नं. 89 तक गोकुल प्रसाद धासीराम से रामलाल / सिधाराम के मकान	अनुसूचित जाति
	पंच	7	---	म.नं. 100 से म.नं. 118 तक रमेश / ग्यारसराग से शीतल / संतोष के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग
	पंच	8	---	म.नं. 119 से म.नं. 136 तक मदन / जीवराज से नर्मदा / पतिराय के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	9	---	म.नं. 137 से म.नं. 150 तक सती / रामकरण से अरविंद / हृदयराम के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग
	पंच	10	---	म.नं. 152 से म.नं. 162 / 3 तक पुनीया / तुलसीराम से संतु / हनुलाल के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	11	---	162 क से 169 / 2 दयाराम / रघुलाल से मनीष / ओमप्रकाश के मकान	अनुसूचित जनजाति
	पंच	12	---	म.नं. 170 से म.नं. 178 तक सुभरसिंह / विशन से प्रतिमा / बंदीप्रसाद के मकान	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
	पंच	13	---	म.नं. 179 से म.नं. 195 तक दुलारी / कन्हैयाल से मनोज / आत्माराम के मकान	अनारक्षित महिला
	पंच	14	---	म.नं. 195 क से म.नं. 209 तक धनश्याम / सीताराम से जगना / पन्नालाल के मकान	अनारक्षित
	पंच	15	---	म.नं. 210 से म.नं. 221 क तक शिवनारायण / रघुनाथ से रामबाई / हरिशंकर के	अनारक्षित
	पंच	16	---	म.नं. 221 ख से म.नं. 234 तक सुंदरलाल / चिरंजीलाल से हंसा / अक्षयनारायण के	अनारक्षित महिला
	पंच	17	---	म.नं. 235 से म.नं. 246 तक श्री किशन / मुलचंद से हरमोविंद / लक्ष्मीनारायण के	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	18	---	म.नं. 248 क से म.नं. 268 तक चरणसिंह / गोपाल सिंह से विजेश / जमनाप्रसाद के	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	19	---	म.नं. 268 / 1 से म.नं. 280 तक जयनारायण / रामधार से हरिओम / सुखराम के मकान	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	20	---	म.नं. 280 क से म.नं. अंत तक रमेश कुमार / श्रीराम से पार्वती / कलीराम के मकान	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
	पंच		भुवानीखेडी विरान		

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **बूढ़डा** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

सारणी

18	सरपंच			अनुसूचित जनजाति	
	पंच	1	बूढ़डा	म.नं. 1 से म.नं. 9 तक किशोरी सिंग से पवन/लक्ष्मीराम के मकान तक	अनुसूचित जाति
	पंच	2	---	म.नं. 9ख से म.नं. 17 तक नर्मदा/गिरधारी से अहल्या/जयन्नाथ के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	3	---	म.नं. 17क से म.नं. 27 तक ओमप्रकाश/रघुश्याम से हरिराम/रामकिशन के मकान	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
	पंच	4	---	म.नं. 28 से म.नं. 39 तक जागेश्वर/चम्पालाल से त्रिवेणी/बलराम के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	5	---	म.नं. 40 से म.नं. 47 तक पंगाराम/लालचंद से रामदास/बलिराम के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग
	पंच	6	---	म.नं. 47क से म.नं. 58 तक धिमला/शंतिराम से बालाराम/शिवराम के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	7	---	म.नं. 59 से म.नं. 69/1 तक नर्मदा/कन्ना से शंकर/रामनारायण के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	8	---	म.नं. 69/2 से म.नं. 80 तक मथुरा/शिवराम से चम्पालाल/देवकरण के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
	पंच	9	---	म.नं. 81/2 से म.नं. 94 तक सलिला/दयाराम से सुन्दर/साबुलाल के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	10	दिनकर पुरा	म.नं. 95 से म.नं. अंत तक बनु बाई/भुजराम से किशोर/बाबूलाल के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत जिजगांवखुर्द खण्ड हरदा के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के,जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

सारणी

19	सरपंच			अन्य पिछड़ा वर्ग	
	पंच	1	जिजगांवखुर्द	म.नं. 1क से म.नं. 15 तक गुलाब/किशोर से रामगोपाल के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	2	---	म.नं. 16 से म.नं. 26/1 तक बसंत से आरती के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	3	---	म.नं. 27 से म.नं. 47 तक कीमल से गौराबाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग
	पंच	4	---	म.नं. 49/1 से म.नं. 61ख तक लाडकी बाई से मोहन के मकान तक	अनुसूचित जाति
	पंच	5	---	म.नं. 62 से म.नं. 84 तक भागीरथ से ज्योति के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	6	---	म.नं. 85 से म.नं. 95 तक जगदीश से पिन्की के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	7	---	म.नं. 95क से म.नं. 106 तक शिवनारायण से राजकुमारी के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	8	---	म.नं. 106/1 से म.नं. 128 तक अनिता से क्षमा के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	9	---	म.नं. 129 से म.नं. 146 तक श्यामलाल से प्रियंका के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	10	---	म.नं. 147 से म.नं. 181तक श्यामलाल से ज्योति के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	11	---	म.नं. 182 से म.नं. 200 तक अशरफ से लक्ष्मी के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	12	---	म.नं. 203 से म.नं. 232 तक मुकेश से गायत्री के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
	पंच	13	---	म.नं. 234 से म.नं. अन्त तक रामराज से कुसुमा बाई के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
	पंच		खेडी बोंदर विरान डगावाबलवन्त वीरान		

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत सिरकम्बा खण्ड हरदा के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के,जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

सारणी

20	सरपंच			अन्य पिछड़ा वर्ग	
	पंच	1	सिरकम्बा	म.नं. 1 से म.नं. 22 तक पारवती/देवलाल से सपना/भागवानदास के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	2	---	म.नं. 23 से म.नं. 47 तक लीला/कोमलराम से रंजीत/हरीराम के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
	पंच	3	---	म.नं. 48 से म.नं. 69तक राधा/छीतर से प्रतिभा/सत्यनारायण के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	4	---	म.नं. 70 से म.नं. 84 तक बदीप्रसाद/शिवराम से कीर्ति/संतोष के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	5	---	म.नं. 85 से म.नं. 95 तक श्रीकिशन/गुलाब से दीक्षा/गंगाराम के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग
	पंच	6	---	म.नं. 97 से म.नं. 112तक मनगोहन/प्रहलाद से शुभान/हरमोविन्द के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	7	---	म.नं. 113 से म.नं. 128 तक कमला बाई/शिवलाल से सोनाली/दुर्गाप्रसाद के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	8	---	म.नं. 129 से म.नं. 142तक शांतिलाल/रामरतन से सुगंध/रामदयाल के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	9	---	म.नं. 143 से म.नं. 154 तक रामदास/सुकु से मुरलीधर/भगवान के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
	पंच	10	---	म.नं. 154 क से म.नं. 170 घ तक हरकिशन/रामप्रसाद से शिव/प्रेमशंकर के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	11	---	म.नं. 171 से म.नं. 177 तक नर्बदी बाई/मांगीलाल से गुड्डो/नंदराम के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	12	---	म.नं. 178 से म.नं. 217 क तक राममरोस/रामकरण से प्रियंका/शंकर के मकान तक	अनुसूचित जाति
	पंच	13	---	218 से अन्त शांतिलाल/गौरी से दिनेश/रामाश्वर के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **मोहनपुर** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

सारणी

21	सरपंच				अनारक्षित महिला
	पंच	1.	मोहनपुर	म.नं. 1 से म.नं. 18 तक सरदार/रामप्रसाद से सुशीला/रेवाशंकर के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	2	---	म.नं. 17 से म.नं. 28 तक जगदीश/नर्मदाप्रसाद के मकान से	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
	पंच	3	---	म.नं. 29 से म.नं. 41 तक कृष्णा/रामप्रसाद से चैतराम/ताराचंद के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	4	---	म.नं. 42 से म.नं. 54 तक शिवराम/नाथुराम से कल्लू/मगल्या के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	5	---	म.नं. 54 से म.नं. 69 तक आजाद खा/गुलशेर खा से रामभरोस/सुखदेव के मकान	अनुसूचित जाति
	पंच	6	---	म.नं. 70 से म.नं. 84 तक रामाछार/देवकरण से नर्मदाप्रसाद/कल्लू के मकान तक	अनुसूचित जाति
	पंच	7	---	म.नं. 85 से म.नं. 99 तक गौरीशंकर/रामदेव से रामकिशन/हीराचंद के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	8	---	म.नं. 100 से म.नं. 120 तक किशोरी/बिहारी से नर्मदाप्रसाद/गोरखन के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
	पंच	9	---	म.नं. 121 से म.नं. अन्त तक रेवाराम/नर्मदाप्रसाद से अन्त तक के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
	पंच	10	दुलिया	म.नं. 1 से म.नं. 20 तक नंदकिशोर/रामरतन से शिवनारायण/हिरालाल के	अनारक्षित
	पंच	11	---	म.नं. 22 से म.नं. 42 तक हरीप्रसाद/मांगीलाल से रामगोपाल/मूलचंद के मकान	अन्य पिछड़ा वर्ग
	पंच	12	---	म.नं. 42 से म.नं. 61 तक गंगाराम/रामकरण से विरजी/रणछोड के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	13	---	म.नं. 62 से म.नं. 83 तक जगदीश/रणछोड से गल्लू/चेतराम के मकान तक	अनुसूचित जाति
	पंच	14	---	म.नं. 84 से म.नं. 98 तक चैती/लखनलाल से मुकेश/रामप्रसाद के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	15	---	म.नं. 99 से म.नं. 122 तक सुरेश/रामप्रसाद से हेमंत/जयनारायण के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	16	---	म.नं. 123 से म.नं. 138 तक 8 सुलोचना/जयनारायण से यहयसिंह/अमरसिंह के	अन्य पिछड़ा वर्ग
	पंच	17	---	म.नं. 139 से म.नं. 157 तक सुभाषचंद/बुधारया से केलाश/नन्दराम के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	18	---	158 से अन्त निर्भयदास/बुधारया से अन्त तक के मकान तक	अनारक्षित
	पंच		जामुनिया विरान बाघडिया विरान छोड़ी विनायक विरान		

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **झाडपा** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

सारणी

22	सरपंच				अनुसूचित जाति महिला
	पंच	1	झाडपा	म.नं. 1 से म.नं. 11 तक श्रीराम/पन्नालाल से ममता/राजकुमार के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
	पंच	2	---	म.नं. 12 से म.नं. 23 तक क्षिपरा/रामदास से सुनीता/सुरेश के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	3	---	म.नं. 24 से म.नं. 42 तक लीला/मांगीलाल से कोकिला/राजेश के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	4	---	म.नं. 44 से म.नं. 82 तक इंदर/भारत से रहीशा/मजाद खा	अन्य पिछड़ा वर्ग
	पंच	5	---	म.नं. 63 से म.नं. 85 तक फूलबी/काले खा से अर्चना/सतीश के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	6	---	म.नं. 86 से म.नं. 103 तक जुगल/गेंदालाल से संध्या/अर्जुन के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
	पंच	7	---	म.नं. 103 से म.नं. 118 तक मंजू/केलाश से मधु/बालकृष्णा के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	8	---	म.नं. 118 से म.नं. 130 तक मांगीलाल/मनू से रमजान/नयाब के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	9	---	म.नं. 132 से म.नं. 149 तक राधेश्याम/आत्माराम से संनंदा/अखिलेश के मकान तक	अनारक्षित महिला

	1	2	3	4	5
पंच	10	---	---	म.नं. 150/1 से म.नं. 162 तक नंदकिशोर/हीरालाल से दुर्गा/हरगोविंद के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	11	---	---	म.नं. 163 से म.नं. 176 तक रामाधार/सीताराम से नीरज/कमल के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग
पंच	12	---	---	म.नं. 177 से म.नं. 187 तक उमाशंकर/रामचरण से सलमान/सुभान के मकान तक	अनारक्षित
पंच	13	---	---	म.नं. 188/1 से म.नं. 202 तक शिवराम/मातीराम से गुरुवरज/किशोर के मकान तक	अनारक्षित
पंच	14	---	---	म.नं. 203 से म.नं. 210 तक रामरूप/रामरतन से मंजू/मुकेश के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	15	---	---	म.नं. 210न से म.नं. 228 तक भारत/भावसिंग से जाविद/शहीद के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	16	---	---	म.नं. 229 से म.नं. 244 तक अल्लुखा/हीरेखा से रोहित/अनूप के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	17	---	---	म.नं. 245 से म.नं. 263 तक धनश्याम/पुनमचंद से श्रद्धा/बंशीलाल के मकान तक	अनारक्षित
पंच	18	झुण्डपाव	---	म.नं. 1 से म.नं. 16/4 तक जयगोपाल/कुंजीलाल से रानू/चंद्रप्रकाश के मकान	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	19	---	---	म.नं. 16/5 से म.नं. 33 तक कन्हैया/रामप्रसाद से अनुसुईया/पुरनलाल के मकान	अनुसूचित जाति महिला
पंच	20	---	---	म.नं. 34/1 से म.नं. 49/2 तक देवराम/गरीबा से विमला/दिनेश के मकान तक	अनुसूचित जाति

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **रैसलपुर खण्ड हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है।

सारणी

23	सरपंच				अनुसूचित जाति
पंच	1	रैसलपुर	---	म.नं. 1 से म.नं. 16 तक प्यारीबाई/किशोरी से बसकरबाई/संजय के मकान तक	अनारक्षित
पंच	2	---	---	म.नं. 17 से म.नं. 42 तक रमेशचंद/रतनलाल से मानसिंग/कन्नी के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	3	---	---	म.नं. 42क से म.नं. 67 तक राधेलाल/मोतीराम से गुड्डू/चैतू	अनुसूचित जनजाति
पंच	4	---	---	म.नं. 68 से म.नं. 78 तक मानसिंग/शिवराम से भागवतीबाई/बृजलाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	5	---	---	म.नं. 79 से म.नं. 100 तक जंगली/नन्दराम से गजरीबाई/मिश्राजी	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	6	---	---	म.नं. 101 से म.नं. अन्त तक सोमलाल/बटू से संजय/राधेश्याम	अनारक्षित महिला
पंच	7	गुठानिया	---	म.नं. 1 से म.नं. 16/1 तक बलमंत/सत्तू से मुनीबाई/जागेश्वर	अनारक्षित महिला
पंच	8	---	---	म.नं. 16/1 से म.नं. 36 तक रामगोपाल/छननूलाल से रामकली/राधे	अनुसूचित जनजाति
पंच	9	---	---	म.नं. 37 से 55 तक जिराती/दौलत से रामवती/रावजी	अनारक्षित
पंच	10	---	---	म.नं. 56 से म.नं. अन्त तक मदनकुमार/मुन्ने सिंघ से राजन्ती/पीतिराज	अनुसूचित जनजाति
पंच	11	झिरी	---	म.नं. 1 से म.नं. 18 तक बलीराम/सीगदार से कलाबाई/गयाराम	अनुसूचित जनजाति
पंच	12	---	---	19 से म.नं. 37 तक देवकरण/छननू से राजेश/सुखलाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	13	---	---	म.नं. 38 से म.नं. 54 तक केशरबाई/मांगीलाल से कान्तीबाई/बलीराम	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	14	---	---	म.नं. 55 से म.नं. अन्त तक सुमन बाई/मोजीलाल से शाहजादबी/शादिक	अनुसूचित जनजाति
पंच	15	झल्लार	---	म.नं. 1 से म.नं. 15 तक मगनलाल/रतन से हरभोन सिंग/दिलीप सिंग	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	16	---	---	16 से 29 तक मुनीयाबाई/दुकल से सावित्री बाई/रामकृष्ण के मकान	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	17	---	---	30 से 41 तक अनोखीलाल/मदन से दीपालाल/राधेश्याम के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	18	---	---	म.नं. 42 से म.नं. अन्त तक भूत्तु/बादल से सुनील/अनोखीलाल के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	19	मालौर	---	म.नं. 1 से म.नं. 19 तक बाबूलाल/नानू से ममता बाई/सुन्दरलाल के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	20	---	---	म.नं. 20 से म.नं. अन्त तक जंगली/छौदू से सुमनबाई/प्यारेलाल के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **मगरुधा** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

सारणी

24	सरपंच			अनुसूचित जाति महिला	
	पंच	1	मगरुधा	म.नं. 1 से म.नं. 19 तक हरिशंकर/मैयालाल से जयकिशन/रामरतन के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग
	पंच	2	---	म.नं. 22 से म.नं. 51 तक गायत्री/सेरुश से मदन/बाबूलाल के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	3	---	म.नं. 53 से म.नं. 78 तक कमला/छन्नूलाल से मकरम सिंह के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
	पंच	4	---	म.नं. 79 से म.नं. 100/1 तक अमित/विष्णुप्रसाद से कैवलराम/राममउ के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	5	---	म.नं. 101 से म.नं. 119 तक कैलाशचंद/जागेश्वर से रमेशचंद/शोभासंग के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	6	---	म.नं. 120 से म.नं. 152 तक मैयालाल/रामलाल से बसीरबी/अजगरअली के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग
	पंच	7	---	म.नं. 153 से म.नं. 178 तक कुर्बान/गुल्लुखा से रजा/आजाद खां के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	8	---	म.नं. 179 से म.नं. 195/1 तक हीरेखां/बाबूखां से जगदीश/उभराव के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	9	---	म.नं. 31क से म.नं. 230 तक श्यामबाई/किशोरी से इरीराम/मांगीलाल के मकान तक	अनुसूचित जाति
	पंच	10	---	म.नं. 231 से म.नं. 249 तक रामभरोस/बाबूलाल से बफीराम/सुखराम के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	11	---	म.नं. 250 से म.नं. 266 तक भागीरथ/हीला से प्रहलाद/रामेश्वर के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	12	---	म.नं. 268 से म.नं. 286 तक हरीराम/सुखराम से पुनई/बाबूलाल के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	13	---	म.नं. 287 से म.नं. 309 तक बृजलाल/बाबूलाल से चिरोजी/विहारी के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	14	---	म.नं. 310 से म.नं. 330 तक भिठीया/बिलु से भाउ/भाकला के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	15	---	331 से 345 तक विश्राम/कालू से दादू/बाबूलाल के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	16	---	म.नं. 346 से म.नं. अन्त तक शहीदा/मजीत से दिनेश/कमल के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	17	बरखेडी	म.नं. 1 से म.नं. 18 तक वीनाप्रसाद/मोहनलाल से सुशील/रामस्वरूप के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
	पंच	18	---	म.नं. 19 से म.नं. 35 तक काली/हरलाल से काशी/नंदू के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	19	---	म.नं. 36 से म.नं. 62 तक नर्मदा/नन्दु से गुलाब/जगदीश के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
	पंच	20	---	म.नं. 62/1 से म.नं. अन्त तक राजेन्द्र/गणेश से गोरेलाल/गैदा के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच		कंजर पुरा वीरान कोसा घाटी विरान		

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **गहाल** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

सारणी

25	सरपंच			अनुसूचित जाति	
	पंच	1	गहाल	म.नं. 1 से म.नं. 19 तक भगवानदास/रामनाथ से विजय/गोतीसिंग के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	2	---	म.नं. 22 से म.नं. 39 तक हरगोविंद/बृजलाल से सालकराम/रामेश्वर के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग
	पंच	3	---	म.नं. 39क से म.नं. 59 तक रामबिलास/श्रीराम से नानकराम/श्रीराम के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
	पंच	4	---	म.नं. 60 से म.नं. 81 तक बालकदास/श्रीराम से द्वारकाबाई/जागेश्वर के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	5	---	म.नं. 82 से म.नं. 120 तक अनोखी/मंगल्या से साहू/राधेश्याम के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	6	---	म.नं. 121 से म.नं. 151 तक बसकर/भागीरथ से कमल/नल्पू के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	7	---	म.नं. 152 से म.नं. 177 तक रामोतार/नल्पू से उमा/जगदीश के मकान तक	अनुसूचित जाति
	पंच	8	---	म.नं. 177क से म.नं. 204 तक बृजमोहन/जगदीश से कैलाश/रामाधार के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला

1	2	3	4	5
पंच	9	---	म.नं. 205 से म.नं. 221 तक रामभरोस/रामेश्वर से दिनेश/शंकर के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग
पंच	10	---	म.नं. 221क से म.नं. 238 तक रामदिलाश/बिहारी से रामदास/दामाजी के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	11	---	म.नं. 238क से म.नं. 260 तक प्रहलाद/दामाजी से उदयसिंग/मोक्षसिंग के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	12	---	म.नं. 261 से म.नं. 277क तक छोटीबाई/रामचन्द्र से गजानेद/हरीराम के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	13	---	म.नं. 278 से म.नं. 285 तक आशाराम/शिवप्रसाद से गुलाब/चंदर के मकान तक	अनुसूचित जाति
पंच	14	---	म.नं. 286 से म.नं. 311 तक रामपुरी/शिवपुरी से रामेश्याम/शिवराम के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	15	---	म.नं. 311क से म.नं. 341 ग तक चम्पालाल/मंगल से सचिन/सुरेश के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	16	---	म.नं. 342 से म.नं. 367 तक मांगीलाल/रामकरण से उर्मिला/रामेश्याम के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	17	---	म.नं. 368 से म.नं. 387 तक श्रीराम/धनसिंग से मांगीलाल/आत्माराम के मकान तक	अनारक्षित
पंच	18	---	म.नं. 388 से म.नं. 407 तक गेंदालाल/अत्माराम से रामचंद्र/शिवप्रसाद के मकान	अनारक्षित
पंच	19	---	म.नं. 408 से म.नं. 428क तक हरीप्रसाद/बोंदर से शिवलाल/झोलू के मकान तक	अनारक्षित
पंच	20	---	म.नं. 430 से म.नं. अन्त तक रामस्वरूप/रामकिशन से अन्त के मकान तक	अनारक्षित

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **उगावाशंकर** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के,जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

सारणी

26	सरपंच			अनारक्षित
पंच	1	उगावाशंकर	म.नं. 1 से म.नं. 15 तक केवलराम/राणछोड से रामेश्याम/कालू के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	2	---	म.नं. 16 से म.नं. 37 तक प्रहलाद/किशन से सोना/रामेश्वर के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग
पंच	3	---	म.नं. 38 से म.नं. 51 तक रामनाथ/रामेश्वर से शंकर/रामप्रसाद के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	4	---	म.नं. 52 से म.नं. 68 तक रमेश/रामप्रसाद से भागीरथ/रामकरण के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	5	---	म.नं. 69 से म.नं. 87 तक राजेश/जमीरखान से दयाराम/किशन के मकान तक	अनारक्षित
पंच	6	---	म.नं. 88 से म.नं. 109 तक रामेश्वर/किशन से रामनाथ/शेदू के मकान तक	अनुसूचित जाति
पंच	7	---	म.नं. 110 से म.नं. 126 तक रेवाराम/शेखलाल से जितेन्द्र/शांतिलाल के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	8	---	म.नं. 128 से म.नं. 143 तक जगनाप्रसाद/कचरीया से चैतराम/शिवलाल के मकान	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	9	---	म.नं. 144 से म.नं. 161 तक अनोखी/कन्नू से रामनारायण/घासीराम के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	10	---	म.नं. 163 से म.नं. 176 तक रामचंद्र/गेंदालाल से नारायण/जामेश्वर के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग
पंच	11	---	म.नं. 177 से म.नं. 190 तक गीता/जामेश्वर से ललीता/रामेश्वर के मकान तक	अनारक्षित
पंच	12	---	म.नं. 191 से म.नं. 207/2 तक कैलाश/गयाप्रसाद से पंडरी/अर्जुन के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	13	---	म.नं. 210 से म.नं. 229 तक गीता/रामाधर से मेहताप/सुखराम के मकान तक	अनारक्षित
पंच	14	---	म.नं. 230 से म.नं. 347 तक मीमसिंग/फगनू से दुर्गाप्रसाद के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	15	---	म.नं. 248 से म.नं. अन्त तक कन्हैया/श्रीकिशन से दयाराम/रामसिंह	अनुसूचित जाति
पंच	16	घोडामाफी	म.नं. 1 से म.नं. 11/1 तक बगदी/बिहारी से रमेश/रामरतन के मकान तक	अनारक्षित
पंच	17	---	म.नं. 11/2 से म.नं. अन्त तक गजराम/रामरतन से बुद्ध/मानू के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच		बालपुरा वीरान छुरीखाल वीरान पौपल्यामाफी वीरान		

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **धुरगाडा** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है।

सारणी

27	संरपंच			अनुसूचित जाति महिला	
	पंच	1	धुरगाडा	म.नं. 1 से म.नं. 14 तक पीति/देवीसिंग से अर्चना/शेरसिंग के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
	पंच	2	---	म.नं. 15 से म.नं. 32 तक घासीराम/जयराम से विनीता/देवीसिंग के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	3	---	म.नं. 33 से म.नं. 47/3 तक रघुनाथ/कुजीलाल से गिरजा/भगवान के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग
	पंच	4	---	म.नं. 47/2 क से म.नं. 67 तक रूपसिंग/छत्र सिंग से विवेक/देवीसिंग के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
	पंच	5	---	म.नं. 68 से म.नं. 71/5 तक शुजलाल/रामदयाल से संतोष/रामनाथ के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	6	---	म.नं. 71ड से म.नं. 74 तक किरण/सुनील से रमा/महरसिंग के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	7	---	म.नं. 74क से म.नं. 90 तक त्रिदेवी/नर्मदाप्रसाद से गिरजा/पूनम के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	8	---	म.नं. 91 से म.नं. 104 तक भागीरथ/चंदर सिंग से प्रियंका/मुकेश के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	9	---	म.नं. 105 से म.नं. 118 तक नारायण/भूष से क्षमा/अमरदास के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	10	---	म.नं. 119 से म.नं. अन्त तक राजकुवर/श्रीकिशन से रोहित/बालकृष्ण के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **सुखरास** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है।

सारणी

28	संरपंच			अन्य पिछडा वर्ग महिला	
	पंच	1	सुखरास	म.नं. 2 से म.नं. 15 तक शिमला/गोविंदप्रसाद से धीरज/रामचंद के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	2	---	म.नं. 16 से म.नं. 31/1 तक चम्पालाल/रामनारायण से जितेंद्र/अशोक के मकान	अन्य पिछडा वर्ग महिला
	पंच	3	---	म.नं. 31/2 से म.नं. 44 तक शक्षेश्याम/मेहताप से विवेक/गोविंद के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	4	---	म.नं. 45/1 से म.नं. 62 तक शक्षेश्याम गुलाब से बसु/सुरेश के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	5	---	म.नं. 63/1 से म.नं. 81 तक उमराव/घुनालाल से मालती/उमाकांत के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	6	---	म.नं. 82 से म.नं. 92 तक कैलाश/गंगाराम से आकाशा चौरे/संतोष के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
	पंच	7	---	म.नं. 93 से म.नं. 112 तक रामभरोस/रामदास से सुनीता/रामप्रसाद के मकान	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	8	---	म.नं. 113 से म.नं. 125/1 तक रमाबाई/लखनलाल से संजय/गरीबदास के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
	पंच	9	---	म.नं. 127 से म.नं. 216 तक रामनारायण/श्रीमरा से भीना/मंगलसिंह के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	10	---	म.नं. 145 से म.नं. 155 तक रमेशचंद/चम्पालाल से राकेश/दिनेशचंद के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	11	---	म.नं. 155 ग से म.नं. 174 तक मनोहर/जगन्नाथ से अनिता/दिनेश के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	12	---	म.नं. 175 से म.नं. 197 तक कालूराम/शुजलाल से फूलवती/मूलचंद के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	13	---	म.नं. 198 से म.नं. 213 ड तक लक्ष्मीनारायण/गैदालाल से किशनराव/सदाशिव के	अनुसूचित जाति
	पंच	14	---	म.नं. 213च से म.नं. 223 तक ओमप्रकाश/झब्बल से राहुल/निर्मल के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	15	---	म.नं. 224 से म.नं. 239 तक बैजनाथ/रामाहार से पिकी/चुद्रभूषण के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग
	पंच	16	---	म.नं. 240 से म.नं. 264 तक मांगीलाल/धनश्याम से संगीता/विकाससिंह के मकान	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	17	---	म.नं. 265/2 से म.नं. 279 तक पार्वती/राधेलाल से सरोज/हरिओम के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	18	---	म.नं. 279 क से म.नं. 294 तक ठाकुरलाल/शिवप्रसाद से कपलेश/सुखदेव के मकान	अन्य पिछडा वर्ग

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **पलासनेर** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है।

सारणी

29	सरपंच			अनारक्षित महिला	
	पंच	1	पलासनेर	म.नं. 1 से म.नं. 11 तक रामचरण/मथाराम से सुभान/शिगदार के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	2	---	म.नं. 12 से म.नं. 27/1 तक हसन/गुशी से रमेश/शोभाराम के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
	पंच	3	---	म.नं. 28 से म.नं. 42 तक सुरेश/गोरखनाथ से गंडालाल/शिवकरण के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	4	---	म.नं. 45 से म.नं. 69/1 तक रामदीन/नाथूराम से परसराम/रामोतार के मकान तक	अनुसूचित जाति
	पंच	5	---	म.नं. 70 से म.नं. 87 तक गोरेलाल/नटू से कृष्णा/जगदीश के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	6	---	म.नं. 88 से म.नं. 99 तक चन्द्रीबाई/रामबली से जमनाबाई/लक्ष्मीनारायण के मकान	अनारक्षित
	पंच	7	---	म.नं. 100 से म.नं. 110/2 तक जगदीश/बाबूलाल से हरसिंग/मोहनलाल के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
	पंच	8	---	म.नं. 111/1 से म.नं. 123 तक अत्माराम/बिहारी से श्यामलाल/ओंकार के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	9	---	म.नं. 123क से म.नं. 132 तक शांताबाई/हरीप्रसाद से महेश/चम्पालाल के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	10	---	म.नं. 133 से म.नं. 149 तक रामनारायण/हरजी से धन्नालाल/बद्रीप्रसाद के मकान	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	11	---	म.नं. 150 से म.नं. 163/2 तक भागवत/माधव से संजीव कुमार/शांताप्रसाद के मकान	अनारक्षित
	पंच	12	---	म.नं. 163/3 से म.नं. 176क तक पुरशोत्तम/शांताप्रसाद से रामदीन/भागीराम के मकान	अन्य पिछड़ा वर्ग
	पंच	13	---	म.नं. 178 से म.नं. 190क तक केवलराम/घूडया से पन्नालाल/घासीराम के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	14	---	म.नं. 191 से म.नं. 199ख तक विपदाबाई/शारदा प्रसाद से जगदीश/तेजराम के मकान	अनुसूचित जाति
	पंच	15	---	म.नं. 200 से म.नं. 207 क तक मोहन/नाथूराम से लखन/जोगेश्वर के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	16	---	म.नं. 207ख से म.नं. 214क तक कैलाश/लाखन से शिवनारायण/मांगीलाल के मकान	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	17	---	म.नं. 215 से म.नं. 233ख तक रामकृष्णा/चम्पालाल से सुप्रीया/विनोद के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **खामापडवा** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है।

सारणी

30	सरपंच			अनारक्षित	
	पंच	1	पडवा	म.नं. 1 से म.नं. 12 तक रामकिशन/मातीराम से क्षमा/लक्ष्मीनारायण के मकान	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
	पंच	2	---	म.नं. 13 से म.नं. 27क तक ललता/रामचरण से वर्षा/गोविंद प्रसाद के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	3	---	म.नं. 29 से म.नं. 43क तक सुरपाल/राधेलाल से हरिशंकर/शिवराम के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	4	---	म.नं. 44 से म.नं. 59 तक कली/भागीरथ से सरस्वती/मुरलीधर के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	5	---	म.नं. 59 क से म.नं. 70 तक ईश्वर/मुरलीधर से सुरत सिंह/उपराव सिंह के मकान	अनारक्षित महिला
	पंच	6	---	म.नं. 71 से म.नं. 86 तक भागवती/बाबूलाल से उमराव/घूडया के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	7	---	म.नं. 87 से म.नं. 109 तक विनोद/धन्या से कैलाश/चम्पालाल के मकान तक	अनुसूचित जाति
	पंच	8	---	म.नं. 110 से म.नं. 128 तक प्रेम/कचरया से कालूराम/दल्लू के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग
	पंच	9	---	म.नं. 130/1 से म.नं. अन्त तक जमनाप्रसाद/शिवप्रसाद से मांगीलाल/सीताराम के	अनारक्षित

1	2	3	4	5
पंच	10	बम्हनगांव	म.नं. 1/1 से म.नं. 20 तक देवीसिंह/मांगीलाल से दलसिंह/भूरिया के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	11	---	म.नं. 21 से म.नं. 35 तक अशोक/चम्पालाल से लखन/सीताराम के मकान तक	अनुसूचित जाति
पंच	12	---	म.नं. 36 से म.नं. 51 तक गोपाल/जगराम से चम्पालाल/मोहन के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	13	---	म.नं. 52 से म.नं. 66 तक रामदास/कुजीलाल से फून्दा/डीरालाल के मकान तक	अनारक्षित
पंच	14	---	म.नं. 67 से म.नं. 88 तक रामप्यारी/मांगीलाल से रुकमणी/मांगीलाल के मकान	अन्य पिछडा वर्ग
पंच	15	---	म.नं. 88अ से म.नं. 89 तक जगन्नाथ/बुदुलाल से कमलसिंह/उमराव सिंह के	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	16	---	म.नं. 90/1 से म.नं. 107 तक शिवप्रसाद/हरीकिशन से रामधर/कुन्जीलाल के मकान	अनुसूचित जनजाति
पंच	17	---	म.नं. 108 से म.नं. अन्त तक चम्पालाल/जगन्नाथ से बदीप्रसाद/शिवप्रसाद के मकान	अनारक्षित
पंच		खामा वीरान	---	

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **रोलगांव खण्ड हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है।

सारणी

31	सरपंच				अनारक्षित महिला
	पंच	1	रोलगांव	म.नं. 1 से म.नं. 18 तक गणपती/रामचरण से रामनाथ/पून्ना के मकान तक	अनुसूचित जाति
	पंच	2	---	म.नं. 20/1 म.नं. से.42 तक पुल्ल/नथु से रामचरण/कुजी के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	3	---	म.नं. 43 से म.नं. 67 तक दौलत/कुन्जी से संपन्न/बुखारया के मकान तक	अनुसूचित जाति
	पंच	4	---	म.नं. 68 से म.नं. 86/3 तक कमला/कन्हैया से कैलाश/शिवप्रसाद के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	5	---	म.नं. 87 से म.नं. 108 तक मोहन/कुजीलाल से दीनदास/नाथुराम के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग
	पंच	6	---	म.नं. 108क से म.नं. 123 तक जगदीश/रघुनाथ से द्वारकाप्रसाद/रामप्रसाद के मकान	अन्य पिछडा वर्ग महिला
	पंच	7	---	म.नं. 124 से म.नं. 148 तक रामनारायण/शिवप्रसाद से नर्मदा/मांगीलाल के मकान	अनारक्षित
	पंच	8	---	म.नं. 149 से म.नं. 165/2 तक पुन्ना/राधेलाल से धीरालाल/मोती के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	9	---	म.नं. 166/1 से म.नं. 186 तक जगदीश/कुन्जी से कुसुम/बुन्नीलाल के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	10	---	म.नं. 187 से म.नं. 200 तक राधेनारायण/रामचरण से शांती/नंदलाल के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	11	---	म.नं. 256घ/1 से म.नं. 222 तक हरिराम/गोपाल से गजानंद/रामचरण के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
	पंच	12	---	म.नं. 223/1 से म.नं. 234 तक जगदीश/शिवकरण से सुदरलाल/मोती के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	13	---	म.नं. 235/1 से म.नं. 243 तक राजकुंवर बाई/मेघराज से शिवकरण के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	14	---	म.नं. 244 से म.नं. 256 घ/1 तक सुशील/शालकराम से गंगल/ओंकार के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	15	---	म.नं. 256घ से म.नं. 269 ब तक दौपती/राजाराम से कुसुम/पुनम के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	16	---	म.नं. 271 से म.नं. अन्त तक सावित्री/प्रहलाद से जगदीश/रघुनाथ के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	17	सुल्तानपुर एवं अमरापुर	म.नं. 1 से म.नं. अन्त एवं म.नं. 2 से 6 एवं म.नं.105 कला बाई/गुलाब से सुनील के मकान तक के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग
	पंच	18	लालमाटी	म.नं. 1 से म.नं. 10 तक बृजलाल/रामकरण से रामदयाल/रामकरण के मकान	अनारक्षित
	पंच	19	---	म.नं. 10क से म.नं. 30 तक बाबुलाल/बलदेव से कैलाश रामकेश के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	20	---	म.नं. 31 से म.नं. अन्त तक सुमित्रा/सुदरलाल से कमला/शिवराम के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **मसनगांव** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

सारणी

32	संरपंच			अन्य पिछडा वर्ग	
	पंच	1	मसनगांव	म.नं. 1 से म.नं. 30 तक बालाराम/बाबूलाल से रेखा/मुकेश के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
	पंच	2	---	म.नं. 31 से म.नं. 56 तक मनोहर/गंगाविशान से सुशीला/राधेश्याम के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	3	---	म.नं. 57 से म.नं. 88/2 तक ललीत/बबकू से इस्ताम/हथीम खा के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	4	---	म.नं. 89 से म.नं. 113 तक मेहबूबखां/हीरेखा से दीपेश/राधेश्याम के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	5	---	म.नं. 114 से म.नं. 138/2 तक गोपाल/नैनितराम से हीरेलाल/गंगूलाल के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
	पंच	6	---	म.नं. 137 से म.नं. 153 तक जीनतबी/सलामत से बसकर बी/निजाम के मकान	अनारक्षित
	पंच	7	---	म.नं. 154 से म.नं. 164 तक मानोबी/हसनखां से अनीता/रामचंद के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	8	---	म.नं. 164 से म.नं. 182/2 तक चम्पालाल/बद्रीप्रसाद से हरेश्याम/अमरदास के मकान	अनारक्षित महिला
	पंच	9	---	म.नं. 183 से म.नं. 203 तक छन्नू/रंग से भाया/बल्लभदास के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	10	---	म.नं. 204 से म.नं. 229 तक कली/शिवप्रसाद के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग
	पंच	11	---	म.नं. 230 से म.नं. अन्त तक विजय/रामस्वरूप से के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	12	गांगला	म.नं. 1 से म.नं. 25 तक प्रेम बाई/बाबूलाल से अर्चना/प्रेमनारायण के मकान	अन्य पिछडा वर्ग
	पंच	13	---	म.नं. 26 से म.नं. 46 तक राधेश्याम/रामगोपाल से दिनेश/रविशंकर के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
	पंच	14	---	म.नं. 47 से म.नं. अन्त तक अनोखी/चम्पालाल से रीतिका/प्रवीण के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	15	काकरिया	म.नं. 1 से म.नं. 38 तक अशोक/शिवप्रसाद से संजु/दीलिप के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	16	---	म.नं. 39 से म.नं. 87 तक सुमीत/लक्ष्मीनारायण से कला/राधाकिशन के मकान	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	17	---	म.नं. 88 से म.नं. 118 तक रामनारायण/मांगीलाल से हरेश्याम/प्रहलाद के मकान	अनुसूचित जनजाति
	पंच	18	---	म.नं. 119 से म.नं. 143 तक रामकृष्ण/जंगली से रूकमणी/मुकेश के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	19	---	म.नं. 143 क से म.नं. 179 तक रामअशर/गोकुलप्रसाद से धर्मनंद/रामदास के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	20	काकरिया एवं गाडगी	म.नं. 180 से म.नं. अन्त तक मांगीलाल/रुपचंद से के मकान तक	अनुसूचित जाति

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **कमताडा** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

सारणी

33	संरपंच			अनारक्षित	
	पंच	1	कमताडा	म.नं. 1 से म.नं. 17 तक काशीराम/भाउ से बाबूलाल/नन्दराम के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	2	---	म.नं. 17 से म.नं. 32/1 तक अत्यनारायण/चम्पालाल से सीताराम /चैनसिंह के	अन्य पिछडा वर्ग
	पंच	3	---	म.नं. 33 से म.नं. 41 तक बलीराम/ओनकार से राजाराम/गोकुल प्रसाद के मकान	अन्य पिछडा वर्ग
	पंच	4	---	म.नं. 42 से म.नं. 62 तक रामकिशन/जगन्नाथ से रामदास/रामप्रसाद के मकान	अनारक्षित महिला
	पंच	5	---	म.नं. 64 से म.नं. 76 तक रेवास/भागीरथ से गैदालला/बाबूलाल के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	6	---	म.नं. 78 से म.नं. 91 तक जगदीश /रामकिशन से राधेश्याम/रामगोपाल के	अनारक्षित
	पंच	7	---	म.नं. 92 से म.नं. 112 तक गुजलाल/रामचरण से रामसिंह/रामचरण के मकान तक	अनारक्षित

	1	2	3	4	5
पंच	8	---	---	म.नं. 113 से म.नं. 128 तक गंगाकिशन/समधरण से श्रीराम/प्रहलाद के मकान	अनारक्षित महिला
पंच	9	---	---	म.नं. 129 से म.नं. 148 तक शकुंतला/गोकुल से राजाराम तक के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	10	---	---	म.नं. 149 से म.नं. 162 तक साता/मांगीलाल से शरद/दुर्गाप्रसाद के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	11	---	---	म.नं. 165 से म.नं. 171/2 तक रामप्रसाद/हीरालाल से मेहताप/घासीराम के मकान	अनारक्षित
पंच	12	---	---	म.नं. 172 से म.नं. 198 तक जगदीश/अमर सिंह से विमला/जागेश्वर के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	13	---	---	म.नं. 199 से म.नं. अंत तक बालाराम/कडवा से मोनीका/विनोद	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	14	---	---	म.नं. 206 से म.नं. 233 तक बीना/प्रेमलाल से भांगल/टीका के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	15	---	---	म.नं. 236 से म.नं. 258 तक नर्मदा/कोमलराम से तुलसी/रामनारायण के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	16	---	---	म.नं. 258 क से म.नं. 278 तक अनिता/गौरी से रामाधार/दरियाब के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	17	---	---	म.नं. 278/1 से म.नं. 301 तक नर्मदा/सोन्या से भगत/हरिप्रसाद के मकान तक	अनुसूचित जाति
पंच	18	---	---	म.नं. 303 से म.नं. 325 तक फूलवती/बंदा से गंगाविसन/बन्दु के मकान तक	अनुसूचित जाति
पंच	19	---	---	म.नं. 325 से म.नं. 351क तक नजरी/मांगी से प्रहलाद/रामाधार के मकान तक	अनुसूचित जनजाति

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **नयापुरा** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है।

सारणी

34	सरपंच				अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	1	नयापुरा	म.नं. 1 क से म.नं. 13 तक जगदीश / गप्पू से मिश्रीलाल / रामाधार के मकान	अनुसूचित जाति
	पंच	2	---	म.नं. 14 से म.नं. 32 तक बादलाल / श्रीराम से सुंदर / लक्ष्मीनारायण के मकान	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	3	---	म.नं. 33 से म.नं. 47 तक गौदलाल / लक्ष्मीनारायण से संजय / कैलाश के मकान	अनुसूचित जनजाति
	पंच	4	---	म.नं. 48 से म.नं. 65 तक रमेशचंद / अमरचंद से मांगीलाल / पन्नालाल के	अनारक्षित महिला
	पंच	5	---	म.नं. 66 से म.नं. 80 तक राजगल / पूरनसिंह से रामगोपाल / मोजीराम के मकान	अनारक्षित महिला
	पंच	6	---	म.नं. 81 से म.नं. 98क तक आशाराम / मोहन से भीताराम / गुला के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	7	---	म.नं. 99 से म.नं. 111 तक आधार / बट्टू से देवेन्द्र / अनोखीलाल के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	8	---	म.नं. 112 से म.नं. 127 तक गोदालाल / नर्मदाप्रसाद से बोदरसिंह / नर्मदा के मकान	अनारक्षित
	पंच	9	---	म.नं. 128 से म.नं. अंत तक दादू / चंदर से अंत तक के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	10	उद्यान	म.नं. 1 से म.नं. 18 तक विजयशंकर / यशवत से देवका / राधेलाल के मकान	अनारक्षित
	पंच	11	---	म.नं. 19 से म.नं. अंत तक गंभीर / भाउ से अंत तक के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	12	भीमपुरा	म.नं. 1 से म.नं. अंत तक नवलसिंह / हरचंद से अंत के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **बिछौलामाल** खण्ड हरदा के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के,जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

सारणी

35	संरपंच			अनुसूचित जनजाति	
	पंच	1	बिछौलामाल	म.नं. 1 से म.नं. 13 तक बलराम से मोहन के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	2	---	म.नं. 14 से म.नं. 24 तक हावला से चैनसिंग के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	3	---	म.नं. 25 से म.नं. 39 तक हरि से रामसिंग तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	4	---	म.नं. 39क से 54 तक मानसिंग से सुखलाल के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	5	---	म.नं. 55 से म.नं. 72क तक कमला से रामसिंग तक	अनुसूचित जाति
	पंच	6	---	म.नं. 73 से म.नं. 89 तक मिश्रीलाल से रामबिलास के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	7	---	म.नं. 90 से म.नं. 108 तक रामेश्वर से भुजराम तक	अनारक्षित
	पंच	8	---	म.नं. 109 से म.नं. 122क तक रेवाराम से धाप् बाई के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	9	---	म.नं. 123 से म.नं. 137 तक श्रीराम से शीका के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	10	---	म.नं. 138 से म.नं. अन्त तक चदर से अन्त के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	11	बिछौलारियत	म.नं. 1 से म.नं. 11 तक सेवाराम से रमेश के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	12	---	म.नं. 13 से म.नं. 23 तक चैनसिंग से चिराम शाह के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	13	---	म.नं. 24 से म.नं. 29 तक हैदरशाह से कौशलया के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	14	---	म.नं. 30 से म.नं. 40 तक रुकमणी से गैदालाल के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	15	---	म.नं. 41 से म.नं. 52 तक बुदिया बाइ-से प्रेम बाई के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	16	---	म.नं. 53 से म.नं. 58 तक शिवराम से भिका के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	17	---	म.नं. 113 से म.नं. अन्त तक तकत सिंग से अन्त के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	18	बिछोला टीकू	म.नं. 1 से म.नं. अन्त तक शारदा से अन्त के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच		बिछोलाशुक्ल वीराम	--	

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **हनीफाबाद** खण्ड हरदा के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के,जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

सारणी

36	संरपंच			अनुसूचित जनजाति महिला	
	पंच	1	हनीफाबाद	म.नं. 1 से म.नं. 10 तक कन्हैया से राम के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	2	---	म.नं. 12 से म.नं. 21 तक भवनलाल से शकुन के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	3	---	म.नं. 22 से म.नं. 39 तक हरि से बसु के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	4	---	म.नं. 40 से म.नं. 73 तक दगडई से मथुरा के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	5	---	म.नं. 74 से म.नं. 172 तक कैलाश से क्षमा बाई के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	6	---	म.नं. 173 से म.नं. अन्त तक शोभाराम से अन्त के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	7	कालीसराय	म.नं. 1 से म.नं. 7ख तक सैतान से सुखीया के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	8	---	म.नं. 9 से म.नं. अन्त तक मंगल से अन्त तक	अनुसूचित जनजाति महिला

1	2	3	4	5
पंच	9	सिरालिया	म.नं. 6 से म.नं. 18 तक पूनम से सीता के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	10	---	म.नं. 19 से म.नं. 29 तक झगडू से जंगली के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	11	---	म.नं. 30 से म.नं. 179 तक नर्मदा से मनोहर के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	12	---	म.नं. 180 से म.नं. अन्त तक कालू से अन्त के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	13	लोठिया	म.नं. 1 से म.नं. 16 तक रेवाराज से ममराज के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	14	---	म.नं. 17 से म.नं. 30 तक शिवलाल से जमना के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	15	---	म.नं. 31 से म.नं. 44 तक राजकुवर से कामेश के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	16	---	म.नं. 45 से म.नं. 59 तक लक्ष्मी बाई से ममता के मकान तक	अनारक्षित
पंच	17	---	म.नं. 60 से म.नं. 75 तक तेजबाई से शिरामणी बाई	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	18	---	म.नं. 78 से म.नं. अन्त तक शान्ता बाई से अन्त के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत सोनतलाई खण्ड हरदा के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है; आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है।

सारणी

37	सरपंच			अनुसूचित जनजाति
पंच	1	सोनतलाई	म.नं. 1 से म.नं. 12 तक पार्वती/रामोत्तार से सुमना/काहा के मकान तक	अनारक्षित
पंच	2	---	म.नं. 13 से म.नं. 24 तक लीला/भागीरथ से साह/शिवराम के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	3	---	म.नं. 25 से म.नं. 35 तक विद्या/रामाधार से समोती/कुन्जी के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	4	---	म.नं. 36 से म.नं. 46 तक आत्माराम/मोहन से भागवती/रामरोस के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	5	---	म.नं. 47 से म.नं. 60 तक प्रहलाद/बाबू से रामाधार/उगरा के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	6	---	म.नं. 61 से म.नं. 70 तक शांता/मिश्रीलाल से राममरोस/मालाजी के मकान तक	अनारक्षित
पंच	7	---	म.नं. 71 से म.नं. 79 तक भिका/दुर्गा से मदन/हरनाथ के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	8	---	म.नं. 81 से म.नं. 92 तक पन्नी/रामनारायण से शिवप्रसाद/बंदी के मकान तक	अनारक्षित
पंच	9	---	म.नं. 92क से म.नं. 102 तक तुला/रामबिलास से बुद्ध/मुकुन्द के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	10	---	म.नं. 103 से म.नं. 115 तक प्रहलाद/बाबू से पारु/दशरथ के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	11	---	म.नं. 116 से म.नं. 127क तक गज/कल्लू से शानु/ज्ञानसिंह के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	12	---	म.नं. 127घ से म.नं. 138क तक भागीरथ/दशरथ से भीकू/नू के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	13	---	म.नं. 140 से म.नं. 151ख तक भागल/राधेलाल से नैनसिंह/मधु के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	14	---	म.नं. 152 से म.नं. 162 तक तुलसा/जगराम से लालसिंह/अमर सिंह के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	15	---	म.नं. 163 से म.नं. अन्त तक गणेश/लालसिंह से शैलेष कुमार/रमेश कुमार के मकान	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	16	नवरंगपुरा	म.नं. 1 से म.नं. 11 तक शैलान/कन्नु से रमा/कैलाश के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	17	---	म.नं. 13 से म.नं. अन्त तक रामाधार/पन्नालाल से मुकेश/नारायण के मकान तक	अनुसूचित जाति

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **छिडगांव** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है।

सारणी

38	संरपंच				अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	1	छिडगांव	म.नं. 1 से म.नं. 27 तक अमृतलाल/बालाराम से गजानंद/चम्पालाल के मकान	अनारक्षित
	पंच	2	---	म.नं. 28 से म.नं. अन्त तक सुरपाल/नहारसिंग से राधेश्याम/भागीरथ के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	3	गाडरापुरा दमाभी	म.नं. 1 से म.नं. 14 तक देऊ/मानसिंग से बालाराम/सीताराम के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	4	---	म.नं. 15/1 से म.नं. 37 तक उमैदसिंग/मदनलाल से निर्मयसिंग/भागीरथ के मकान	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	5	---	म.नं. 37क से म.नं. अन्त तक रामसिंग रामभरोस से भरत/इमरत सिंह के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	6	गाडरापुर सैठ	म.नं. 6 से म.नं. अन्त तक रामेश्वर/गंगाराम से नथूलाल/कालूराम के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	7	ऐडावेडा	म.नं. 1 से म.नं. 13 तक कैलाश/रंगलाल से सावित्रीबाई/गेंदालाल के मकान	अनारक्षित महिला
	पंच	8	---	म.नं. 14 से म.नं. 23 तक रमाबाई/छोगेलाल से मनोहरी/हजारी के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	9	---	म.नं. 25क से म.नं. अन्त तक ललीत/उमेश से दीपक/उमैद के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	10	रेवापुर	म.नं. 1 से म.नं. 14 तक शिवकरण/बादू से रूखमा/हीरालाल के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	11	---	म.नं. 16 से म.नं. अन्त तक बाबूलाल/बलदेव से क्षमा/मदन के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **शांतातलाई** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है।

सारणी

39	संरपंच				अनुसूचित जनजाति
	पंच	1	शांतातलाई	म.नं. 1 से म.नं. 12 तक किर्तीबाई/नारायण से मोहनलाल/रेवाराम के मकान	अनारक्षित
	पंच	2	---	म.नं. 12क से म.नं. 33 तक रामलाल/जयराम से शिवनारायण/हरचन्द्र के मकान	अनारक्षित महिला
	पंच	3	---	म.नं. 34 से म.नं. 48 तक बाबूलाल/रामलाल से शांताबाई/बाबूलाल के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	4	---	म.नं. 48 से म.नं. 65 तक रामदिन/जागेश्वर से रामेश्वर/शिवराम के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	5	---	म.नं. 66 से म.नं. 82क तक सुभा/बाबूलाल से लखन/चंपालाल के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	6	---	म.नं. 93 से म.नं. 116 तक कमलसिंह/दिलीप से जागेश्वर/रूपा तक के मकान	अनारक्षित महिला
	पंच	7	---	म.नं. 116क से म.नं. 139क तक शैतानसिंह/जागेश्वर हरनारायण/पूसा तक के मकान	अनुसूचित जनजाति
	पंच	8	---	म.नं. 140 से म.नं. 158 तक अशोक/नन्नु सिंह से शिवप्रसाद/नन्ना तक के मकान	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	9	---	म.नं. 157 से म.नं. 172क तक शिवलाल/नन्ना से भोजीराम/डालू के मकान तक	अनुसूचित जाति
	पंच	10	---	म.नं. 172ग से म.नं. 187 तक गणेश/राजाराम से भुनन/रंगलाल के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	11	---	म.नं. 188 से म.नं. 210 तक फुन्दा/भूक से अर्जुन/हरचन्द्र के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	12	---	म.नं. 210क से म.नं. 223 तक सावित्री/तुलशीराम से समोता/बाबूलाल के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	13	---	म.नं. 225 से म.नं. 240क तक शांता/बाबूलाल से सीताराम/गुलाबसिंह के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	14	---	म.नं. 242 से म.नं. 256क तक सुरसिंह/तेरसिंह से बलराम/बाबूलाल के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	15	---	म.नं. 256ग से म.नं. 283क तक शारदा/सीताराम से देवराज/हजारी के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	16	---	म.नं. 284 से म.नं. 271क तक बंगदया/किशोर से हरी/शिवलाल के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	17	---	म.नं. 271ज से म.नं. 278 तक देवलाल/कल्ला से नत्थीबाई गोकूल के मकान तक	अनुसूचित जाति

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत मांगरूल खण्ड हरदा के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है।

सारणी

40	संरपंच				अनुसूचित जनजाति
	पंच	1	मांगरूल	म.नं. 1 से म.नं. 14/2 तक रामदास/सुखदेव से शिवराज से रामसिंह तक के मकान	अनारक्षित महिला
	पंच	2	---	म.नं. 14/3 से म.नं. 22 तक नर्मदाप्रसाद/रामसिंह से पुष्पा/जयनारायण के मकान	अनुसूचित जाति
	पंच	3	---	म.नं. 23 से म.नं. 35 तक श्रीराम/देवकरण से मनोज/कैलाश के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	4	---	म.नं. 40/1 से म.नं. 54/1 तक ओमप्रकाश/शिवकरण से लीला/गजुलाल के मकान तक	अनुसूचित जाति
	पंच	5	---	म.नं. 55 से म.नं. 69/1 तक सुखमणी/रामचरण से सतोष/भगवानदास के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	6	---	म.नं. 70 से म.नं. 80/3 तक मथुराबाई/रामोतार से सुनील/रामनारायण के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	7	---	म.नं. 81 से म.नं. 92 तक रूपसिंह/सूरज सिंह से शिवनारायण/सूरजमल के मकान	अनारक्षित
	पंच	8	---	म.नं. 93 से म.नं. 108 तक गिंदूलाल/गैदालाल से हेमराज/बद्रीप्रसाद के मकान	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	9	---	म.नं. 107 से म.नं. 116/1 तक रामचंद/बद्रीप्रसाद से रामभरोस/बालाराम के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	10	---	म.नं. 116/2 से म.नं. 126/1 तक भारमल/मोलूजी से रमेश/किशोर के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	11	---	म.नं. 126/2 से म.नं. 140 तक रामचरण/किशोर से गिंदूलाल/भागीरथ के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	12	---	म.नं. 141 से म.नं. 147 तक बंशीलाल/नर्मदाप्रसाद से रामप्रसाद/आशाराम के मकान	अनारक्षित
	पंच	13	---	म.नं. 148 से म.नं. 632 अन्त तक रामस्वरूप/रामकरण से लक्ष्मण/जयकिशन के मकान	अनुसूचित जाति
	पंच	14	गौला	म.नं. 2 से म.नं. 16 तक गोरेलाल/मोती जी से रुखमा/शोभाराम के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	15	---	म.नं. 17 से म.नं. 25/2 तक राजेन्द्र/सुखलाल से रामभरोस/सिताराम के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	16	---	म.नं. 26 से म.नं. 554 तक हरी/रामसिंह से अशोक/नर्मदाप्रसाद के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत हंडिया खण्ड हरदा के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है।

सारणी

41	संरपंच				अन्य पिछडा वर्ग महिला
	पंच	1	हंडिया	म.नं. 1 से म.नं. 16/3 तक शुभम/मोहनदास से चंद्रशेखर/मुन्नालाल के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	2	---	म.नं. 17/1 से म.नं. 35/1 तक जगली/शिवलाल से नर्मदी/वासुदेव के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	3	---	म.नं. 35/2 से म.नं. 58/2 तक चंद्रशेखर/वासुदेव से ओमप्रकाश/भैयालाल के मकान	अनारक्षित महिला
	पंच	4	---	म.नं. 59 से म.नं. 86 तक दुलारी/शिवप्रसाद से मिलिंद/तुकाराम के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	5	---	म.नं. 87 से म.नं. 104 तक धन्नालाल/देवलाल से विनय/सुरील के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
	पंच	6	---	म.नं. 105 से म.नं. 133 तक शशी कुमार/प्रतापनारायण से धापु/मदनलाल के मकान	अनारक्षित
	पंच	7	---	म.नं. 134 से म.नं. 161 तक नूरबी/सुकु शाह से नर्मदाप्रसाद/हजारी के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
	पंच	8	---	म.नं. 162/1 से म.नं. 192/1 तक नर्मदाबाई/गोविंद से खज्जुलाल/रामेश्वर के मकान	अनारक्षित
	पंच	9	---	म.नं. 193 से म.नं. 227 तक हरीप्रसाद/नन्नुलाल से फितू बैग /सुजात बैग के	अन्य पिछडा वर्ग
	पंच	10	---	म.नं. 228 से म.नं. 251/1 तक जोहराबी/सुभान बैग से हरीशंकर/हरचंद के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग
	पंच	11	---	म.नं. 253 से म.नं. 271 तक अशोक/नन्नुलाल से रमेशचंद/बाबूलाल के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला

1	2	3	4	5
पंच	12	---	म.नं. 272 से म.नं. 290क तक रामकिशन / बिहारी से मूलचंद/हजारी के मकान तक	अनारक्षित
पंच	13	---	म.नं. 290ख से म.नं. 313 तक सवाई सिंग/हजारी से सुरेश/तुलसीराम के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	14	---	म.नं. 314 से म.नं. 342 तक हरीप्रसाद/विश्राम से लालखां/शहादत खां के मकान	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	15	---	म.नं. 342क से म.नं.354/2 तक रामकुवर/राधेश्वर से गोपाल/राजाराम के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	16	---	म.नं. 354/3 से म.नं. 386 तक साहबलाल/भगवतलाल से गोपाल/हेमराज के मकान	अनारक्षित
पंच	17	---	म.नं. 387 से म.नं. 416 तक प्रकाश/किशनलाल से मनोहर/मांगीलाल के मकान	अनारक्षित
पंच	18	---	म.नं. 416/1 से म.नं. 443 तक सत्यनारायण/मांगीलाल से लखनलाल/उमराव के	अनारक्षित
पंच	19	---	म.नं. 445 से म.नं. 477/1 तक अनोखी/राधेश्वर से चण्डीलाल/सुरपाल के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	20	---	म.नं. 479 से म.नं. 531 एवं अंत तक सुरेश/प्रहलाद से संतोष/मोहन के मकान तक	अनुसूचित जाति

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसारण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत खेडा खण्ड हरदा के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के,जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी मे दर्शाये गये अनुसार है ।

सारणी

42	सरपंच			अनारक्षित
पंच	1	खेडा	म.नं. 1 से म.नं.14 तक जगदीश/रामगोपाल से बाबूलाल/रामचंद के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	2	---	म.नं.15 से म.नं.30 तक लेखराम/नंदकिशोर से रूखमा माई/रामप्रकाश के मकान	अनारक्षित महिला
पंच	3	---	म.नं. 30क से म.नं.46 तक घन्नालाल/शिवकरण से द्वारकाबाई/हीरालाल के मकान	अनुसूचित जाति महिला
पंच	4	---	म.नं. 46क से म.नं. 62क तक ज्योति/विनोदकुमार से भागवती/जगदीश के मकान	अनारक्षित महिला
पंच	5	---	म.नं. 63 से म.नं.79ग तक शंकरलाल/बोदर से रामदास/रामवरुण के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	6	---	म.नं. 80क से म.नं.89 तक रामधर/जागेश्वर से बलराम/मेहराज के मकान तक	अनारक्षित
पंच	7	---	म.नं. 90 से म.नं.110 तक गैदालाल/नन्दराम से नाथूराम/इमरत के मकान तक	अनारक्षित
पंच	8	---	म.नं. 111 से म.नं. 122ख तक देवीसिंग/रामनारायण से सोहनलाल/पन्नालाल के	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	9	---	म.नं.124 से म.नं.134 तक कमलाबाई/देवचंद से विलासनाथ/पूतानाथ के मकान	अनुसूचित जाति
पंच	10	---	म.नं.134क से म.नं.147 तक गुलाब/ओंकारनाथ से शिवराम/फततूलाल के मकान	अनुसूचित जाति
पंच	11	---	म.नं. 148 से म.नं. 164 तक कचरु/फततूलाल से विजयसिंग/बंशीलाल के मकान	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	12	---	म.नं. 165 से म.नं. अन्त तक गजानन्द/मलदेव से राजू/मिल्लू के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	13	आदलपुररैयत	म.नं. 1 से म.नं. 14 तक जगदीश/छोगालाल से छीतर/नल्था के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	14	---	म.नं. 15/1 से म.नं. 25/3 तक सोनीबाई/नंदराम से जयनारायण/घासीराम के मकान	अनारक्षित
पंच	15	आदलपुररैयत वीरान	म.नं. 26 से म.नं.30 तक इन्दर/काशीराम से सुरगबाई/मुकेश के मकान तक	अनुसूचित जनजाति

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **कचवैडी** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

सारणी

43	संरपंच			अनारक्षित	
	पंच	1	कचवैडी	म.नं. 1 से म.नं. 13 तक अर्जिला से विवेक/बालाराम के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	2	---	म.नं. 14 से म.नं. 25 तक रामदीन से संध्या/प्रेमनारायण के मकान तक	अनुसूचित जाति
	पंच	3	---	म.नं. 26 से म.नं. 41 तक सोनी से उषा/रामरवरूप तक के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	4	---	म.नं. 41क से म.नं. 54 तक रामनियास से पूजा/राजेश तक के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	5	---	म.नं. 55 से म.नं. 66 तक जगदीश से दिनेश/भगवान तक के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	6	---	म.नं. 67 से म.नं. 82 तक जोहरा बी से रीना/ओमप्रकाश तक के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	7	---	म.नं. 84 से म.नं. अन्त तक फन्नालाल से पूना बाई/चंपालाल के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला,
	पंच	8	जामलीउबारी	म.नं. 1 से म.नं. 4 तक भगताराम से निर्मल/लक्ष्मीनारायण तक के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	9	---	म.नं. 5 से म.नं. 16 तक मधुरोष से सुन्दरलाल/मंगत्या तक के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	10	---	म.नं. 19 से म.नं. 32 तक अन्तरसिंह से अनिता/हेमन्त के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	11	---	म.नं. 36 से म.नं. 47/2 तक मोहनलाल से कला/कोमल तक के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	12	---	म.नं. 48 से म.नं. अन्त तक रमेश से रामसिंह/घासीराम तक के मकान तक	अनुसूचित जनजाति

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **रेलवां** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

सारणी

44	संरपंच			अनारक्षित महिला	
	पंच	1	रेलवां	म.नं. 1 से म.नं. 11 तक प्रभुलाल से निशा के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	2	---	म.नं. 12 से म.नं. 27 तक लक्ष्मी से मनीषा के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	3	---	म.नं. 28 से म.नं. 40/1 तक मिश्रीलाल से रेशम के मकान तक	अनुसूचित जाति
	पंच	4	---	म.नं. 40/2 से म.नं. 54 तक रामाधार से प्रमिला के मकान तक	अनुसूचित जाति
	पंच	5	---	म.नं. 55 से म.नं. 67/1 तक सालक राम से माया के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	6	---	म.नं. 68 से म.नं. 73 तक नर्बदी/हरिसिंह से सीमा/राकेश के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	7	---	म.नं. 74 से म.नं. 84 तक रघोश्याम / रामनारायण से क्षमा/नीरज के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	8	---	म.नं. 85 से म.नं. 95/1 तक लोकेश/श्यामलाल से गोरी/बल्लू के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	9	---	म.नं. 97 से म.नं. 113 तक मोहन/अनोखे से निर्मला/मुकेश के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	10	---	म.नं. 114 से म.नं. 130 तक श्यामलाल/परसराम से गणेश/बलराम के मकान	अनारक्षित
	पंच	11	---	म.नं. 131 से म.नं. 139 तक शाला/रामगोपाल से अनिता/राजेंद्र के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	12	---	म.नं. 140 से म.नं. 148 तक मेहलाप/रामा से माया/सुपेरसिंग के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	13	---	म.नं. 149 से म.नं. 160 तक गुल्लू/सुरेंद्राल से वर्षा/भवानी राम के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	14	---	म.नं. 161 से म.नं. 180/8 तक कोकिला से ममता/अशोक के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	15	---	म.नं. 181 से म.नं. अंत तक ग्यारसीबाई/सबाई सिंग से बाबूलाल/महेश्वर के मकान	अनुसूचित जनजाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **धनगाव** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है।

सारणी

45	सुरपंच				अनारक्षित महिला
	पंच	1	धनगाव	म.नं. 1 से म.नं. 11/2 तक जागेश्वर कौलाश से रामगोपाल/जुहारमल के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	2	---	म.नं. 12/1 से म.नं. 28 तक शैतान सिंग/मोहन से दीपक/चम्पालाल के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	3	---	म.नं. 26ख से म.नं. 43 तक शीला बाई/शंकर से फूलसिंह/अमर सिंह के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	4	---	म.नं. 44 से म.नं. 80 तक रमेश/सुखराम से श्यामलाल/गेंदालाल के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	5	---	म.नं. 60/1 से म.नं. 78/2 तक भवरलाल/गेंदालाल से शोभाराम/नंदू के मकान तक	अनुसूचित जाति
	पंच	6	---	म.नं. 79 से म.नं. अन्त तक शिवराम/नन्दू से ओमप्रकाश/रामदास के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	7	नीलगढ माल	म.नं. 1 से म.नं. 17 तक रामदास/नाथुराम से भागीरथ/सीताराम के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	8	---	म.नं. 18 से म.नं. अन्त तक कालू/हरिराम से ओमप्रकाश/रामनारायण के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	9	नीलगढ दगामी	म.नं. 1 से म.नं. 16 तक प्रहलाद/दलपत से कमलाबाई/सजन के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	10	---	म.नं. 17 से म.नं. अन्त तक देवीसिंग/नारायण से शिवकला/संतोष के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	11	बूढडा	म.नं. 1 से म.नं. 14 तक नारायण/गंगाराम से बंशीलाल/कन्हैयालाल के मकान	अनुसूचित जनजाति
	पंच	12	---	म.नं. 15 से म.नं. 25 तक भागीरथ/तारचंद से करण सिंह/दशरथ के मकान	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	13	---	म.नं. 26 से म.नं. 37 तक समोता बाई/रामेश्वर से लालसिंह/हिराचंद के मकान	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	14	---	म.नं. 38 से म.नं. 48 तक मिटटू/नंदराम से इमरत/गंगाविशान के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	15	---	म.नं. 48क से म.नं. अंत तक जगन्नाथ/सीताराम से गौरा बाई/रामदास के मकान	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच		देदला सेठ वीरान देदलामाल वीरान		

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **बैडी** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है।

46	सुरपंच				अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	1	बैडी	म.नं. 1 से म.नं. 17 तक बाबूलाल/से अनवर सिंह के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	2	---	म.नं. 20 से म.नं. 33 तक शेखरततार/बलराम के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	3	---	म.नं. 35/1 से म.नं. 45/2 तक कोदर सिंह से गोविंदराम के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	4	---	म.नं. 45/3 से म.नं. 53/2 तक भगत से गुलाब सिंह के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	5	---	म.नं. 54/1 से म.नं. 61/4 तक आनंद सिंह से श्यामलाल के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	6	---	म.नं. 61/5 से 79 तक हीरालाल से मकुन्दराम के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	7	---	म.नं. 80 से म.नं. 97 तक रामचंद से चन्दू के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	8	---	म.नं. 98 से म.नं. 105/1 तक देवाराम से रामभरोस के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	9	---	म.नं. 105/2 से म.नं. 113/2 तक सोहदा बाई से जगदीश के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	10	---	म.नं. 114/2 से म.नं. 126/ग तक बदीप्रसाद से रोशन के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	11	---	म.नं. 128/3 से म.नं. 138 तक प्रताप सिंह से राजेश के मकान तक	अनारक्षित महिला

1	2	3	4	5
पंच	12	---	म.नं. 139 से म.नं. 149/1 तक शांता बाई से दीनदयाल के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	13	---	म.नं. 151 से म.नं. 162/क विष्णु प्रसाद से रामसुख के मकान तक	अनुसूचित जाति
पंच	14	---	म.नं. 164 से म.नं. 171 तक भारत से राधेश्याम के मकान तक	अनुसूचित जाति
पंच	15	---	म.नं. 171/क से म.नं. 181 तक उपराव से बोंदर के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	16	---	म.नं. 182 से म.नं. 200 तक आनन्दराम से भुरलीधर के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	17	---	म.नं. 203 से म.नं. 203अ तक हरीसिंह से गोन्द सिंह के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	18	---	म.नं. 203ट से म.नं. 203स तक सुमेर सिंह से कालुराम के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	19	---	म.नं. 203ष से म.नं. 303 तक सुन्दरलाल से रतिलाल के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	20	---	म.नं. 309 से म.नं. अंत तक दशरथ से के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **हीरापुर** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के,जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

47	सरपंच			अनुसूचित जाति महिला
पंच	1	हीरापुर	म.नं. 1 से म.नं. 18 तक शंकरलाल / लालजीराम से रामभरोस / कुजीलाल के	अनुसूचित जाति
पंच	2	---	म.नं. 20 से म.नं. 32 तक लक्ष्मीबाई / मोजीराम से चैनसिंह / शंभु के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	3	---	म.नं. 33 से म.नं. 45 तक रामेश्वरदास / शंकरलाल से रमको/ कुजी के मकान	अनुसूचित जनजाति
पंच	4	---	म.नं. 46 से म.नं. 58 तक कमला / सीरिया से श्यामलाल / हरलाल के मकान	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	5	---	म.नं. 59 से म.नं. 72 तक मिश्री / गंगाविशन से कमला / वंशी के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	6	---	म.नं. 73 से म.नं. 80 तक गणपत / श्रीकिशन से ग्यारसी / सीताराम के मकान	अन्य पिछडा वर्ग
पंच	7	---	म.नं. 81 से म.नं. 96/2 तक धनलाल / हजारी से भाणकचंद / रामनारायण के	अनारक्षित
पंच	8	---	म.नं. 97 से म.नं. अंत तक मुकेश / संजु से राजेश / रेवाराम के मकान तक	अनारक्षित
पंच	9	डुमलाय	म.नं. 1 से म.नं. 13/3 तक हरिकिशन / भाउ से रामदेव / हरनाथ के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	10	---	म.नं. 14 से म.नं. 25/2 तक भागीरथ / भोलू से रघुनाथ / सदरी के मकान तक	अनारक्षित
पंच	11	---	म.नं. 26 से म.नं. 43 तक कस्तूर / श्री से केशर / बाबू के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	12	---	म.नं. 44/ 1 से म.नं. 58/2 तक नम्रदा / हरनालाल से फुलकुवर / नर्मदा के मकान	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	13	---	म.नं. 59 से म.नं. अंत तक सोना/रामकरण से पुरुषोत्तम/रामेश्वर के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **भादुगांव** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के,जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

48	सरपंच			अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	1	भादुगांव	म.नं. 1 से म.नं. 14 तक देवा जी/ नंदा से हरदनारायण/ जगन्नाथ के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	2	---	म.नं. 16 से म.नं. 23/2 तक देवराज/रामलाल से दिनेश/श्रवण के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	3	---	म.नं. 24 से म.नं. 42 तक गिरधारी/ग्यारसीराम से मांगीलाल/किशन के मकान	अनुसूचित जाति
पंच	4	---	म.नं. 43 से म.नं. 58 तक जगन्नाथ/हीरालाल से गंगाराम/जगन्नाथ के मकान	अनारक्षित

1	2	3	4	5
पंच	5	---	म.नं. 59 से म.नं. 74 तक शीताबाई/रामगोपाल से देवीशंकर/भोजीराम के मकान	अनारक्षित
पंच	6	---	म.नं. 76 से म.नं. 92 तक प्रेमबाई/नाथ से गोरबाई/शिवनाथ के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	7	---	म.नं. 93 से म.नं. अन्त तक किशोरनाथ/श्यामनाथ से मोहनलाल/बौदर के मकान	अनुसूचित जाति
पंच	8	देवास	म.नं. 1 से म.नं. 13 तक मिश्रीबाई/बाबूलाल से रामविलास/रामनारायण के मकान	अनारक्षित
पंच	9	---	म.नं. 14 से म.नं. 92 तक हरिमोहनलाल से विलास/सीताराम के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	10	---	म.नं. 25 से म.नं. 37/1 तक रामगोपाल/भूत सिंह से भारतसिंग/मानसिंग के	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	11	---	म.नं. 40 से म.नं. 64 तक लक्ष्मी/बाबू से लक्ष्मी/प्रहलाद के मकान तक	अनुसूचित जाति
पंच	12	---	म.नं. 65 से म.नं. 82 तक हरिशंकर/प्रहलाद से बसू/रामगोपाल के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	13	---	म.नं. 83 से म.नं. 103 तक शिखा/रामनारायण से धर्मती/शिवनारायण के मकान	अनारक्षित
पंच	14	---	म.नं. 105 से म.नं. 119 तक सीताराम/रामप्रसाद से भगतराम/किशनलाल के मकान	अनुसूचित जनजाति
पंच	15	---	म.नं. 120 से म.नं. अन्त तक गुलाब/हरिराम से बसंती/अजब के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	16	भदरतालाबढेके	म.नं. 1 से म.नं. 10 तक छीतर/मेहरूम से विलास/छीतर के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	17	---	म.नं. 11 से म.नं. 27 तक नंदकिशोर/तेजराज से मांगीलाल/रामकिशन के मकान	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	18	---	म.नं. 28 से म.नं. 46 तक सीता/हजारी से बूजलाल/राधेश्याम	अनुसूचित जनजाति
पंच	19	---	म.नं. 47 से म.नं. 73/5 तक हरी/देवकरण से मोहनलाल/मांगीलाल के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	20	---	म.नं. 74 से म.नं. अन्त तक राजाराम/मांगीलाल से ओंकारनाथ/अमरनाथ के मकान	अनुसूचित जाति महिला
पंच		भदरतालाबढेके		

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **अबगांवकला** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है।

49	सरपंच			अनुसूचित जाति महिला	
	पंच	1	अबगांवकला	म.नं. 4 से म.नं. 24 तक जगन्नाथ/काशीराम से सुशीला/हजारी के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	2	---	म.नं. 26 से म.नं. 48/1 तक रामाधार/कुजीलाल से रामकिशन/रामस्वरूप के मकान	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	3	---	म.नं. 48/2 से म.नं. 61 तक मेगराज/स्वरूप से भोया/सुनील के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
	पंच	4	---	म.नं. 62 से म.नं. 81 तक शारदा/गोकूल से जगदीश/चन्द्र के मकान तक	अनुसूचित जाति
	पंच	5	---	म.नं. 82 से म.नं. 110 तक राकरी/बलराम से हजारी/शिवकरण के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	6	---	म.नं. 113 से म.नं. 130 तक श्रीकिशन/हरीमल से कैलाश/मिश्रीलाल के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	7	---	म.नं. 132 से म.नं. 165 तक हरिराम/प्रमोद से शांता/गुलाबसिंग के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	8	---	म.नं. 166 से म.नं. 188 तक सरजू/राधेलाल से नर्मदा/बल्लभ के मकान तक	अनुसूचित जाति
	पंच	9	---	म.नं. 188 से म.नं. 190 तक करण/मदनसिंग से बालकदास/मुरारी के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
	पंच	10	---	म.नं. 192 से म.नं. 208 तक अमरदास/रंगलाल से नर्मदीबाई/डालू के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग
	पंच	11	---	म.नं. 209 से म.नं. 220 तक इन्दुबाई/जगन्नाथ से सुन्दरबाई/पदमा के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	12	---	221 से 237 शीताबाई/श्रीराम से सोहनलाल/नन्दू के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	13	---	म.नं. 237 से म.नं. 250 तक रामभरोस/पन्नालाल से हरनाथ/कालू के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	14	---	म.नं. 253 से म.नं. 271 तक रामेश्वर/छीतर से लीलाबाई/हरनाथ के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग
	पंच	15	---	म.नं. 271 से म.नं. 288 तक रेवाराम/कुन्दाजी से प्रहलाद/कालू के मकान तक	अनारक्षित

1	2	3	4	5
पंच	16	---	म.नं. 289 से म.नं. अन्त तक देवबाई/बाबूलाल से सुनील/रेवारा के मकान तक	अनारक्षित
पंच	17	भैरपुर	म.नं. 2 से म.नं. 23 तक लक्ष्मीनारायण / रामचंद से हरीशंकर/पन्नालाल के	अनारक्षित
पंच	18	---	म.नं. 23क से म.नं. 37 तक बलराम/पन्नालाल से गिरजा/पांडरीनाथ के मकान	अनारक्षित
पंच	19	---	म.नं. 38 से म.नं. 56 तक भगवान/रामचंद से पुनीया/धिसया के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	20	---	म.नं. 57 से म.नं. 64 तक श्यामबाई/दरीयाब से लक्ष्मण/रामलाल के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच		हेमापुर वीरान	---	

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **रिजगांव** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के,जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

50	सरपंच			अनुसूचित जनजाति
पंच	1	रिजगांव	म.नं. 1 से म.नं. 12 तक शंभूश्याम/मयाराम से शारदा/कमलसिंह के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	2	---	म.नं. 14 से म.नं. 30 तक चंद्रभूषण/रामशंकर से मदन/हजारी के मकान तक	अनुसूचित जाति
पंच	3	---	म.नं. 30/5 से म.नं. 47 तक नल्लू/शिवकरण से बालाराम/रामेश्वर के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	4	---	म.नं. 48 से म.नं. 80 तक रामोतार/रामलाल से इन्दुवर्तसिंह/रामलाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	5	---	म.नं. 81 से म.नं. 75 तक मुलिया बाइ/शंभूलाल से राजेश/जसवंत	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	6	---	म.नं. 76 से म.नं. 94 तक आशाराम/किशोर सिंह से इमरत/रामलाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	7	---	म.नं. 95 से म.नं. 104 तक तुलसा/अमरतलाल से अनोखी/उमराव	अनुसूचित जाति महिला
पंच	8	---	म.नं. 106 से म.नं. 117 तक सुन्दरलाल/रामकिशन से राजाराम/धरवर सिंह	अन्य पिछड़ा वर्ग
पंच	9	---	म.नं. 118 से म.नं. 126 तक प्रेमनारायण/हरचंद से करण सिंह/पार्वत सिंह	अन्य पिछड़ा वर्ग
पंच	10	---	म.नं. 127 से म.नं. 138 तक नर्मदी/डालु से कोमल/रामप्रसाद	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	11	---	म.नं. 140 से म.नं. 150 तक मदनलाल/रघुनाथ से रामविलास/नारायण सिंह	अनारक्षित
पंच	12	---	म.नं. 152 से म.नं. 183 तक बसू/नवगिर से रामगोविंद/दरियाव सिंह के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	13	---	म.नं. 165 से म.नं. 187 तक प्रेम/हरिप्रसाद से रामनिवास/गजराज के मकान तक	अनारक्षित
पंच	14	---	म.नं. 188 से म.नं. अन्त तक प्रदीप/रविशंकर से सीमा/मांगीलाल के मकान तक	अनुसूचित जाति

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **कोलीपुरा** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के,जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

51	सरपंच			अनारक्षित महिला
पंच	1	कोलीपुरा	म.नं. 1 से म.नं. 16 तक पूनम/दोलत से द्वारकाबाई/प्रताप सिंह के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	2	---	म.नं. 17 से म.नं. 34 तक मोती सिंह/चैनसिंग से केशर बाई/भागवान के मकान	अनारक्षित महिला
पंच	3	---	म.नं. 35 से म.नं. 45 तक भुजराज/शिश्राम से रामचरण /छूडया के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	4	---	म.नं. 45अ से म.नं. 60 तक रामप्रमोद/छूडया से मोहनला/मांगीलाल के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	5	---	म.नं. 60/1 से म.नं. 79 तक बलराम/बंदी से मदन/बाबू के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	6	---	म.नं. 80 से म.नं. 83 तक एकता/बैकुण्ठ से रेवारा/बोंदर के मकान तक	अनारक्षित

1	2	3	4	5
पंच	7	---	म.नं. 83/1 से म.नं. 106 तक हरि/कुजी से सुन्दर/रामकिशन के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	8	---	म.नं. 106 च से म.नं. अंत तक रामस्वरूप/गिरधन से सरजू/रामनारायण	अनुसूचित जाति महिला
पंच	9	कुंजरगांव	म.नं. 1 से म.नं. 13 तक रामेश्वर/जामेश्वर से हरिराम/देवराज के मकान तक	अनुसूचित जाति
पंच	10	---	म.नं. 14 से म.नं. 19 तक सुमन/उमराव से किशोर/रूपा के मकान तक	अनारक्षित
पंच	11	---	म.नं. 20 से म.नं. 29 तक मोहनलाल/त्रूथू से पन्नालाल/रामकिशोर के मकान	अनुसूचित जाति
पंच	12	---	म.नं. 30 से म.नं. 40 तक शिवप्रसाद/दयाराम से चन्द्रसिंह/गुलाब के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	13	---	म.नं. 41 से म.नं. 54 तक रातविलास/राधेलाल से सेवाराज/घासीराम के मकान	अनारक्षित
पंच	14	---	म.नं. 55 से म.नं. अंत तक घोसी बाई/मोहन से सरदारबाई/फतेसिंह के मकान तक	अनारक्षित महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत गोगिया खण्ड हरदा के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के,जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

52	सरपंच			अनारक्षित महिला
पंच	1	गोगिया	म.नं. 1 से म.नं. 18 तक श्यामलाल से तुलसीराम के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	2	---	म.नं. 18 से म.नं. 28/3 तक रमेश से रामकरण के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	3	---	म.नं. 29 से म.नं. 44 तक सुन्दरबाई से कचरू के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	4	---	म.नं. 45क से म.नं. 57 तक अशोक से श्यामाबाई के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	5	---	म.नं. 57/1 से म.नं. 88 तक मदन से राधेश्याम के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	6	---	म.नं. 89 से म.नं. 89 तक कैलाश से छट्टू के मकान तक	अनुसूचित जाति
पंच	7	---	म.नं. 89/2 से म.नं. 106 तक दिनेश से तेजा के मकान तक	अनारक्षित
पंच	8	---	म.नं. 107 से म.नं. अंत तक गजराज से बलराम के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	9	इकडालिया	म.नं. 1 से म.नं. अंत तक भारत से रामविलास के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग
पंच	10	घोडोकुण्ड	म.नं. 1 से म.नं. 13 तक गीता से कली के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	11	---	म.नं. 14 से अंत तक तारा से नर्मदा के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	12	विचपुरी	म.नं. 1 से अंत तक लक्ष्मीनारायण से अंत के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग
पंच	13	गांग्याखेडी	म.नं. 1 से म.नं. 12 तक शंकर से हरनाथ के मकान तक	अनारक्षित
पंच	14	एवं आमानेर	म.नं. 13 से म.नं. अंत तक मदन से अंत तक के मकान तक	अनुसूचित जाति

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत आदमपुर खण्ड हरदा के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के,जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

53	सरपंच			अनारक्षित
पंच	1	आदमपुर	म.नं. 1 से म.नं. 11/2 तक संतोष/मोहन से सुगना/रामप्रसाद के मकान तक	अनुसूचित जाति
पंच	2	---	म.नं. 11/3 से म.नं. 22 तक मनीराम/रघुनाथ से प्रेम/मुजराम के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	3	---	म.नं. 23/1 से म.नं. 34/2 तक रामदीन/बन्दी से तुलसीराम/गोलू के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	4	---	म.नं. 35ख से म.नं. 39/3 तक तीजा/राममरोस से श्रवण/ताराचंद के मकान तक	अनारक्षित
पंच	5	---	म.नं. 46 से म.नं. 67/1 तक प्रेमबाई/नाथा से हरीराम/रामलाल के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला

1	2	3	4	5
पंच	6	---	म.नं. 68 से म.नं. 82 तक बोंदर/माती से हरीराम/रामदीन के मकान तक	अनारक्षित
पंच	7	---	म.नं. 83 से म.नं. 97 तक भजुदया/बलराम से प्रेमनारायण/रामेश्वर के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	8	---	म.नं. 97/3 से म.नं. 106 तक मोती/बलराम से हरनाथ/रघुनाथ के मकान तक	अनुसुचित जनजाति महिला
पंच	9	---	म.नं. 109 से म.नं. 125 तक उमा/शंकरलाल से प्रेम/मांगीलाल के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग
पंच	10	---	म.नं. 130 से म.नं. अन्त तक सीताराम/किशनलाल से चुडया/हरीसिंग के मकान तक	अनुसुचित जनजाति
पंच	11	गुरारखेडी एवं	म.नं. 1 से म.नं. 44/2 तक शांति/गुजराम से सुरत/नल्यु के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	12	नरसिंहखेडी	म.नं. 14/3 से म.नं. 31/3 तक अनसुईया/अमराजी से राधेश्याम/मोजीराम के मकान	अनारक्षित
पंच	13	---	म.नं. 32/1 से म.नं. अन्त तक प्रहलाद/रेवाराम से कैलाश/रंगलाल के मकान तक	अनुसुचित जनजाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत नांदरा खण्ड हरदा के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के,जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

54	सुरपंच			अनारक्षित
पंच	1	नांदरा	म.नं. 1 से म.नं. 16 तक रामविलास से पार्वती / नारायण के मकान तक	अनारक्षित
पंच	2	---	म.नं. 18 से म.नं. 23 तक शिवशंकर /राधाकिशन से सुदरबाई /मोतीलाल के	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	3	---	म.नं. 29 से म.नं. 35 तक भागीरथ / कालू से रामाधार / पन्नालाल के मकान	अन्य पिछडा वर्ग
पंच	4	---	म.नं. 36 से म.नं. 46 तक रामभरोस / उगरा से मांगीलाल / हजारी तक के	अन्य पिछडा वर्ग
पंच	5	---	म.नं. 47 से म.नं. 54 तक सुनिता / मंशाराम से वनवारी / दशरथ के मकान तक	अनुसुचित जनजाति महिला
पंच	6	---	म.नं. 55 से म.नं. 63 तक चंपालाल / मोतीलाल से अनवर / मंशी के मकान तक	अनुसुचित जाति
पंच	7	---	म.नं. 65 से म.नं. 88 तक रामलाल / अमरा से दयाराम / साखाराम के मकान	अनुसुचित जाति महिला
पंच	8	---	म.नं. 89 से म.नं. 101 तक मिश्री / दगडया से शिवप्रसाद / सिकदार के मकान	अनुसुचित जाति महिला
पंच	9	---	म.नं. 103 से म.नं. 122 तक गंगाविशन / रामलाल से जगदीश / अमरा के मकान	अनुसुचित जाति महिला
पंच	10	---	म.नं. 123 से म.नं. 136 तक केशर / शिवराम से बलराम / चिन्मा तक के मकान	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	11	---	म.नं. 138 से म.नं. 153/2 तक रामलाल / हरिराम से सुरेश / शिवप्रसाद के मकान	अनारक्षित महिला
पंच	12	गोयत एवं	म.नं. 2 से म.नं. 17 तक शेर खा / सिकंदर से हरिशंकर / देवराज के मकान	अनारक्षित महिला
पंच	13	---	म.नं. 18 से म.नं. 33 तक सेवाराम / देवराज से हरचंद / देवराज के मकान तक	अनारक्षित
पंच	14	---	म.नं. 35 से म.नं. 50 तक भागवती / जगदीश से रामप्यारी / दयाराम के मकान	अनारक्षित
पंच	15	खरतलाव	म.नं. 51 से म.नं. अन्त तक देवचंद/पैमा से मोहनलाल/भाउ एवं सागर/जयराम के	अनुसुचित जाति

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत सिगोन खण्ड हरदा के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के,जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

55	सुरपंच			अनुसुचित जाति महिला
पंच	1	सिगोन	म.नं. 1 से म.नं. 15 तक बोन्दर/देवसिंग से जमना/बापूलाल के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	2	---	म.नं. 16 से म.नं. 31 तक लखन/पन्ना से कल्लू/रुगनाथ के मकान तक	अनुसुचित जनजाति
पंच	3	---	म.नं. 32 से म.नं. 45 तक प्रेम/श्यामलाल से गंगाराम/देवकरण के मकान तक	अनुसुचित जनजाति महिला
पंच	4	---	म.नं. 45क से म.नं. 59 तक रामगोपाल/मोहनलाल से समोला/रामप्रसाद के मकान	अनुसुचित जनजाति

1	2	3	4	5
पंच	5	---	म.नं. 60 से म.नं. 72 तक शैतान/प्रताप से नर्मदाप्रसाद/गोरेलाल के मकान तक	अनारक्षित
पंच	6	---	म.नं. 73 से म.नं. 90 तक गोरेलाल/छीतर से गुलाब/साबूलाल के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	7	---	म.नं. 92 से म.नं. 107 तक चंपी/गोरेलाल से गधरादास/मांगीलाल के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	8	---	म.नं. 107 क से म.नं. 121 तक श्रीराम/घासीराम से कमला/छोटेलाल के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	9	---	म.नं. 122 से म.नं. 138 तक अमर सिंग/रामेश्वर से बुद्ध/सुभान के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	10	---	म.नं. 139 से म.नं. अंत तक रमेश / गण्पा के मकान तक	अनारक्षित
पंच	11	सगोदा	म.नं. 3 से म.नं. 18/1 तक अजयसिंग/निर्मयसिंग से फूलबाई/शोभाशरम के मकान	अनारक्षित
पंच	12	---	म.नं. 19 से म.नं. 39/1 तक शिवलाल/गोरेलाल से अन्त के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	13	ढेकी	म.नं. 1 से म.नं. 20क तक रुखमणी से मल्लू के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	14	---	म.नं. 21 से म.नं. 92 तक बंसती बाई से अन्त तक के मकान तक	अनुसूचित जनजाति

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **बीड** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के,जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

56	सरपंच			अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	1	बीड	म.नं. 3 से म.नं. 21 तक बल्लो/विहारीलाल से जयप्रकाश/महेश के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	2	---	म.नं. 22 से म.नं. 40 तक सरस्वती/गंगाविशान से अरुणा/मोहन के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	3	---	म.नं. 41 से म.नं. 56 तक दुर्गाप्रसाद/लक्ष्मण से संगीता/बनवारीलाल के मकान	अनारक्षित
पंच	4	---	म.नं. 58 से म.नं. 84 तक अन्नापूर्णा/रामनारायण से अमित/रमेशकुमार के मकान	अन्य पिछडा वर्ग
पंच	5	---	म.नं. 86 से म.नं. 102 तक शिवप्रसाद/घासीराम से भुमि/जयराम के मकान तक	अनारक्षित
पंच	6	---	म.नं. 103 से म.नं. 123/2 तक रामनिवास/इन्दर से निर्मयराम/सालकराम के मकान	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	7	---	म.नं. 124 से म.नं. 142 तक गंगा/जगन्नाथ से अनिता/जगदीश के मकान तक	अनुसूचित जाति
पंच	8	---	म.नं. 143 से म.नं. 155/1 तक जगन्नाथ/गंदालाल से संदिय/रामनाथ के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	9	---	म.नं. 157 से म.नं. 175 तक चन्दन/बालाराम से सुगना बाई/राजू के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	10	---	म.नं. 176 से म.नं. अन्त तक श्यामलाल/कालीचरण से अन्त तक के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **खेडीनीमा** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के,जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

57	सरपंच			अनारक्षित
पंच	1	खेडीनीमा	म.नं. 1 से म.नं. 14 तक कमल / बुद्धराम से बाबूलाल / किशन के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	2	---	म.नं. 15 से म.नं. 30 तक ददीलाल / से सीताराम / मोती के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	3	---	म.नं. 31 से म.नं. 43/1 तक रानी / बालू से बलराम / देवकरण के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	4	---	म.नं. 44 से म.नं. 54 तक रामेश्वर/किशाल से के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	5	---	म.नं. 55 से म.नं. अंत तक मिश्रीलाल से सुनार सिंग के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग
पंच	6	जुगरिया एवं	म.नं. 1 से म.नं. 10/2 तक धनलाल / रामनारायण से राम लाल के मकान तक	अनारक्षित

1	2	3	4	5
पंच	7	गुरदिया	म.नं. 11 से म.नं. 18/6 तक रामभरोस/धन्नालाल से हेमराज/रामभरोस के मकान	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	8	---	म.नं. 19 से म.नं. 29 तक शांतीलाल/मांगीलाल से हरीराम/डालू जी के मकान	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	9	---	म.नं. 30/1 से म.नं. 39 तक मूरत सिंग से गुलाब सिंग के मकान तक	अनुसुचित जनजाति महिला
पंच	10	---	म.नं. 40 से म.नं. अंत तक भागवत सिंग/फूलसिंग से बसू बाई/गंगाराम के मकान	अनुसुचित जनजाति
पंच	11	भमोरी	म.नं. 1 से म.नं. 21 तक ज्योति / रामविलास से देवबाई/पन्नालाल के मकान	अनारक्षित
पंच	12	---	म.नं. 22/1 से म.नं. 39 तक प्रताप/बोदर से किशोरी/पन्नालाल के मकान तक	अनुसुचित जनजाति
पंच	13	---	म.नं. 40 से म.नं. 70/2 तक गणेश/श्यामलाल से इंद्रबाई/हेमराज के मकान तक	अनारक्षित
पंच	14	---	म.नं. 70/3 से म.नं. अंत तक सतीष/रामगोपाल से चंदाबाई/प्रीतमनाथ के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **अजनास रैयत** खण्ड हरदा के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के,जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

58	सरपंच			अनुसुचित जनजाति महिला
पंच	1	अजनासरैयत	म.नं. 1 से म.नं. 12 तक जमुना / मिश्रीलाल से पुष्पा / प्रेमनारायण के मकान	अनारक्षित महिला
पंच	2	---	म.नं. 13 से म.नं. 22 तक किशनलाल / मोतीलाल से राम भरोस / कालू के	अनारक्षित महिला
पंच	3	---	म.नं. 23 से म.नं. 37 तक फुली / हरनारायण से रामनारायण / बाबू के मकान	अनारक्षित
पंच	4	---	म.नं. 38 से म.नं. 55/1 तक देवीसिंह / जागेश्वर से रामाधार / खली के मकान तक	अनारक्षित
पंच	5	---	म.नं. 58 से म.नं. 77/3 तक शिवप्रसाद / रामकिशन से कला / उदय के मकान	अनुसुचित जाति महिला
पंच	6	---	म.नं. 78 से म.नं. 91 तक बाबूलाल / कुजी से कजरिया / सिकंदर के मकान	अनुसुचित जाति महिला
पंच	7	---	म.नं. 92 से म.नं. 106 तक रामहेत / रामचंद से पुनमचंद / धारीराम के मकान	अनुसुचित जाति
पंच	8	---	म.नं. 107 से म.नं. 114/3 म.नं. अजब सिंह / प्रेमसिंह से अमरसिंह के मकान तक	अनुसुचित जनजाति महिला
पंच	9	---	म.नं. 114/4 से म.नं. 136 तक अमर / अनवर से ज्ञानसिंह / भाउसिंह के मकान तक	अनुसुचित जनजाति
पंच	10	---	म.नं. 137 से म.नं. अंत तक शांता / रामदीन से राजेश / जागेश्वर के मकान तक	अनुसुचित जनजाति महिला
पंच	11	अजनासखुर्द	म.नं. 1 से म.नं. 4 तक देवराज / कालू से सोहनलाल / अनुप के मकान तक	अनुसुचित जनजाति
पंच	12	---	म.नं. 5 से म.नं. 18 तक लक्ष्मण / कालू से रमेश / जगू के मकान तक	अनुसुचित जनजाति महिला
पंच	13	---	म.नं. 19 से म.नं. 26 तक किशन / पन्ना से राधा / राधेलाल के मकान तक	अनुसुचित जनजाति महिला
पंच	14	---	म.नं. 27 से म.नं. 37 तक कैलाश/जागेश्वर से पुनीया/जसन के मकान तक	अनुसुचित जनजाति
पंच	15	---	म.नं. 40 से म.नं. अंत तक परसराम/नंदलाल से फुलवती/अजब सिंह के मकान	अनुसुचित जनजाति

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **बैरागढ** खण्ड हरदा के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के,जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

59	सरपंच			अनुसुचित जाति
पंच	1	बैरागढ	म.नं. 1 से म.नं. 22 तक रामकली/रागेश्वर से सेवती बाई/प्रहलाद के मकान	अनारक्षित
पंच	2	---	म.नं. 26 से म.नं. 53 तक श्रीकिशन/ टुकडया से सुरेश/बैयालाल के मकान तक	अनारक्षित
पंच	3	---	म.नं. 55 से म.नं. 77 तक अनिल/जागेश्वर से पूनलाल/बैयालाल के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला

1	2	3	4	5
पंच	4	---	म.नं. 79 से म.नं. 98 तक रामशंकर/भैयालाल से दिनेश/सत्पनारायण के मकान	अनुसुचित जनजाति महिला
पंच	5	---	म.नं. 98/1 से म.नं. 118 तक अमर सिंह/बादर सिंह से दयाराम/तुलसीराम के मकान	अनारक्षित
पंच	6	---	म.नं. 119 से म.नं. 556 तक हरिओम/मूलचंद से सुन्दरलाल/श्यामलाल के मकान	अनुसुचित जाति
पंच	7	---	म.नं. 559 से म.नं. 595क तक रफी/मोहम्मद से मधुवा/किशोरी के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	8	---	म.नं. 596 से म.नं. अन्त तक गणेश/बद्रीप्रसाद से सुरेश/किशोरी के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	9	खेडीमेठमूदाबाद	म.नं. 7 क से 325 तक गंगावर/नाथूराम से मनोज/गोन्दूलाल के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग
पंच	10	---	म.नं. 325 ए से 320 घ तक शंकर/राधेश्याम के आशाराम/रामेश्वर के मकान तक	अनुसुचित जनजाति
पंच	11	---	म.नं. 320छ से 320 द तक अमर सिंह/लक्ष्मण से शांता/मरदान सिंह के मकान तक	अनुसुचित जनजाति
पंच	12	---	म.नं. 320 घ से 322 छ तक रामदीन/रामकिशन से चंदूलाल/रामदयाल के मकान तक	अनुसुचित जनजाति महिला
पंच	13	---	म.नं. 322 ज से 322 म तक भागीरथ/शिवकरण से रागिनी/अमित कुमार के मकान	अनुसुचित जाति
पंच	14	---	म.नं. 322/1 से 324 द तक रामकृष्णा/रामभाऊ से सुकिया/सुडिया के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग
पंच	15	---	म.नं. 122 से 127 तक मनोहरलाल/रामकरण से साजिद शाह/साबिर शाह के	अनारक्षित
पंच	16	---	म.नं. 127 क से 326/15 क तक अनरी बी/नूर खां से दिनेश/शिवराम के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	17	---	म.नं. 326/16 क से 120 ग योगेश/रामनिवास से लक्ष्मीनारायण/बौंदर के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	18	---	म.नं. 120 घ/1 से 192 क तक लक्ष्मीनारायण/मन्थू से दीपक कुमार/रोशचंद के मकान	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	19	---	म.नं. 193 से 200 तक गौरीशंकर/शिवनारायण से पिकी/राधेश्याम के मकान	अनुसुचित जाति महिला
पंच	20	---	म.नं. 200 क से 209 क तक ब्रह्मप्रसाद/ताराचंद से अतुल/भुवन विक्रम के मकान	अनुसुचित जाति महिला

ग्राम पंचायत

झाड़पा नवीन

खण्ड हरदा में स्थानों के आरक्षण की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत झाड़पा नवीन खण्ड हरदा के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है।

60	सरपंच				अन्य पिछड़ा वर्ग
	पंच	1	झाड़पा (नवीन)	म.नं. 2 से म.नं. 10 ग तक हिमानी/चंद्रशेखर से ममता/राधेश्याम के मकान तक	अनुसुचित जाति महिला
	पंच	2	---	म.नं. 10घ से म.नं. 27 तक कमला बाई/रामेश्वर से अयोध्या बाई/रामदीन के मकान	अनारक्षित
	पंच	3	---	म.नं. 20 से म.नं. अन्त तक रामलाल/शोमाराम से सुनीता/हरेश के मकान तक	अनुसुचित जनजाति
	पंच	4	वैड़ागांव	म.नं. 1 से म.नं. 14 तक परसराम/मांगीलाल से नानकराम/छोगेलाल के मकान	अनारक्षित महिला
	पंच	5	---	म.नं. 15 से म.नं. 39 तक रामदास/हरनारायण से रूपसिंग/देवा के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	6	---	म.नं. 40 से म.नं. अन्त तक हजारी/माती से लीलाधर/गंगाविशन के मकान तक	अनुसुचित जनजाति महिला
	पंच	7	देदला दमामी	म.नं. 1 से म.नं. अन्त तक सोहनलाल/सुरेश से कैलाश/काशीराम के मकान तक	अनुसुचित जनजाति महिला
	पंच	8	नहाड़िया	म.नं. 1 से म.नं. 14 तक भागवती बाई/भारमल से जर्मिला बाई/रामसुख के	अनारक्षित
	पंच	9	---	म.नं. 15 से म.नं. 33 तक बाबूलाल/धनश्याम से मनोहर/चंदर के मकान तक	अनुसुचित जनजाति
	पंच	10	---	म.नं. 36 से म.नं. अन्त तक रामेश्वर/बुद्ध से गजराज सिंग/बाबूलाल के मकान	अनुसुचित जनजाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **नकवाड़ा** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

61	सरपंच				अनुसूचित जाति महिला
	पंच	1	नकवाड़ा	म.नं. 1 से म.नं.17 गजराज / रामेश्वर से सोनाबाई / बाबूलाल के मकान	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
	पंच	2	---	म.नं. 19 से म.नं. 33 रामकृष्ण / जगन्नाथ से महेश / रामप्रसाद के मकान	अनारक्षित
	पंच	3	---	म.नं.34 से म.नं.55 यशोदाबाई / अनोखीलाल से कमलाबाई / शंकरसिंह के	अनारक्षित
	पंच	4	---	म.नं.56 से म.नं.79 भोलाराम / मांगीलाल से रामदास / घासीराम के मकान	अनारक्षित महिला
	पंच	5	---	म.नं.80 से म.नं.102 घासीराम / जगत से गेदालाल / मोतीराम के मकान तक	अनुसूचित जाति
	पंच	6	---	म.नं.103 से म.नं.122 बदीप्रसाद / रामप्रसाद से शोभाराम / लल्लू के मकान	अन्य पिछड़ा वर्ग
	पंच	7	---	म.नं.123 से म.नं.140 लक्ष्मीबाई / मोतीराम से सुरेशचंद / रामगोपाल के	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	8	---	म.नं.142 से म.नं.155 भांगीरथ / ताराचंद से रामभरोस / रामेश्वर के मकान	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	9	---	म.नं.156 से म.नं.177 रंभा / रामेश्वर से मांगीलाल / रामेश्वर के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	10	---	म.नं. 178 से अंत रामभरोस / जगन्नाथ से मोतीराम / मुकुंद के मकान	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **कनारदा** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

62	सरपंच				अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
	पंच	1	कनारदा	म.नं. 2 से म.नं. 19 तक सावित्री / शंकरलाल से रामभरोस / रामेश्वर के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	2	---	म.नं. 23 से म.नं. 40 तक हरीप्रसाद / शिवप्रसाद से सुशीला / सुखराम के मकान	अनुसूचित जाति
	पंच	3	---	म.नं. 41 से म.नं. 53 तक पुना बाई / तेजराज से लक्ष्मीबाई / गोरैलाल के मकान	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	4	---	54 से 71 नर्मदाप्रसाद / राजाराम से प्रभा / रामकृष्णा के मकान तक	अनुसूचित जाति
	पंच	5	---	म.नं. 72 से म.नं. 93 तक मिश्रीलाल / चैतराम से प्रेमलता / शंकर के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	6	---	म.नं. 94 से म.नं. 107 तक लक्ष्मी / गधु से श्रीराम / सिताराम के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग
	पंच	7	---	म.नं. 109 से म.नं. 132/1 तक सोभता / धनसिंग से रामभरोस / रामप्रसाद के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	8	---	म.नं. 132/2 से म.नं. 144 तक बाबूलाल / रामप्रसाद से सत्यनारायण / मांगीलाल के	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
	पंच	9	---	म.नं. 145 से म.नं. 155/2 के मकान तक बदीप्रसाद / मांगीलाल से शांता बाई / राधेश्याम के मकान	अनारक्षित
	पंच	10	---	म.नं. 156 से म.नं. 169/2 तक हरगोविंद / कन्हैयालाल से ओमप्रकाश / फूलचंद्र के मकान	अन्य पिछड़ा वर्ग
	पंच	11	---	म.नं. 169/3 से म.नं. अन्त तक नारायण / फूलचंद्र से राम / गैथालाल के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	12	खारपा	म.नं. 1/1 से म.नं. 16 क तक रणछोड / हरपाल से चम्पालाल / घुड्या के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	13	---	म.नं. 17 से म.नं. 28/2 तक कमला / हरिदास से शिवनारायण / तुलाराम के मकान	अनारक्षित महिला
	पंच	14	---	म.नं. 29 से म.नं. 39 तक प्रहलाद / मोतीराम से अमरसिंह / पेमाजी के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	15	---	म.नं. 40क से म.नं. अन्त तक नरेश / मुशी से श्रीराम / मोतीराम के मकान तक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **केलनपुर** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के,जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

63	सरपंच			अनुसूचित जनजाति
पंच	1	केलनपुर	म.नं. 3 से म.नं. 28 तक सुरेश/चैनसिंग से आरुश बाई/बद्रीप्रसाद के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	2	---	म.नं. 29 से म.नं. 60 तक गहेन्द/हीरालाल से आनन्द/सीताराम के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग
पंच	3	---	म.नं. 62 से म.नं. 88 तक अमराबाई/घासीराम से सत्यनारायण/रामप्रसाद के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	4	---	म.नं. 90 से म.नं. 117 तक हीप्रसाद/गोरालाल से अभिषेक के मकान तक	अनारक्षित
पंच	5	---	म.नं. 117क से म.नं. 135क तक मनोहर/रंगलाल से रिंकी बाई/राजेश के मकान तक	अनारक्षित
पंच	6	---	म.नं. 136क से म.नं. 155 तक मांगीलाल/बाबूलाल से सावित्रीबाई के मकान तक	अनारक्षित
पंच	7	---	म.नं. 156 से म.नं. 174 तक श्रीराम/दयाराम से मनीषा/सुनील के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	8	---	म.नं. 175 से म.नं. 208 तक अनिल/अनवर से हेम/कमलेश के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	9	---	म.नं. 208क से म.नं. अन्त तक कैदारसिंग/रामेश्वर से पदम सिंग /जयसिंग के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	10	पहतगांव	म.नं. 1 से म.नं. अन्त तक कुसुम बाई/गंगारिशन से अखिलेश/मोहनलाल के मकान तक	अनुसूचित जाति

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **साल्याखेडी** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के,जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

64	सरपंच			अनुसूचित जाति
पंच	1	साल्याखेडी	म.नं. 1 से म.नं. 6 तक केसरी कीर से रेले/बूधा के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	2	---	म.नं. 7 से म.नं. 14क तक मलिता से रमेश सीकदार के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	3	---	म.नं. 15 से म.नं. 28क तक सुनिल से शंकर/मिठतू के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	4	---	म.नं. 29 से म.नं. 42क तक मालसिंह से बदाम/शिवलाल के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	5	---	म.नं. 43 से म.नं. अन्त तक बनारसी अंधार स राधेश्याम के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	6	चीराखान	म.नं. 1 से म.नं. 12/2 तक रामजीवन से बुहु बालाराम के मकान तक	अनारक्षित
पंच	7	---	म.नं. 12/3 से म.नं. 22/2 तक भूषा/बालाराम से देवु श्यामलाल के मकान तक	अनारक्षित
पंच	8	---	म.नं. 23 से म.नं. 36/2 मे बेनी/श्यामलाल से मोहन/रतन के मकान तक	अनुसूचित जाति
पंच	9	---	म.नं. 37 से म.नं. 48 तक पन्ना/सामा से राधेश्याम/देवकरण के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	10	---	म.नं. 49 से म.नं. 63 तक इन्दर/नैनसिंह से श्याम/जलाल के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	11	---	म.नं. 64 से म.नं. 77 तक जगदीश/गुलाब से गंगा/बरजोर के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	12	---	म.नं. 78 से म.नं. अन्त तक मदन मुरत से बलबीर के मकान तक	अनारक्षित
पंच	13	जोगाकलां	म.नं. 1 से 11 तक काजु/किशोर से बुधिया /हीरालाल के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	14	---	म.नं. 12 से म.नं. 24 मोहन /देवा से समु /बिहारी के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	15	---	म.नं. 25 से म.नं. अन्त तक बुस/शिवलाल से शंकर आधर के मकान तक	अनारक्षित महिला
पंच	16	उडाल	म.नं. 1 से म.नं. 13 तक राधेश्याम /लखन से साबू मोहन के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	17	---	म.नं. 13क से म.नं. अन्त तक भूरालाल/देवकरण से भंशाराम के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	18	समपुरा एवं थाना थाना वीरान.	म.नं. 1 से अन्त म.नं. तक गोविन्द से गोकूल मांगीलाल के मकान तक	अनुसूचित जनजाति

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसारण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **करनपुरा** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

65	सरपंच				अनुसूचित जाति
	पंच	1	करनपुरा	म.नं. 1 से म.नं. 14 तक जगदीश से इबदल सिंग के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	2	---	म.नं. 15 से म.नं. 26 तक जशोदा से मंजूबाई के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	3	---	म.नं. 28 से म.नं. 49 तक मिश्री सुशीला बाई के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	4	---	म.नं. 50 से म.नं. 62 तक मांगीबाई से सुखराम के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	5	---	म.नं. 63 से म.नं. 74 तक कोदर से बसंती के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	6	---	म.नं. 75 से म.नं. 98 तक भानक से चांदनी के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	7	---	म.नं. 99 से म.नं. 133 तक सीता बाई से सुनील के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	8	सेनगुड एवं	म.नं. 1 से म.नं. 15 तक जितेन्द्र से शांती के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	9	सेनगुडदमाभी	म.नं. 16 से म.नं. 30 तक रघुनाथ से ओमप्रकाश के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	10	---	म.नं. 31 से म.नं. अन्त तक हरीप्रसाद से रमेश के मकान तक	अनारक्षित

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसारण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **पांचातलाई** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

66	सरपंच				अन्य पिछड़ा वर्ग
	पंच	1	पांचातलाई	म.नं. 2 से म.नं. 16 तक चैनसिंग/कुंजीलाल से लोकेश/भगताराम के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	2	---	म.नं. 17 से म.नं. 26 तक गायत्री/बाबूलाल से यर्षा/घासीराम के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	3	---	म.नं. 28/1 से म.नं. 40 तक मोजीराम/शेवाराम से समोला/केवलराम के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	4	---	म.नं. 41 से म.नं. 52 तक शोभा/बाबूलाल से भाया/पंकज के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	5	---	म.नं. 53 से म.नं. 62 तक परमानन/रामलाल से मन्/महेश के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	6	---	म.नं. 62/1 से म.नं. अन्त तक अंगुरीबाई/उमेश सिंग से ज्योति/शेरसिंग के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	7	डोमरीखुई	म.नं. 1 से म.नं. अन्त तक दिनेश/बदाम सिंग से भागवती/रामदास के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	8	डोमरीकलां	म.नं. 1 से म.नं. 14 तक अनोखीलाल/रामेश्वर से चन्/खुमानसिंग के मकान	अनुसूचित जनजाति
	पंच	9	---	म.नं. 15 से म.नं. 27 तक अमर सिंग/धनसिंग से पुरुषोत्तम / लक्ष्मीनारायण के	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	10	---	म.नं. 28 से म.नं. अन्त तक गायत्री/जगन्नाथ से सोहनलाल/पेमाजी के मकान	अनारक्षित
	पंच	11	जामली दमाभी	म.नं. 1 से म.नं. 16 तक अजयसिंग/किशोर से चमन/राकेश के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	12	---	म.नं. 16 से म.नं. 27 तक गुलाब/बिहारी से शारदा / गोविंद के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	13	---	म.नं. 28 से म.नं. 47 तक प्यारसिंग/कुंजी से लीला/शैतान के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	14	---	म.नं. 48 से म.नं. अन्त तक रामबाई/गंगालाल से बृजेश/रमेश के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	15	धीपलघटा	म.नं. 1 से म.नं. 16 तक कचरु/रामरतन से संगीता/सुरज के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	16	---	म.नं. 18 से म.नं. 30 तक भीका/शंकरलाल से छीतेश/बसंत के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	17	---	म.नं. 35 से म.नं. 47 लीला/भीका से सदासुख/प्यारसिंग के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	18	---	म.नं. 47/1 से म.नं. अन्त रामकृष्ण/संदर से अर्जुन/किशनलाल के मकान तक	अनुसूचित जनजाति

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **उवा** खण्ड **इरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के,जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

67	सरपंच				अन्य पिछडा वर्ग
	पंच	1	उवा	म.नं. 1 से म.नं. 16 तक रतन/रतन से बालाराम / जगन्नाथ के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	2	---	म.नं. 12 से म.नं. 23 तक नबाब अली/मंशाह से संगीता / तुलसीराम के मकान	अनुसूचित जनजाति
	पंच	3	---	म.नं. 23/1 से म.नं. 35 तक जगदीश/शंकरदास से ज्योति / मुकेश के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	4	---	म.नं. 36 से म.नं. 50 तक झूमा/अमरसिंग से दिनेश / नैनसिंह के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	5	---	म.नं. 50/1 से म.नं. 66 तक जगदीश सिंह/दशरथ सिंह से भूपेन्द्र / बंशीलाल के	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	6	---	म.नं. 67 से म.नं. 84 तक नानी/जलाल से सुगना / शिवराम के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	7	---	म.नं. 84/1 से म.नं. 104 तक अमरदास/प्रहलाद से संजय / रमेश के मकान तक	अनुसूचित जाति
	पंच	8	---	म.नं. 105 से म.नं. 119 तक बलदेव/मिश्रीलाल से रामजीवन / किशनलाल के	अनारक्षित
	पंच	9	---	म.नं. 120 से म.नं. 146/2 तक गुलाब/रामभरोस से चिता / सीताराम के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	10	---	म.नं. 146/3 से म.नं. 762/6 तक भागीरथ/मंगलसिंह से रेखा/रामभरोस के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	11	खरदना	म.नं. 1 से म.नं. 24 तक प्रेम/शिवराम से धमेन्द्र / हेमराज के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	12	---	म.नं. 25 से म.नं. 45 तक कैलाश/सुन्दरलाल सेपवन / बलराम के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	13	---	म.नं. 45क से म.नं. 60 तक रितुबाई/मंशाराम से दिनेश / सोमचंद्र के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	14	---	म.नं. 61 से म.नं. 79 तक चम्पालाल/गाजीराम से ममता / मुकेश के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	15	---	म.नं. 81क से म.नं. 135 तक भूरेलाल/सुखदेव से लता बाई / राकेश के मकान तक	अनुसूचित जनजाति

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **पंचौला** खण्ड **इरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के,जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

68	सरपंच				अन्य पिछडा वर्ग
	पंच	1	पंचौला	म.नं. 1 से म.नं. 16 तक जयकिशन से बसकर/विनोद के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	2	---	म.नं. 17 से म.नं. 22 तक सुन्दरलाल से अनिल/रामदास के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	3	---	म.नं. 26 से म.नं. 39 तक धनश्याम से सारुबाई/अमर सिंह के मकान तक	अनुसूचित जाति
	पंच	4	---	म.नं. 40 से म.नं. 55 तक देवकीबाई से लोमस कुमार के मकान तक	अनुसूचित जाति
	पंच	5	---	म.नं. 56 से म.नं. 75 तक गीता बाई से विकास/जगदीश के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	6	---	म.नं. 76 से म.नं. 90 तक तुलसीराम से संजू बाई/चम्पालाल के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	7	---	म.नं. 91 से म.नं. 102 तक गंगाविशय से रतन/सोहनलाल के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	8	---	म.नं. 103 से म.नं. 113 तक किशनलाल से राजवंती/कमलसिंह के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	9	---	म.नं. 114 से म.नं. 145 तक शोरेलाल से दुर्गालाल/देवाराम के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	10	---	म.नं. 145/1 से म.नं. अन्त तक मन्जू बाई से इकबाल/नसरुद्दीन के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **बेसवाउबारी** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के,जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

69.	सरपंच				अनुसूचित जनजाति
	पंच	1	बेसवाउबारी	म.नं. 1 से म.नं. 12 तक जगदीश/बद्रीप्रसाद से सावित्री/चम्पा के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	2	---	म.नं. 13 से म.नं. 25क तक रामसिंग/फूलसिंग से सुनिता/रामनाथ के मकान तक	अनुसूचित जाति
	पंच	3	---	म.नं. 26 से म.नं. 32क तक रामेश्वर/घासीराम से वसकला/राजेश के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग
	पंच	4	---	म.नं. 33 से म.नं. अन्त तक नभू/भिका से रामविलाश/रामशंकर के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	5	चौकी	म.नं. 1 से म.नं. 15 तक चन्दा/बालाराम से बृज/कैलाश के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
	पंच	6	---	म.नं. 16/2 से म.नं. 29/1 तक लक्ष्मीनारायण /रामलाल से रेखा/पूनम के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	7	---	म.नं. 29/2 से म.नं. अन्त तक देवलाल/सुखराम से गैदालाल/घुडन के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	8	मालपोन	म.नं. 1 से म.नं. 16/2 तक मीरा/भागीरथ से निशा/नन्दकिशोर के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	9	---	म.नं. 18 से म.नं. 34क तक रामहेत/खुशहाल से सुआ/नर्मदाप्रसाद के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
	पंच	10	---	म.नं. 34ड से म.नं. अंत तक कन्हैयालाल/ख्यालीराम से रवीन्द्र/राधेश्याम के मकान	अनुसूचित जनजाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **बागरूल** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के,जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

70	सरपंच				अन्य पिछडा वर्ग महिला
	पंच	1	बागरूल	म.नं. 1/2 से म.नं. 22 तक यशवत / शिवदानसिंह से रेनुका/ रावत के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	2	---	म.नं. 23 से म.नं. 40 तक गजराज सिंह / उमराव से शोभाराम / उमराव के	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	3	---	म.नं. 41 से म.नं. 56 तक रामनिवास / देवा से अनिता / रामौतार के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	4	---	म.नं. 56/1 से म.नं. 67/2 तक इकबालखा/ रुबावखा से ज्योति / मुकेश के मकान	अनुसूचित जाति
	पंच	5	---	म.नं. 68 से म.नं. 79 तक रामकली / सालकराम से लक्ष्मण/ धनराज के मकान	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	6	---	म.नं. 79/1 से म.नं. 95 तक किरण / गोपालराव से जेवन्ती / बंदा के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	7	---	म.नं. 96 से म.नं. 114 तक भोतीराम / पांडू से शांता / लक्ष्मण के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	8	---	म.नं. 115 से म.नं. 131 तक मंगल / विठल से गीता / इमरत के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	9	---	म.नं. 132 से म.नं. 142 तक रामगोपाल / नल्यू से इकराम/ इशाक खा के मकान	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	10	कुसिया	म.नं. 1 से म.नं. 26 तक श्रीकिशन / श्रीरुलाल से दीयाबाई / रामनिवास के	अनारक्षित
	पंच	11	---	म.नं. 27 से म.नं. 40 तक भागीलाल / देवीराम से मंजू / सत्यानारायण के मकान	अनुसूचित जाति
	पंच	12	---	म.नं. 41 से म.नं. 56/1 तक रमेश/ प्रताप से सुनील/ रामप्रसाद के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	13	---	म.नं. 57 से म.नं. 324/1 तक नर्मदाप्रसाद/सीताराम से अनुसयाबाई के मकान तक	अनारक्षित

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **सुरजना** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के,जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

71	संरपंच				अन्य पिछडा वर्ग
	पंच	1	सुरजना	म.नं. 1 से म.नं. 15/2 तक लीला/रामाधर से भगतराम/मानसिंह के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	2	---	म.नं. 16 से म.नं. 26 तक काशीराम/कुजीलाल से संगीता/सुनील के मकान तक	अन्य पिछडा वर्ग महिला
	पंच	3	---	म.नं. 27 से म.नं. 37/4 तक अनोखीलाल/कुजीलाल से अनिल/रेवाराम के मकान	अन्य पिछडा वर्ग महिला
	पंच	4	---	म.नं. 38 से म.नं. 45 तक ओमप्रकाश/पन्नालाल से सविता/महेश के मकान तक	अनारक्षित महिला
	पंच	5	---	म.नं. 46 से म.नं. 60 तक धापू/पन्नालाल से छमा/शंकर के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	6	मनोहरपुरा	म.नं. 1 से म.नं. 7/2 तक शीता/पन्नालाल से अनिल/भागीरथ के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	7	---	म.नं. 8 से म.नं. 16 तक जगदीश रामचरण से ओमवती/संतोष के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	8	---	म.नं. 17 से म.नं. 23 तक किशनलाल/हीशलाल से गजानंद/टटू के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	9	अजनई	म.नं. 1 से म.नं. 15/2 तक बानू/रामप्रसाद से ज्योति/आनंद के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	10	---	म.नं. 16 से म.नं. 32 तक इन्दर/भीतीलाल से जमनादास/रामगोपाल के मकान	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	11	बमनई	म.नं. 2/1 से म.नं. 74 तक बालू/भूजराम से कमल/अनोखीलाल के मकान	अन्य पिछडा वर्ग

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत **झालवा** खण्ड **हरदा** के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के,जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है ।

72	संरपंच				अनुसूचित जाति महिला
	पंच	1	झालवा	म.नं. 1 से म.नं. 15 तक गैदालाल से सुनीता के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	2	---	म.नं. 16 से म.नं. 28 तक रामगोपाल से पपीता के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	3	---	म.नं. 29 से म.नं. 42 तक छुडया से बनवारी के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	4	---	म.नं. 44 से म.नं. 60 तक भागीरथ से रीना के मकान तक	अनुसूचित जाति महिला
	पंच	5	---	म.नं. 61 से म.नं. 71 तक कैलाश से बनवारी के मकान तक	अनारक्षित
	पंच	6	---	म.नं. 73 से म.नं. 86 तक धनुबाई से प्यारेलाल के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	7	---	म.नं. 87 से म.नं. 96 तक सीता से शीतलदास के मकान तक	अनुसूचित जाति
	पंच	8	---	म.नं. 96/1 से म.नं. 110 तक कला बाई से लीला बाई के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
	पंच	9	---	म.नं. 111 से म.नं. 126 तक अनवर से बसकर के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
	पंच	10	---	म.नं. 127 से म.नं. अन्त तक जंगली से शांताबाई के मकान तक	अनारक्षित महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क, के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत काकडदा खण्ड हरदा के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है.

सारणी

73	सरपंच			अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	1	काकडदा	म.नं. 1 से म.नं. 12 तक लक्ष्मण सिंह से सेवकराम के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	2		म.नं. 13 से म.नं. 27 तक गुलाब से मिश्रीलाल के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	3		म.नं. 28 से म.नं. 41 तक रामप्यारीबाई से रामदयाल के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	4		म.नं. 42 से म.नं. 57 तक जीवन से विजय के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	5		म.नं. 57ख से म.नं. 74 तक मालक सिंह से रविशंकर के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	6		म.नं. 76 से म.नं. 92 तक रामचरण से विनोद के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	7		म.नं. 92क से म.नं. अन्त तक मंगीबाई से मांगीलाल के मकान तक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	8	गैसवाडा	म.नं. 1 से म.नं. अन्त तक रामकरण से प्रमीला के मकान तक	अनारक्षित
पंच	9	भरतार	म.नं. 2 से म.नं. अन्त तक वन सिंह से सीला बाई के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच	10	जोगखुर्द	म.नं. 1 से म.नं. अन्त तक राधेश्याम से दुजा बाई के मकान तक	अनुसूचित जनजाति
पंच		महेन्द्रगांव	विस्थापित	
पंच				

रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर.

हरदा, दिनांक 13 नवम्बर 2014

क्र. 13040-2014.— मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29—क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत फुलडी खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग—महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच				अजजा
पंच	1	फुलडी	1 से 22 तक कमल घासीराम से उमराव जगन तक	अजजा
पंच	2		23 से 39 तक हृदयराम सालिकराम से नर्मदा सीताराम तक	अनारक्षित महिला
पंच	3		40 से 53 तक भागीरथ धन्नुलाल से रमेश जागेश्वर तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	4		54 से 75 तक कमला जागेश्वर से अमरदास सरवन तक	अ.पि.वर्ग
पंच	5		76 से 91 तक हृदयराम परसराम से हरनारायण बाबूलाल तक	अजा महिला
पंच	6		92/2 से 110 तक महंगीबाई रामलाल से राजाराम रामेश्वर तक	अजा महिला
पंच	7		110ख से 125 तक सुरेश चेताराम से नानकराम सीताराम तक	अनारक्षित
पंच	8		127 से 142 तक रामनारायण रामरतन से शंकर बद्रीप्रसाद	अनारक्षित महिला
पंच	9		144 से 160 तक जयनारायण रामप्रसाद से सुलोचना रामकृष्णा तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	10		161/1 से 169/1 तक द्वारकाप्रसाद कालूराम से महेश छोटेलाल तक	अनारक्षित
पंच	11		170 से 180 तक बालकिशन गिरधारी से रामदास रामरतन	अनारक्षित महिला
पंच	12		181 से 196/1 तक ललताबाई रामाधार से प्रेमनारायण हरकिशन तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	13		197 से 209 तक गोविन्द छोटेलाल से सुधीश बद्रीप्रसाद	अनारक्षित
पंच	14		210 से 227 तक जयप्रकाश बिहारीलाल से कन्हैयालाल नर्मदाप्रसाद	अनारक्षित महिला
पंच	15		228 से 244 तक रामाधार शोभाराम से डालूराम सुखराम	अ.पि.वर्ग
पंच	16	धनगाँव	1 से 13 तक लखनलाल रामकरण से नर्मदा जागेश्वर तक	अनारक्षित
पंच	17		14 से 27 तक लक्ष्मीनारायण गणेश से रामदीन केवलराम	अनारक्षित
पंच	18		28 से 43 तक श्रीराम बाबूलाल से हेमराज हजारीलाल तक	अजा
पंच	19		44 से 61 तक बंशीलाल सूरत से रामदीन रामप्रसाद तक	अजजा महिला
पंच	20		63 से 105 तक रामदीन किल्या से प्रेमलाल सखीराम तक	अजा

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कपासी खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुजनजाति/अनुजनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क0	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच				अनारक्षित महिला
पंच	1	कपासी	1 से 27 तक बलीराम भगवानदास से सजनबाई नवलसिंह तक	अजजा महिला
पंच	2		28 से 49 तक हरिराम शोभाराम से रामाधार सीताराम तक	अजजा
पंच	3		50 से 86 तक गेंदालाल रम्भू से मनोहर जागेश्वर तक	अनारक्षित
पंच	4	उसकल्ली	01 से 11 तक भारतसिंह कोमलराम से भागवतसिंह देवीसिंह तक	अनारक्षित
पंच	5		12 से 34 तक कालूराम नन्हू से भुरेलाल शंकर तक	अजजा
पंच	6		35 से 56 तक जोगीलाल शंकर से रामकिशन बिस्सू तक	अजजा महिला
पंच	7	बरुडघाट	01 से 13 तक गंगाविशन कन्हैया से रामप्रसाद विश्राम तक	अजजा
पंच	8		14 से 29 तक जानकी कन्हैया से बायो सददू तक	अनारक्षित महिला
पंच	9		30 से 43 तक जिबो दर्शन से रामकली रामकरण तक	अजजा महिला
पंच	10		44 से 58 तक हरिराम चुन्नी से भारत पन्नालाल तक	अजा महिला
पंच	11		59 से 220 तक गोविन्द पूनम से शम्भू केवलराम तक	अजजा महिला
पंच	12	जिनवानी	01 से 13 तक रामप्रसाद बाबू से मुन्ना जगन तक	अजजा महिला
पंच	13		14 से 27 तक बिंदिया ठेगू से गणेश करतार तक	अजजा
पंच	14		28 से 855 तक समोता लालसिंह से दुर्गाप्रसाद महेशनारायण तक	अजजा
पंच	15	जोगीखेडा	01 से 17 तक रतिराम बुद्धू से गुलाब कालू तक	अजजा
पंच	16		18 से 83 तक साहूलाल रामलाल से मुन्नी दलसिंह तक	अजजा महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत गुल्लास खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुजनजाति/अनुजनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क0	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच				अनारक्षित
पंच	1	गुल्लास	1 से 20 हरीराम नथू से रामचरण कालूराम	अजा महिला
पंच	2		21 से 39 केसर नथू से धांपू मोती	अनारक्षित महिला
पंच	3		40 से 54 रामभरोस किशनलाल से सुरेशचन्द्र नाथूराम	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	4		55 से 74 दयाबाई जागेश्वर से गणेश शिवप्रसाद	अ.पि.वर्ग
पंच	5		75 से 87 गोविन्द रामचंद से मांगीलाल जुझार	अनारक्षित
पंच	6		89 से 107 हेमराज दया से किशोरी फत्तू	अजा
पंच	7		108 से 121क गंगाराम फत्तू से रामेश्वर मोजी	अजा महिला
पंच	8		122 से 137 रामेश्वर हीरालाल से राधा राधेश्याम	अनारक्षित
पंच	9		138 से 157 शंकर लालूराम से रमेशचन्द्र बाबूलाल	अनारक्षित
पंच	10	जलोदा	1 से 19 शिवराम बख्शीराम से शिवप्रसाद रामभाउ	अजा महिला
पंच	11		20 से 29ख अरविद घूडमल से सुरेश रामदास	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	12		30 से 37 लक्ष्मीनारायण पन्नालाल से कचरया महाकाल	अजा
पंच	13		38 से 56 धनश्याम घूडया से सुकमा भागीरथ	अनारक्षित महिला
पंच	14		57 से 85क राधेश्याम रामसिंह से ओमप्रकाश जगराम	अ.पि.वर्ग

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बोरी खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति /अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य /सामान्य महिला
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच				अनारक्षित महिला
पंच	1	बोरी	1 से 14ग तक महेश/गेंदालाल से कमलसिंह मुंगा तक	अजजा महिला
पंच	2		15 से 22 तक नानू/लालमन से सीताराम रामाधार तक	अजजा
पंच	3		23 से 31 तक रामदीन/बाबू से लक्ष्मण पटेल तक	अजजा
पंच	4		32 से 41 तक नाथूराम भोया से ओझा मातिंग तक	अजजा
पंच	5		42 से 50क तक सोमा हीरा से रामदास रामलाल तक	अनारक्षित महिला
पंच	6		51 से 62 तक झबू पून्या से साबूलाल नाना तक	अनारक्षित
पंच	7		63 से 72 तक बालाराम कन्हई से भैयालाल ओंकार तक	अजजा महिला
पंच	8		73 से 86 तक विश्राम जिराती से रामप्रसाद लालसिंह तक	अजजा महिला
पंच	9		87 से 103 तक लालमन ओंकार से चिक्कू संबल तक	अजजा
पंच	10	ढेगा	01 से 11 तक डोडी/हरचंद से नानू भूता तक	अनारक्षित महिला
पंच	11		12 से 23 तक रामरतन मंशाराम से रामेश्वर मोहनलाल तक	अजजा महिला
पंच	12		24 से 31 तक परसराम मोहनलाल से रम्मू भूरा तक	अनारक्षित
पंच	13		32 से 41 तक धरमदास भूरा से सुकदेव चौबा तक	अजजा
पंच	14		42 से 49 तक महावीर पूनू से शोभाराम भूरिया तक	अजजा
पंच	15		50 से 61 तक बाबूलाल सुखराम से मूर्या मंशाराम तक	अजजा महिला
पंच	16		62 से 82 तक रामभाऊ रोहना से जियालाल लालवा तक	अजजा महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कचनार खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु.जनजाति /अनु.जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य /सामान्य महिला
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच	-		-	अनारक्षित
पंच	1	कचनार	1 से 10 सिकदार सूरजी से शिवलाल मिश्रीलाल	अनारक्षित
पंच	2		11 से 18 सुखराम गोचा से किशोरी डीमरा तक	अजजा
पंच	3		19 से 30 भीकाधानू से रामदास रिंजा तक	अजजा
पंच	4		31 से 44 सुखदेव गंगू से बुद्ध रामसिंह तक	अजजा महिला
पंच	5		45 से 57 शिवलाल से मानसिंह पंचम तक	अजजा महिला
पंच	6		58 से 68 सोनसिंह पंचम से नंदलाल अम्मर तक	अजजा
पंच	7		69 से 80 नानू दसरा से दलपसिंह मौजीलाल तक	अजजा
पंच	8		82 से 94 देवीसिंह जोरसा से रखिया संतू तक	अजजा महिला
पंच	9		95 से 104 महावीर विस्सू से बेलसिंह मौजी तक	अजजा
पंच	10		105 से 115 परसू गज्जन से मन्नु सम्मू तक	अजजा महिला
पंच	11		116 से 126 तक गोविन्दसिंह मन्नु से मन्नासिंह रामसू तक	अजजा महिला
पंच	12		127 से 135 अंत तक तुलसीराम गंगू से मंगू दुकलू तक	अजजा महिला
पंच	13	झिरन्या	1 से 13 मुन्नाशाह से जाजू बालू तक	अजजा
पंच	14		14 से 25 गेंदालाल तोगा से विश्राम कलीराम तक	अजजा महिला
पंच	15		26 से 32छ मौजी जिल्लू से गुन्डू बबू तक	अजजा महिला
पंच	16		32ज से 42 बाला मोग्या से भूरू नाना तक	अजजा
पंच	17		43 से 54ख हरी सीताराम से रामभरोस तुकाडी तक	अजजा
पंच	18		55 से 69 अंत तक किशोरी रामसू से चंद्रसिंह महकू तक	अजजा महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बडवानी खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु.जनजाति /अनु.जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य /सामान्य महिला
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच	—		—	अजजा महिला
पंच	1	बडवानी	1 से 13 तुलसीराम कन्हैया से सुखलाल चाचा तक	अजजा महिला
पंच	2		14 से 30 दयाराम नन्हेसिंह से भंगी नंदकिशोर तक	अजजा
पंच	3		31 से 47 श्रीराम शिवकरण से शिवप्रसाद किशन तक	अजजा महिला
पंच	4		48 से 62 भूरेलाल रोहना से प्रेमसिंह साहबलाल तक	अजजा महिला
पंच	5		63 से 77 मंजू पन्ना से बाबूलाल सोमा तक	अजजा
पंच	6		78 से 93 शिवप्रसाद राजमल से सुशीला रामचंद तक	अजजा
पंच	7	केलझिरी	02 से 13 कालई बाबू से प्रेमसिंह चतर तक	अजजा महिला
पंच	8		14 से 25 गुलाबसिंह भूरसा से लालसिंह नहलू तक	अजजा
पंच	9		26 से 37 नंदलाल शिवकरण से गजरी चंपा तक	अजजा महिला
पंच	10	खूमी	02 से 20 जोखीलाल नाना से श्यामलाल तुलसीराम तक	अनारक्षित

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत राजाबरारी खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति /अनु.जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य /सामान्य महिला
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच	—		—	अनारक्षित
पंच	1	राजाबरारी	1 से 12 नारायण बोंदर से संजय काजवे तक	अनारक्षित
पंच	2		13 से 26 रामकरण मोती से शंकर दमडू तक	अजजा
पंच	3		27 से 41 बाबूलाल मदन से पारो तक	अजजा
पंच	4		42 से 54 जयनारायण शंकरलाल से जुगलकिशोर तक	अनारक्षित महिला
पंच	5		55 से 67 गेंदालाल शिकदार से सुबेदार तक	अजजा
पंच	6		68 से 77 रामसू जगराम से फूलो जयसिंह तक	अजजा
पंच	7		78 से 88 साबूलाल भंगू से कपूरा बुद्धू तक	अजजा महिला
पंच	8		89 से 97 बीसोबाई कजरी से रामबकस गीदू तक	अजजा महिला
पंच	9		98 से 127 श्यामलाल भीलिया से मिथलेश शिवराम तक	अजजा
पंच	10	महागांव	01 से 15 नन्दू भाउ से लालमन बूचा तक	अजजा महिला
पंच	11		16 से 25 उमराव बिसराम से परसू भंगी तक	अजजा महिला
पंच	12		26 से 39 बलीराम कूला से म्यानसिंह आशाराम तक	अजजा महिला
पंच	13		40 से 57 मंशाराम रोहना से दिलीप कुमार तक	अजजा
पंच	14	सालईटका	1 से 4 ग रामकिशन छतरू से शकुनबाई रामभाउ तक	अजजा महिला
पंच	15		4 घ से 8 तक सावित्री शिवदीन से रामप्रसाद जोहरी तक	अजजा महिला
पंच	16		8/1 से 19 तक शांता पतीराम से सुशीला नारायण तक	अजजा
पंच	17	उंचाबरारी	1 से 14 फथू भांगी से कपूरा राजाराम तक	अजजा महिला
पंच	18		15 से 21 पटेल ओमकार से केवलराम विशनू तक	अजजा
पंच	19		22 से 33 शिव सेवाराम से जानकी छोटेराम तक	अजजा
पंच	20		34 से 47 बलीराम रामा से रामवती सुकराम तक	अजजा महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत नजरपुरा खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
सरपंच	—	—	—	अजजा महिला
पंच	1	नजरपुरा	1 से 16 तक हमीद लतीफ से लखन सुखदेव तक	अनारक्षित
पंच	2		17 से 29 तक अमरसिंह सुखदेव से अमरदास रामदास	अजा महिला
पंच	3		30 से 50 तक श्यामबाई नन्हा से अमराबाई गोविन्द	अजा
पंच	4		51 से 69 तक जुगल अनोखी से अमरदास हजारी तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	5		70 से 88 तक शिवनारायण कौदरमल से सुमत्राबाई मूलचंद तक	अनारक्षित
पंच	6		89 से 107 तक रामगोपाल कालूराम से कमला गेदालाल तक	अनारक्षित महिला
पंच	7		108 से 124 तक उर्मिला नरसिंह से सीताराम गंगाराम	अनारक्षित
पंच	8		125 से 140 तक त्रिवेणी प्रेमनारायण से जगदीशप्रसाद बिहारी तक	अनारक्षित महिला
पंच	9		141 से 154 तक चंपालाल रामलाल से बिसराम श्यामलाल तक	अनारक्षित
पंच	10		155 से 181 तक श्रीराम रामकरण से गोपीकृष्ण नाथूराम	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	11		182 से 206 तक रामशंकर रामकिशन से मांगीलाल जगन्नाथ तक	अनारक्षित महिला
पंच	12		207 से 225 तक शांताबाई खेमराज से जमनी विश्राम	अ.पि.वर्ग
पंच	13		226 से 242 तक सोमती कुरसिंह से राधेश्याम बाबूलाल तक	अजजा महिला
पंच	14		243 से 269 तक कमला बालाराम से वर्षा कमलसिंह	अजजा
पंच	15		270 से 297 तक बुधियाबाई बलीराम से किशोरी जोहरी तक	अजजा महिला
पंच	16		298 से 316 तक दामू सुकलो से सोन्या बाबाजी तक	अजजा
पंच	17		317 से 336 तक शहनाजबी नवाब से कमल गणेश तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	18		337 से 408 तक दशरथ गणेश से शोकत इब्राहिम	अजजा महिला
पंच	19	उमरधा	02 से 19 तक विनोद सुंदरलाल से बालू गंगाराम	अजजा
पंच	20		20 से 40 तक मन्नुलाल फालू से जरीनाबी नादिकशाह तक	अ.पि.वर्ग

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत रहटगांव खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
सरपंच	—	—	—	अनारक्षित
पंच	1	रहटगांव	1 से 61 तक पुष्पाबाई हरगोविन्द से नारायण रामाधार तक	अनारक्षित महिला
पंच	2		62 से 97 तक रमेश राधेलाल से राधेश्याम रामेश्वर तक	अनारक्षित
पंच	3		99 से 149 तक कलाबाई केशव से सुरेश घनश्याम तक	अजा महिला
पंच	4		149क से 192 तक जमनाबाई तोताराम से नूरमोहम्मद सुल्तान तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	5		192क से 243 तक बसीरनबी नबीबक्स से रजाकअली खैरातअली तक	अनारक्षित महिला
पंच	6		244 से 268 तक नर्मदा रामलाला से भगवानदास कवर तक	अजजा
पंच	7		268ग से 298क तक चैनसिंह नारायण से द्वारकाबाई रामगोपाल तक	अजा
पंच	8		299 से 332क तक रामखिलौन रामप्रसाद से केवलराम बाबूलाल तक	अ.पि.वर्ग
पंच	9		333 से 361 तक शरीफखा बाबूखा से रफीक मुंशी खा तक	अनारक्षित
पंच	10		361क से 391छ तक शहीदअली नूरअली से भरत बट्टलाल तक	अनारक्षित
पंच	11		392 से 425 तक चंपालाल लक्ष्मीनारायण से सुशिलाबाई विश्राम तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	12		425क से 461 तक पुरुषोत्तम शंकरलाल से नर्मदा भागीरथ तक	अनारक्षित
पंच	13		462 से 491 तक प्रहलाद दौलतराम से हीरालाल शिवकरण तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	14		492 से 526क तक शारदाबाई हरिशंकर से रामेश्वर कमल तक	अनारक्षित महिला
पंच	15		527 से 564 तक सावित्रीबाई धरमदास से नानूसाम रामनारायण तक	अ.पि.वर्ग
पंच	16		565 से 600 तक चंपालाल गोकुल से गोकुल सीताराम तक	अनारक्षित
पंच	17		600क से 637ख तक अतुल ग्यारसराम से अशोक गोविन्द तक	अजा महिला
पंच	18		640क से 673 तक मुंशीशाह से चंपालाल भागीरथ तक	अनारक्षित
पंच	19		675 से 615क तक रमेश बाबूलाल से संजय रामनाथ तक	अनारक्षित महिला
पंच	20		615ख से 942 तक लखन विष्णु से अंत तक	अजजा महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सिरकंबा खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जाति महिला / अनु. जनजाति / अनु. जनजाति महिला / अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला / सामान्य / सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच				अजजा महिला
पंच	1	सिरकम्बा	1 से 17 तक मांगीलाल से गयाबाई करणसिंह तक	अ.पि.वर्ग
पंच	2		18 से 34 तक भागीरथ जगन्नाथ से मनोहर सीताराम	अनारक्षित महिला
पंच	3		35 से 54 तक बट्टी कुंजीलाल से रामदीन मोना तक	अजा
पंच	4		55 से 68(ड.) तक राधेश्याम लालमन से सुमन सुरेश तक	अजजा महिला
पंच	5		69 से 81 तक रामबाई आत्माराम से अमरा निर्भयदास तक	अनारक्षित महिला
पंच	6		82 से 100 तक बट्टीप्रसाद / बंशीलाल से रामकृष्ण घनश्याम तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	7		101 से 120 तक चंद्रकांत मधुकरराव से राजकुमार कैलाश तक	अनारक्षित
पंच	8		122 से 141 तक रामचरण परसराम से छोटेलाल प्रेमनारायण तक	अजा महिला
पंच	9		142 से 164 तक नन्हा सुबेदार से गोविन्द जगन्नाथ तक	अजजा
पंच	10	खेडीखुशाल	164 से 180 तक विष्णुप्रसाद शिवनारायण से रामन्ती हरिदास तक / 01 से 4 तक गिरधरदास नंदकिशोर मुन्नारतन तक	अ.पि.वर्ग
पंच	11	बहरागाँव	01 से 25 तक रामचरण / चुन्नीलाल से रघुनाथ / जगन्नाथ तक	अनारक्षित
पंच	12		27 से 54 तक कांतीबाई / रामनारायण से सावित्रीबाई नाना तक	अजजा महिला
पंच	13		55 से 85 तक प्रहलाद सुखलाल से नर्मदाप्रसाद मगनलाल तक	अनारक्षित
पंच	14		86 से 111 तक संतोष लखनलाल से रघुनाथ कचरया तक	अजा महिला
पंच	15		114 से 134 तक बाबूलाल / कचरया से हुकुमचंद / रामलाल तक	अजा
पंच	16		135 से 158 तक भीकूबाई / देवकरण से भावलिया हौआ	अ.पि.वर्ग महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बघवाड खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जाति महिला / अनु. जनजाति / अनु. जनजाति महिला / अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला / सामान्य / सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	
सरपंच				अजजा महिला
पंच	1	बघवाड	1 से 18क अजबसिंह से रूपसिंह गेदालाल	अनारक्षित
पंच	2		19 से 29 क शांता सालकराम से जगदीश बलदेव	अ.पि.वर्ग
पंच	3		30 से 45 क बसकर कचरुसिंह से कमल बउआ	अजा
पंच	4		46 से 57क रामनारायण रामचरण से रामबक्स हरनाथ	अ.पि.वर्ग
पंच	5		58 से 67 रामदास कोण्ड से रामसिंह हजारी	अजा महिला
पंच	6		68 से 84 भुजराज ग्यारसा से राधेलाल ग्यारसा	अजा
पंच	7		85 से 99क हजारी रतन से चंपालाल पूनम	अनारक्षित
पंच	8		100 से 114क गेदालाल से मुकेश रामाधार	अनारक्षित महिला
पंच	9		115 से 131क कचरु राधेलाल से महेश श्यामलाल	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	10		132 से 148क रामस्वरूप मांगीलाल से महेश चंपालाल	अजा महिला
पंच	11		149 से 166क बट्टी सालकराम से शारदा लक्ष्मीनारायण	अजा
पंच	12		167 से 179स अजमेरी गुलमा से पहचाननाथ	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	13		180 से 193 बट्टीनाथ चंपानाथ से दुलारी अमरसिंह	अजा महिला
पंच	14		193क से 207क सेजराम अमरु से वाहिद गुसल तक	अजजा महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत लाखादेह खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु.जनजाति/अनु.जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच	-	-	-	अजा
पंच	1	लाखादेह	1 से 12 तक बट्टी/छन्नू से समोता भददु तक	अजजा
पंच	2		13 से 26 तक हरेसिंह/भूरू से चिमन/फुगना तक	अजजा
पंच	3		27 से 46 तक पतिराम/बिसना से चैनसिंह/दामा	अजजा
पंच	4		47 से 60 तक मांगीलाल/सालकराम से बंशी भूतू तक	अजजा
पंच	5	बापचा	1 से 10 तक सुनिता सूरजमल से बुराम सालिकराम तक	अजजा
पंच	6		13 से 26 तक दामू/सोमा से किशनलाल कालू तक	अनारक्षित
पंच	7		27 से 35 तक भूरी भाऊ से बाबू भाऊ तक	अजजा महिला
पंच	8		36 से 68 तक बिरजा भाऊ से मोतीलाल भूरया तक	अजजा महिला
पंच	9	चुरनी	01 से 10 तक शिवराम मोहनलाल से भैयालाल शोभाजी	अजजा महिला
पंच	10		11 से 21 तक परसू मंगल से राजाराम गोंजा तक	अजजा महिला
पंच	11		22 से 35 तक राधे/सुखराम से मोहनलाल/रोहना तक	अजजा महिला
पंच	12		36 से 43 तक प्यारी बाबू से फत्तू रायसी तक	अनारक्षित महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत छीपानेर खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु.जनजाति/अनु.जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच				अनारक्षित महिला
पंच	1	छीपानेर	1 से 12 तक भागवती रामाधार से भागवत छन्नू तक	अजा महिला
पंच	2		13 से 21 तक विमला मनोहर से मायाबाई बाबूलाल तक	अनारक्षित
पंच	3		22 से 35/2 तक सुरेशराव मंगेशराव से रमेशचंद बाबूलाल तक	अनारक्षित
पंच	4		36 से 52 तक बाबूलाल बामनराव से शिप्रा/सूरजसिंह तक	अनारक्षित
पंच	5		53 से 67 तक रामाधार गिरधारी से नन्हेलाल निर्भयदास तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	6		68 से 78 तक लीलाबाई हीरालाल से कृष्णाबाई शैतानसिंह तक	अनारक्षित
पंच	7		79 से 91 तक नर्मदा आशाराम से सागरबाई सुंदरलाल तक	अ.पि.वर्ग
पंच	8		92 से 106 तक रामकृंर छतरसिंह से खोता बाबूलाल तक	अजा
पंच	9		107 से 121 तक राजेश छोटेलाल से गजराज किशनलाल तक	अजजा महिला
पंच	10		122 से 138 तक मांगीलाल राजाराम से रेवा पृथ्वीसिंह तक	अजजा महिला
पंच	11		139 से 146/2 तक भारतसिंह घनश्याम से महेश शंकरलाल तक	अ.पि.वर्ग महिला

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क0	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
पंच	12		146/3 से 161 तक लक्ष्मण शंकरलाल से संतोष पून्या तक	अ.पि.वर्ग
पंच	13		162 से 174 तक मधुकरराव गोविन्दराव से अनसुईयाबाई हरनाथ तक	अनारक्षित महिला
पंच	14		175 से 188/4 तक जगन्नाथ बिहारीलाल से अशोक बालकिशन तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	15		188/5 से 199/2 तक बनवारी बाबूलाल से गजराज हीरालाल तक	अजा महिला
पंच	16		200 से 213 तक हरeram हीरालाल से लखन बंशी तक	अजजा
पंच	17		214 से 223 तक देवीदास गुलाबसिंह से रेवाराम निर्भयसिंह तक	अजजा
पंच	18		223 क से 231 तक रामचंद्र राधेश्याम से नर्मदाप्रसाद मांगीलाल तक	अनारक्षित महिला
पंच	19	चिचोट	233 से 233ड 1 से अंत तक उत्तम हरeram से अंत तक	अनारक्षित महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत तजपुरा खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क0	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच	-		-	अनारक्षित महिला
पंच	1	तजपुरा	1 से 15 तक गायत्रीबाई/शैतानसिंह से गंगाबाई/गजराज	अनारक्षित
पंच	2		16 से 28 तक कमलसिंह रामकरण से करणसिंह सीताराम तक	अनारक्षित महिला
पंच	3		29 से 43 तक मानाबाई लक्ष्मीनारायण से लक्ष्मीनारायण बाबूलाल तक	अनारक्षित
पंच	4		44 से 59 तक राधेश्याम/बाबूलाल से श्रीकिशन सुरजा तक	अजा महिला
पंच	5		60 से 74 तक सीताबाई भगवान से रामस्वरूप बदीप्रसाद तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	6		75 से 86 तक गुलाबबाई/जगन्नाथ से हेमराज जेताजी तक	अ.पि.वर्ग
पंच	7		87 से 98 तक हरकूबाई हरचंद से शिवदयाल दिनकरराव तक	अनारक्षित महिला
पंच	8		99 से 114 तक गजराज ताराचंद से रामदीन देवकरण तक	अनारक्षित
पंच	9		115 से 129 तक ओमप्रकाश राजाराम से घुडया गिरधारी तक	अ.पि.वर्ग
पंच	10		130 से 149 तक राधेश्याम मांगीलाल से भवानीसिंह मोतीसिंह तक	अजा महिला
पंच	11		150 से 161 तक महेन्द्र/मोतीसिंह से गोविन्दसिंह भागवतसिंह तक	अनारक्षित महिला
पंच	12		162 से 180 तक भूराणाथ/रामप्रसाद से नानूराम रामकरण तक	अजा
पंच	13		181 से 195 तक गौरीशंकर/रामचरण से कमलसिंह छोटेलाल तक	अनारक्षित
पंच	14		196 से 215 तक रामबाई/मोतीसिंह से सुरेश करणसिंह तक	अजजा महिला
पंच	15		216 से 228 तक किशोर सुखदेव से किशोर कुंजीलाल तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	16		229 से 236 तक हजारी रामकरण से पीरु इब्राहीम तक	अजा
पंच	17		237 से 262 तक रमेश ग्यारसा से भागीरथ धुडमल तक	अजा महिला
पंच	18		263 से 274 तक अन्नपूर्णा/शिवराम से मंगल गजराज तक	अनारक्षित
पंच	19		275 से 293 तक रामलाल/रामगोपाल से मुकेश अमरचंद तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	20	रन्हाई खुर्द मलगोवि कला	294 से अंत तक हासिम खान राजदल्ली से देवचंद रामनारायण तक	अनारक्षित

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत भवरास खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुजनजाति/अनुजनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला
	क0	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच	—		—	अनारक्षित महिला
पंच	1	भवरास	1 से 9 शिवनारायण रामकरण से सुखलाल श्रीकिशन तक	अनारक्षित महिला
पंच	2		10 से 23 बलराम श्रीकिशन से परसराम सीताराम तक	अ.पि.वर्ग
पंच	3		24 से 37क लीलाबाई रामदीन से रामबकस गोरेलाल तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	4		38 से 50 रामरूप मोतीराम से मुकेश बिहारी तक	अनारक्षित
पंच	5		51 से 72 गोरेलाल प्यारेलाल से रमेश शालकराम तक	अजा महिला
पंच	6		73 से 88 द्वारकाबाई श्यामलाल से रेवाराम हरकिशन तक	अनारक्षित
पंच	7		89 से 102क शैतानसिंह चैनसिंह से रामसिंह श्रीराम तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	8		103 से 112छ जोखीलाल रामचन्द्र से जगदीश घुडेलाल तक	अनारक्षित
पंच	9	बिल्लौद	1 से 18/5 रामभरोस कलीराम से हेमन्त भैयालाल तक	अजा महिला
पंच	10		19 से 35क समोता रामेश्वर से गोविन्द रामाधार तक	अजा
पंच	11		36 से 48छ रूखमणि जगननाथ से किशोरी चैतू तक	अजा
पंच	12		48च से 68 बलीराम प्यारेलाल से गेंदालाल मूलचंद तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	13		69 से 84 कृष्णाजी कालूराम से रामवती श्यामलाल तक	अजजा
पंच	14		85 से 99ग बृजलाल बाबूलाल से ईश्वर सिकदार तक	अजजा महिला
पंच	15	लाखाखेडी	1 से 15 रामेश्वर घुडया से बाजूलाल सोन्या तक	अनारक्षित
पंच	16		16 से 27 कुंजी रामचरण से बलराम शिवराम तक	अजा महिला
पंच	17		28 से 41 रामनाथ मांगीलाल से लखन श्रीराम तक	अ.पि.वर्ग
पंच	18		42 से 52 घुडया पन्ना के मकान से लक्ष्मी मिटवू तक	अनारक्षित महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत नयागांव खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुजनजाति/अनुजनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला
	क0	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	3	2	4	5
सरपंच	—	—	—	अनारक्षित महिला
पंच	1	नयागाँव	1 से 15/1 तक धनसिंह बालकराम से निर्भयसिंह सुमेरसिंह तक	अ.पि.व.
पंच	2		16/1 से 23ग तक शांताबाई प्यारेलाल से लोकेश शिवराज तक	अ.पि.व.
पंच	3		24 से 40 तक नर्मदाप्रसाद बरजोर से सहोदराबाई सुहागसिंह तक	अनारक्षित
पंच	4		41 से 57घ तक नर्मदा परसराम से रमेश प्यारेलाल तक	अनारक्षित
पंच	5		58 से 67 तक राजेश मोहनसिंह से नाथूराम रामा तक	अनारक्षित

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क0	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	3	2	4	5
संखेन	6		67क से 80 तक सेवाराम उमाजी से सुदामा शंकरलाल तक	अनारक्षित
पंच	7		81/1 से 93 तक लक्ष्मण प्यारेलाल से हेमन्त बाबूलाल तक	अजा
पंच	8		94 से 104 तक घिसियाबाई फूलचंद से भागवती जगन्नाथ तक	अनारक्षित महिला
पंच	9		107 से 118 तक बाबूलाल रामदीन से रूपसिंह हरनाम तक	अ.पि.व. महिला
पंच	10		119 से 136 तक महेश भीकाजी से अनोखीबाई नर्मदाप्रसाद	अ.पि.व. महिला
पंच	11		138 से 153 तक अनोखी सुमरन से जगन्नाथ गुलजार तक	अनारक्षित महिला
पंच	12		154 से 165 तक देवीसिंह गंदालाल से सोनाबाई गोकुलसिंह तक	अनारक्षित महिला
पंच	13		166/1 से 178 तक कमल सरदार से रामेश्वर दिलीप तक	अनारक्षित महिला
पंच	14		181 से 182 तक बालकराम गंगाराम से जगदीश प्यारेलाल तक	अनारक्षित
पंच	15		183 से 196 तक शारदा राधेश्याम से रामकिशन कन्हैया	अजा महिला
पंच	16		197 से 211 तक शंकरलाल जगराम से बृजबिहारी किशोरी	अजा महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत गाडामोडकला खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क0	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच	-			अजा
पंच	1	गाडामोडकला	1 से 11 जितेन्द्र भगवान से भागवती नंदलाल तक	अ.पि.वर्ग
पंच	2		12 से 27क गुलाबबाई रामकिशन से लखनलाल रामकरण तक	अजा महिला
पंच	3		28 से 39 सुगनाबाई रामगोपाल से मानसिंह रामगोपाल तक	अनारक्षित महिला
पंच	4		40 से 51 अनोखीलाल शेरसिंह से मरदम बाबूलाल तक	अनारक्षित महिला
पंच	5		52 से 62 श्रीराम मकुंदराम से सोनाबाई रूखडया तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	6		63/1 से 74/1 रामप्यारी रामलाल से गंदालाल जोखीलाल तक	अनारक्षित
पंच	7		74/2 से 85 नर्मदीबाई गोरेलाल से इमरत हरिराम तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	8		86 से 92/4 देवकरण मशाराम से अनूप मरदमसिंह तक	अनारक्षित महिला
पंच	9	धौलपुर	1 से 17 देवकरण नेपाल से गजराजसिंह जगन्नाथ तक	अनारक्षित महिला
पंच	10		18 से 25/3 श्यामलाल ताराचंद से हरिओम रामेश्वर तक	अनारक्षित
पंच	11		25/4 से 31 मंजूबाई बालकृष्ण से रूपसिंह बाबूलाल तक	अनारक्षित
पंच	12		32 से 47 उमाबाई लक्ष्मीनारायण से कमलाबाई रामलाल तक	अजा
पंच	13		48 से 65क तक श्यामलाल से रामदास अमरसिंह तक	अनारक्षित

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत करताना खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुजनजाति/अनुजनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क0	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच	-		-	अजजा
पंच	1	करताना	1 से 16/1 विनोद बाबूलाल से दिनेश परसराम तक	अ.पि.वर्ग
पंच	2		16/2 से 21क रामसिंह सोनू से राधाकिशन कुजीलाल तक	अजजा
पंच	3		21क/1 से 27 धनराजशंकर से फतेहसिंह रामसिंह तक	अनारक्षित महिला
पंच	4		27क से 42क मोहनलाल बाबूलाल से मांगीलाल उमराव तक	अनारक्षित महिला
पंच	5		43 से 58 रतनसिंह गुलाबसिंह से जगदीश बापूसिंह तक	अनारक्षित
पंच	6		60 से 78 लक्ष्मीनारायण करणसिंह से रेवाराम कन्हैया तक	अ.पि.वर्ग
पंच	7		79 से 93 बरजोरसिंह रामलाल से भगवतसिंह जगन्नाथ तक	अजा महिला
पंच	8		93क से 113 मदन रामेश्वर से लक्ष्मीनारायण फत्तू तक	अजा
पंच	9		114 से 132 जागेश्वर सुखलाल से शंकर कान्हा तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	10		133 से 147 मिसरबाई भागल्या से बंदी हजारी तक	अजा
पंच	11		148 से 160ग जानी हुसैन से गजराज रामलाल तक	अजा महिला
पंच	12		160घ से 184 पून्याबाई हल्लू से भागवत गब्बाजी तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	13		185 से 200 सोनाबाई भारतसिंह से कुंअरसिंह मोहनलाल तक	अजजा महिला
पंच	14		200क से 224 बृजबाई सिकदार से कचरूपसाद हरिराम तक	अनारक्षित महिला
पंच	15		224क से 239क लक्ष्मीबाई धर्मन्द्र से नरेन्द्र कैलाश तक	अनारक्षित
पंच	16		240 से 258 मूरतसिंह कुजीलाल से रामकृष्ण बरजोर तक	अनारक्षित
पंच	17		260 से 280क नूरमोहम्मद बलदार से युसुफशाह इदूशाह तक	अनारक्षित महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सन्नास्या खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क0	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच				अजजा
1	1	सन्नास्या	1 से 13 तक रामभरोस बोदर से गुलाबसिंह नर्मदा तक	अ.पि.वर्ग महिला
2	2		14/1 से 23/3 तक जशोदा हरनाथ से मांगीलाल स्वरूपसिंह तक	अ.पि.वर्ग
3	3		24 से 39 तक रूखमणि रामनारायण से कमल किशनलाल तक	अजा
4	4		40 से 50क तक लक्ष्मी हरिराम से जगन्नाथ रामनाथ तक	अजा महिला
5	5		51 से 59 तक संतोष शंकरलाल से सुशिला करणसिंह तक	अनारक्षित
6	6		60 से 78क तक जुगलकिशोर कमल से रामेश्वर रघुनाथ तक	अजा महिला
7	7		79 से 91 तक मांगीलाल रामकरण से कन्हैयागिर हीरागिर तक	अ.पि.वर्ग महिला
8	8		92 से 101/1 तक गंगुगिर हीरागिर से रामप्रसाद सिकदार तक	अनारक्षित
9	9		102 से 111 तक भारतसिंह घासीराम से हुकुमचंद जगन्नाथ तक	अनारक्षित
10	10		112 से 126 तक लक्ष्मीनारायण रघुनाथ से रमेश दिलीपसिंह तक	अनारक्षित महिला
11	11		129 से 139घ तक लक्ष्मीनारायण नल्लू से संजजनसिंह मंगल तक	अजजा महिला
12	12		139ड से 151 ख तक जगदीश मांगीलाल से भैयालाल सुखलाल तक	अजजा

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत रुन्दलाय खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु.जनजाति/अनु.जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच	-			अजजा
पंच	1	रुन्दलाय	1 से 17 रामशंकर नाथूराम से रानी राजाराम तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	2		18 से 41 बसकरबाई लखाराम से रुखमणी जयराम तक	अजा महिला
पंच	3		42 से 60 रंगलाल रामचंद से सरोज सुभाष तक	अजा
पंच	4		61 से 74 केशाराम सूरताजी से अर्जुन रेवाराम तक	अनारक्षित
पंच	5		75 से 88 रामोतार रामलाल से राहुल विनोद तक	अ.पि.वर्ग
पंच	6		88क से 105 पन्ना बोंदर से अक्षयसिंह तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	7		106 से 118 हेमकुंअर हरिसिंह से रमा रामदास तक	अनारक्षित महिला
पंच	8		119 से 134 जमनादास से संगीता कमल तक	अनारक्षित
पंच	9		134क से 145ड तक मोहन रामगोपाल से सुनिता मणी तक	अनारक्षित
पंच	10		145च से 159 जगदीश रामदीन से माया भीकालाल तक	अजजा महिला
पंच	11		160 से 185ख बंशीलाल साबूलाल से अनसुईया महेश तक	अजा महिला
पंच	12		185ग से 211 मुंशी सुखराम से गोपाल भाऊ तक	अजजा महिला
पंच	13		212 से 230 अमरसिंह सालिकराम से सुखराम खनजी तक	अजजा
पंच	14	खोडयाखे डी	01 से 15 मनोरमा सुनील से जयसिंह भारत तक	अ.पि.वर्ग

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत नौसर खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु.जनजाति/अनु.जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच				अनारक्षित महिला
पंच	1	नौसर	1 से 12 तक हरभजन बट्टू से ग्यारसीलाल शंकर तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	2		13 से 29 तक घासीराम धन्नालाल से नर्मदा बिहारी	अनारक्षित महिला
पंच	3		30 से 50 तक सोहागसिंह घुडया से जमनादास मेहताब तक	अजा
पंच	4		51 से 66 तक संतोष काल्या से जगदीश गुलाबसिंह	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	5		67 से 87 तक सुमन महताप से रामेश्वर बलराम तक	अजा महिला
पंच	6		88 से 105 तक राजमति गरीबदास से दिनेश केवलराम तक	अजा महिला
पंच	7		106 से 118/2 तक गायत्री रघुनाथ से गंगाचरण	अनारक्षित महिला
पंच	8		119 से 135 तक राजकुमारी जागेश्वर से मूलचंद मनोहर तक	अनारक्षित
पंच	9		136 से 155 तक रामरज अमरसिंह से गोविन्दराम बाबूलाल तक	अनारक्षित
पंच	10		156 से 169 तक रेवा बृजलाल से सीताराम नानू तक	अ.पि.वर्ग

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति /अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य /सामान्य महिला
	क0	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
पंच	11		170 से 184/1 तक गजराज कन्हैया से संजय शैतानसिंह तक	अनारक्षित महिला
पंच	12		185 से 196 तक रामरज गजराजसिंह से शंकरलाल	अ.पि.वर्ग
पंच	13		197 से 206 तक लीला रामदयाल से मोहनलाल टीकाराम तक	अजा महिला
पंच	14		207 से 219/1 तक सुंदर कमलसिंह से कृष्णा कोपीकिशन	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	15		220 से 236 तक महेश रामेश्वर से विनोद रामाधार	अनारक्षित
पंच	16		237 से 243 तक सीताबाई रामदीन से जानकी दयाराम तक	अनारक्षित
पंच	17		244 से 250/3 तक जयनारायण रामभरोस शंकरलाल भाऊलाल	अनारक्षित
पंच	18		251 से 258 तक गुलाबबाई रामचंद्र से हुकुम जालमसिंह तक	अनारक्षित
पंच	19		259 से 271 तक ख्यालीराम बुद्धू से सबदरशाह छीतर शाह तक	अजा
पंच	20		272 से अंत तक खेमा टीकाराम से गेंदालाल नत्थू	अजजा महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत गोदागांवकला खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति /अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य /सामान्य महिला
	क0	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच				अजजा महिला
पंच	1	गोदागांवकला	1 से 13 तक रतन गोकुल से नर्मदा पुन्नीलाल तक	अजा
पंच	2		14 से 30 तक हरिचरण बुद्धू से रामाधार प्रहलाद तक	अजा महिला
पंच	3		30क से 41क तक शैतानसिंह गुलाब से विजय कुंजीलाल तक	अनारक्षित
पंच	4		41ख से 57 तक भीकाजी ताराचंद से महताप बलराम तक	अनारक्षित
पंच	5		58 से 72 तक अजब बलराम से श्रवण पंडू तक	अजजा
पंच	6		73 से 83 तक गौरा रबू से बृजलाल द्वारका तक	अनारक्षित महिला
पंच	7		84 से 96 तक गायत्री केवलराम से मथुरा राजाराम तक	अनारक्षित
पंच	8		97 से 112 तक गेंदालाल ग्यारसीराम से दीपा जोखीलाल तक	अजजा महिला
पंच	9		113 से 128 तक कैलाश सूरतसिंह से रामकृष्ण सुखदेव	अनारक्षित महिला
पंच	10		129 से 137 तक किशोरीलाल रामाधार से विष्णु अमरसिंह तक	अनारक्षित
पंच	11		138क से 156 तक राधेलाल बाबू से राधेलाल फोजू तक	अजजा
पंच	12		157 से 169 तक किशोर कुंजीलाल से नन्हेलाल बालकिशन तक	अजजा महिला
पंच	13		170 से 181 तक श्यामू मोहनलाल से नारायण रबू तक	अनारक्षित
पंच	14		182 से 195 तक पांची भभूतिया से भगतराम जगन्नाथ तक	अनारक्षित महिला
पंच	15		198 से 211 तक रामदयाल बाबूराम से रामभरोस बिहारी तक	अजा महिला
पंच	16		211क से 211ण तक कल्लू घिसिया से लखनलाल चंपालाल तक	अजजा महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बाजनिया खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच				अनारक्षित महिला
पंच	1	बाजनिया	1 से 21 तक राहुल बंदीप्रसाद से गुलजार भाऊ तक	अनारक्षित
पंच	2		22 से 38 तक मांगीलाल रामप्रसाद से अमरसिंह प्रहलाद तक	अनारक्षित
पंच	3		39 से 49 तक गोरेलाल रामप्रसाद से मिसरबाई चंपालाल तक	अनारक्षित महिला
पंच	4		49 से 69 तक घुडयापुरी मन्नुपुरी से रामकृष्ण दौलत तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	5		70 से 93 तक कैलाश बाबूलाल से मथराबाई रामभरोस तक	अजजा महिला
पंच	6		93 से 112 तक नंदकिशोर रामभरोस से महतापसिंह जगराम तक	अजा महिला
पंच	7		113 से 132 तक रामसिंह जयराम से शिवराम श्रीपाल तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	8		133 से 154 तक दिनेश संतोष से गुलाम मोहम्मद इरलाम तक	अ.पि.वर्ग
पंच	9		155 से 175 तक धन्नालाल नर्मदाप्रसाद से सुमनबाई देवीसिंह तक	अनारक्षित
पंच	10		176 से 186 तक शिवराम रामप्रसाद से गेंदालाल नथू तक	अनारक्षित महिला
पंच	11		186 से 188 तक गंगाराम गणेश से गोपीकिशन हजारीलाल तक	अजजा
पंच	12		188 से 205 तक गेनकुंअर प्रहलाद से रामनिवास मूलचंद तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	13		206 से 230 तक सागरबाई फुलसिंह से प्रभुदयाल सीताराम तक	अनारक्षित
पंच	14		231 से 244 तक मोहनसिंह शेरसिंह से दिनेश जागेश्वर तक	अनारक्षित महिला
पंच	15		245 से अंत तक अजयसिंह गोकलसिंह से सुरेश चंपालाल तक	अजजा महिला
पंच	16	गाडरापुर	01 से 15 तक जगदीश धन्नालाल से धन्नालाल मोतीलाल तक	अनारक्षित
पंच	17		16 से 29 तक गेंदाबाई गोरेलाल से विमलाबाई रामसुबेर तक	अजा महिला
पंच	18		30 से 51 तक कृष्णाबाई रामाधार से रमेश लक्ष्मीनारायण तक	अजा महिला
पंच	19		52 से 67/1 तक कमला रामचंद से नानकराम तुलसीराम तक	अनारक्षित
पंच	20		68 से अंत तक धनकुंअरबाई कुंवरसिंह से राधेश्याम प्रेमनारायण तक	अ.पि.वर्ग

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत छिदगांवमेल खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	3	2	4	5
सरपंच				अजजा महिला
पंच	1	छिदगांवमेल	1 से 6 तक तुलाराम हाजी से जगदीश गजराज तक	अनारक्षित महिला
पंच	2		07 से 16 तक चट्टान भारत से दिलीप रघुनाथ	अनारक्षित
पंच	3		17 से 29 तक रामगोपाल सीताराम से हरिओम रामनारायण तक	अनारक्षित

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क0	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	3	2	4	5
पंच	4		30 से 39 तक मंगलसिंह गुलाब से लक्ष्मीनारायण महताप	अ.पि.वर्ग
पंच	5		40 से 51 तक देवीसिंह रामाधार से रामसिंह प्रहलाद	अजजा
पंच	6		52 से 68 तक बट्टीप्रसाद धीरसिंह से कौदर रामभरोस तक	अजजा महिला
पंच	7		69 से 82 तक अशोक वासुदेवराय से रामविलास हरेकृष्णा	अनारक्षित महिला
पंच	8		83 से 96 तक शंकरसिंह महताप गोपाल अमरसिंह	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	9		97 से 115 तक रमेश मांगीलाल से शान्तिलाल मोती	अजा महिला
पंच	10		116 से 128 तक गोविन्द कल्लू से राहुल वंशीलाल तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	11		129 से 147 तक दीनदयाल गेंदालाल अशोक बाबूलाल तक	अजा
पंच	12		148 से 160 तक जमना तुलसीराम से लखन मोहन	अजा
पंच	13		161 से 171 तक शोभाशरम पर्वत से राजू गणेश तक	अजा महिला
पंच	14		172 से 189 तक गोपाल श्यामलाल से मोहनसिंह बाबू तक	अजा महिला
पंच	15		190 से 201 तक कमल गिरधारी से माखन बाबूलाल	अनारक्षित
पंच	16		202 से 212 तक आजराबी नथू से रामस्वरूप कुंजी	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	17		213 से 229 तक हरि नथू से जयनारायण रामसिंह	अ.पि.वर्ग
पंच	18		230 से 244 तक शिवनारायण गणपत से अंबेलाल रामाधार	अनारक्षित
पंच	19		245 से 259 महताप घासीराम से रमेश बाबूलाल तक	अनारक्षित
पंच	20		260 से 278 तक तापोश कालीपदो से सीताचरण शारदाप्रसाद	अनारक्षित महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत पोखरनी खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क0	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच	—	—	—	अजजा
पंच	1	पोखरनी	1 से 22 तक उमेश/मांगीलाल से सुशीला श्रीराम तक	अ.पि.वर्ग
पंच	2		22क से 33 तक सालकराम रामचंद से बालकृष्ण रणछोड तक	अनारक्षित महिला
पंच	3		34 से 69 तक महेश नानाप्रसाद से प्रभुदयाल शिवदयाल तक	अजजा महिला
पंच	4		70 से 100 तक शारदाबाई बट्टीप्रसाद से जुगलकिशोर सुखलाल तक	अजा महिला
पंच	5		101 से 134 तक रामदास रामेश्वर से देवकरण ओमकार तक	अजा
पंच	6		135 से 162 तक कमलाबाई मनोहर से गीताबाई नर्मदाप्रसाद तक	अजजा
पंच	7		163 से 183 तक रामाधार चंदरसिंह से जगन्दर सजनसिंह तक	अनारक्षित
पंच	8		184 से 204 तक रामदास गुलाबदास से मांगीलाल सालकराम तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	9		205 से 221 तक कलीबाई शिवराम से शिवनारायण जोखीलाल तक	अनारक्षित
पंच	10		222 से 248 तक जयनारायण रामलाल से भागवती गोवर्धन तक	अ.पि.वर्ग

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुजनजाति/अनुजनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
पंच	11		249 से 278/7 तक रामलाल सीताराम से गिरधारी बुद्धू तक	अजा
पंच	12		278/8 से 285 तक शोभाराम शिवलाल से महेश देवकरण तक	अनारक्षित
पंच	13		286 से 304 तक बालकदास देवकरण से गेंदालाल रामगोपाल तक	अजा महिला
पंच	14		305 से 334 तक मांगीलाल रामेश्वर से सालकराम रामकिशन तक	अजजा महिला
पंच	15		334क से 361 तक करताल रामकिशन से कोयलबाई श्यामलाल तक	अनारक्षित
पंच	16		362 से 383 तक आत्माराम रणछोड से बालो पन्नालाल तक	अनारक्षित
पंच	17		384 से 403 तक गरीबदास कुंजीलाल से शिवराम रामनारायण तक	अनारक्षित महिला
पंच	18		404 से 430 तक कृष्णाबाई नर्मदाप्रसाद से शांतिबाई मनोहरलाल	अनारक्षित महिला
पंच	19		431 से 447 तक सीताबाई गेंदालाल से चंद्रमोहनदास तेजराम तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	20		448 से 473 तक लीलाबाई तेजराम से रामबिलास बिहारी तक	अ.पि.वर्ग महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत खिडकी खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुजनजाति/अनुजनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच	-		-	अनारक्षित
पंच	1	खिडकी	1 से 14क बरजोरसिंह शिवराम से रामकृष्ण केवलराम तक	अनारक्षित
पंच	2		15 से 27 गेंदालाल भोलू से रामनारायण शिवराम तक	अनारक्षित महिला
पंच	3		28 से 46 ओमप्रकाश लक्ष्मीनारायण से लक्ष्मीनारायण प्रतापसिंह तक	अनारक्षित महिला
पंच	4		47 से 64 तक धनसिंह नत्थूसिंह से इंदर रामेश्वर तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	5		66 से 86 तक अनोखीलाल शिवराम से मनोहरी भोलू तक	अनारक्षित
पंच	6		87 से 105 तक रामेश्वर रामसिंह से कमला मांगीलाल तक	अ.पि.वर्ग
पंच	7		106 से 128 गणेशदास आत्माराम से गौरीशंकर प्रेमा तक	अजा महिला
पंच	8		130क से 143 संतोष बाबूलाल से गंगाविशन मोतीराम तक	अजा
पंच	9		144 से 157क कमलसिंह नन्हु से अतरसिंह बाबूलाल तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	10		160 से 175क प्रहलाद छोर्गलाल से मोतीलाल मांगीलाल तक	अजजा महिला
पंच	11	बहाला	1 से 22 क तक मनोज गोकुलप्रसाद से समोता मांगीलाल तक	अनारक्षित

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मनियाखेडी खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला
	क0	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	3	2	4	5
सरपंच				अनारक्षित महिला
पंच	1	मनियाखेडी	1 से 12क तक रामदास बलराम से अरुणा बालकृष्ण तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	2		13 से 43 तक पाच्ची प्रेमनारायण से पुष्पा शंकरलाल तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	3		44 से 59 तक जयनारायण बलराम से विनोद रामकृष्ण तक	अजा महिला
पंच	4		59/1 से 85 तक सावित्री गजराज से हीरालाल मिटटूलाल	अजा
पंच	5		86 से 104 तक पंचम श्यामलाल से मोनिका पवन तक	अजा
पंच	6		105 से 116क तक रमेशचंद्र गोकुल से संगीता दशरथ तक	अजा
पंच	7		116ग से 126/1 अभय छगनलाल से मनीषा सुनील तक	अनारक्षित
पंच	8		127 से 139क तक बस्तीराम गुलाब से रमेश तेजराम तक	अनारक्षित महिला
पंच	9		140 से अंत तक रूपराम तुलसीराम से रेखाबाई पूनमचंद	अनारक्षित
पंच	10	बहशखेडी	04 से 20 तक भागवती प्रहलाद से सुभाष रमेश तक	अजा महिला
पंच	11		21 से अंत तक सागर ओंकार से बंशीलाल गोकुल तक एवं बलियाखेडी 1 से 28ग गुलाब छगनलाल से रेवादेवलाल तक	अजजा महिला
पंच	12	लहाडपुर	01 से 8ग तक प्रदीप लक्ष्मीनारायण से सुनिता इमरतलाल त	अ.पि.वर्ग
पंच	13		9 से 27 तक रामसिंह परसराम से रविशंकर नरेश तक	अजा महिला
पंच	14		28 से अंत तक सोदार राधेश्याम से श्रद्धा वीरेन्द्र तक एवं पीपल्यामाफी 1 से 27 तक लक्ष्मीकुंजीलाल से रत्नमाला संजय तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	15	भायली	01 से 12 तक शांताबाई बाबूलाल से आशीष श्रीधर तक	अनारक्षित
पंच	16		12क से 18ख तक नबीबाई बद्रीप्रसाद से उमेश महेश तक	अजजा
पंच	17		18ग से 26 तक पूनम प्रहलाद से सुभद्राबाई कमल तक	अ.पि.वर्ग
पंच	18		28 से 38ग तक पूनमचंद टीकाराम से दीपक लीलाधर तक	अनारक्षित महिला
पंच	19		38घ से अंत तक शैलेन्द्र केवलराम से सतीष रमेश तक	अजजा महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सामरधा खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु.जनजाति/अनु.जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला
	क0	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच	-			अजजा महिला
पंच	1	सामरधा	1 से 25 परसराम खुशयाल से प्रेम चंपालाल तक	अनारक्षित महिला
पंच	2		26 से 45 रामगोपाल मांगीलाल से अर्जुन मुरार तक	अनारक्षित
पंच	3		46 से 68 मथुरा हजारी से रमेश शिवकरण तक	अनारक्षित
पंच	4		69 से 91 गुलाब देवाजी से रामनारायण रामचरण तक	अनारक्षित महिला

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु.जनजाति/अनु.जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
पंच	5		92 से 112 चिरोंजी भागीरथ से राधाकिशन नाथूराम तक	अ.पि.वर्ग
पंच	6		113 से 132 हरगोविन्द शिवनारायण से मंशाराम बिहारी तक	अजा महिला
पंच	7		133 से 154 गीता बंदी से नर्मदा गोकुल तक	अजा
पंच	8		155 से 170/2 कोकिला जुगलकिशोर से शिवनारायण कुंजीलाल तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	9		171 से 202 सावित्री जोखीलाल से परसराम बालाराम तक	अजजा महिला
पंच	10	बारजा	1 से 17 सावित्री छगनलाल से आनंदसिंह रामलाल तक	अनारक्षित
पंच	11		18 से 35 अनारसिंह जागेश्वर से प्रहलाद मोहनलाल तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	12		37/1 से 56 शिवप्रसाद चंद्रसिंह से अजय आनंदसिंह तक	अनारक्षित महिला
पंच	13		58 से 80 नर्मदा रामदयाल से प्रहलाद उमराव तक	अजा महिला
पंच	14		82 से 100 तक अजबसिंह देवकरण से जगन्नाथ चंपालाल तक	अ.पि.वर्ग
पंच	15		101/2 से 111 हरिप्रसाद भगवान से भरतलाल रामनिवास तक	अनारक्षित

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सोडलपुर खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु.जनजाति/अनु.जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच	-	-	-	अजजा
पंच	1	सोडलपुर	1 से 35 सावित्रीबाई गेदालाल से गोकुल रामेश्वर	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	2		36 से 67 नर्मदा मांगीलाल से ओमप्रकाश रामप्रसाद	अनारक्षित
पंच	3		68 से 92 साऊ रामाधार से लक्ष्मी रामचरण	अनारक्षित महिला
पंच	4		93 से 144 केवलराम देवकरण से रामकृष्ण जोखीलाल	अनारक्षित
पंच	5		145 से 180 राजकुमार मनोहर से हीरालाल खेमचंद	अनारक्षित
पंच	6		181 से 233 बिहारी भीका से शोभाराम जंगलू	अजा महिला
पंच	7		234 से 268 महेन्द्र जीवनलाल से कुसुम शिवराम तक	अजा महिला
पंच	8		269 से 295 दिनेश रामलाल से रामजी तोताराम तक	अजा
पंच	9		296 से 322 गंगा दल्लूसिंग से बालाराम बंदी तक	अनारक्षित
पंच	10		323 से 362 रामू नत्थू से श्रीकिशन जमनादास तक	अनारक्षित
पंच	11		363 से 421 मदनलाल खज्जू से रेवाराम रामचरण तक	अ.पि.वर्ग
पंच	12		422 से 467 शंकरलाल पन्नालाल से दिनेश रामेश्वर	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	13		468 से 494 ओमप्रकाश बाबूलाल से अमरदास राधाकिशन तक	अनारक्षित महिला
पंच	14		495 से 514 मथराबाई गुलजारी से डालूराम गुलाबसिंह तक	अ.पि.वर्ग महिला

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु.जनजाति/अनु.जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क०	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
पंच	15		515 से 536 मनाबाई शिवनारायण से प्रेमनारायण रणछोड तक	अ.पि.वर्ग
पंच	16		537 से 575 भागवती. मिश्रीलाल से धापू पूनम	अनारक्षित महिला
पंच	17		576 से 607 सुक्कु हेमराज से दिनेश कान्ताप्रसाद	अजजा
पंच	18		608 से 657 रामभरोस छीतर से रामाधार रामभाउ	अजा
पंच	19		658 से अंत तक गोपीकिशन सीताराम से गुलाबसिंह गुबडा	अजजा महिला
पंच	20	गुरारखेडा	1 से अंत तक भगवानदास घासीराम से धनराज इमरतलाल तक	अजा महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत भादूगांव खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु.जनजाति/अनु.जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच				अजजा महिला
पंच	1	भादूगाँव	1 से 18 तक डालचंद बाबूलाल से हेमलता रामकृष्ण तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	2		22 से 32 तक रामकरण फत्तू से दिनेश मांगीलाल तक	अनारक्षित महिला
पंच	3		33 से 45/3 तक वेणी छोटेलाल से प्रताप भोया तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	4		46 से 55/4 तक धनीराम भावसिंह से नरेन्द्र श्रीकिशन तक	अ.पि.वर्ग
पंच	5		56 से 68/2 तक शिवशंकर जगराम से श्रवण राधेश्याम तक	अनारक्षित
पंच	6		68/3 से 85 तक प्रकाश राधेश्याम से सुमेर किशोरी तक	अजजा
पंच	7		85/1 से 107 तक अनोखी किशोरी से शिवकुमार पन्ना तक	अजजा महिला
पंच	8		108 से 125 तक कमलाबाई फागू से राकेश गोरीशंकर तक	अजजा महिला
पंच	9		126 से 137 तक जुगल शिवलाल से सत्यनारायण ताराचंद	अनारक्षित
पंच	10		139/1 से 148/3 तक प्रेमनारायण बालकृष्ण से दिलीप हरप्रसाद तक	अनारक्षित
पंच	11		149 से 167 तक शांताबाई मदन से केशव निर्भय तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	12		167क से 182 तक रमेश रामबिलास से शंकर कोमल तक	अजा महिला
पंच	13		183 से 197 तक शंकरलाल शिवकरण से छुट्टन किशोरी	अ.पि.वर्ग
पंच	14		198 से 207 तक मांगीलाल मंगल से ऊषा किशन तक	अजजा महिला
पंच	15		208 से 224/2 तक हक रतन कुंजी से इमरत कन्हैया तक	अनारक्षित
पंच	16		226 से 239 तक हुकुम लक्ष्मण से संत्यनारायण रामरतन तक	अनारक्षित महिला
पंच	17		240 से 254 तक शिवलाल रामरतन से शांताबाई नानू तक	अजा
पंच	18	अंधेरीखेडा	01 से 9ख तक फूलचंद विश्राम से बसंत शंकरलाल तक	अजजा
पंच	19		11 से 26 तक राजकुमार रिगा से महेश शिवप्रसाद तक	अजजा
पंच	20		27 से 35ख तक कुंजी छन्नू से नंदराम कन्हैया तक	अजजा महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत टेमागांव खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जाति महिला/ अनु.जनजाति / अनु.जनजाति महिला/ अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/ सामान्य / सामान्य महिला
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच	—		—	अजजा
पंच	1	टेमागांव	1 से 21 धनीबाई रामगोपाल से कला रामनाथ तक	अजजा महिला
पंच	2		23 से 40 दल्लू कल्लू से लखन प्यारेलाल तक	अजा महिला
पंच	3		41 से 52 सिकंदर सलकू से जागेश्वर बिसन तक	अजजा
पंच	4		53 से 72 किशोरी शंभूसे रामनाथ शिवप्रसाद तक	अजजा
पंच	5		73 से 90 छोटेला रम्भू से अशोक पूनम तक	अनारक्षित महिला
पंच	6		91 से 105 महेश रामाधार से शिवप्रसाद कुंजी तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	7		106 से 121 महेश कुंजी से सावित्री कमल तक	अनारक्षित महिला
पंच	8		122 से 134 गीता रामलाल से चंपालाल मुन्नालाल तक	अ.पि.वर्ग
पंच	9		135 से 150क बाबूलाल गंगाराम से रामलाल सालकराम तक	अजा
पंच	10		150ख से 160 साबूलाल ओझू से समोती सबलसिंह तक	अजजा महिला
पंच	11		161 से 172 कली बालाराम से मोरसिंह रामलाल तक	अनारक्षित महिला
पंच	12		174 से 185 लक्ष्मी रामप्रसाद से रामाधार रामनारायण तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	13		186 से 199 अजबसिंह गणपत से मनोहर चुन्नी तक	अनारक्षित
पंच	14		200 से 219 जगदीश जागेश्वर से रामकली बिहारी तक	अनारक्षित
पंच	15		221 से 241क तक रूखमणी शिवनारायण से दुबेसर कुंजरलाल तक	अ.पि.वर्ग

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत खमगांव खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जाति महिला/ अनु.जनजाति / अनु.जनजाति महिला/ अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/ सामान्य / सामान्य महिला
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच	—		—	अजा महिला
पंच	1	खमगांव	1 से 11क रामसिंह बृजलाल से जमना गंगाराम तक	अनारक्षित महिला
पंच	2		13 से 24 जगदीश गुलाबसिंह से सुशीला फुल्लू तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	3		25 से 45 नाजरा अजीज से शांता सुखदेव तक	अजजा
पंच	4		46 से 59 सीताराम रामकरण से धन्नी घुडया तक	अजा महिला
पंच	5		60 से 75 सदया छीतर से तारई कुंजीलाल तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	6		76 से 92 रामचरण लालचंद से रामदास प्रहलाद तक	अनारक्षित

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु.जनजाति/अनु.जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
पंच	7		93 से 103/1 भागवती आत्माराम से मुकेश रणछोड तक	अ.पि.वर्ग
पंच	8		104 से 122 कैलाश गरीबदास से श्रीकिशन शिवप्रसाद	अजजा महिला
पंच	9		123 से 144 नारायण शोभाराम से सुमरत शंभू तक	अजजा महिला
पंच	10	कनगांव	1 से 17 गंगाबाई चंदरसिंह से दौलत रामेश्वर तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	11		18 से 25क अमरसिंह दरयाव से विमला शिवनारायण तक	अनारक्षित
पंच	12		26 से 40 रानी अनिल से सलिता शिवप्रसाद तक	अजा महिला
पंच	13		41 से 136क अमराबाई गंगाराम से सुंदरलाल जागेश्वर	अजा
पंच	14	भीलगांव	220 से 232क पूनाबाई सुखदेव से अमरसिंह मांगीलाल	अ.पि.वर्ग
पंच	15	सिधखेडा	1 से 18 ओमप्रकाश गोकूल से चम्पालाल रामकरण तक	अनारक्षित महिला
पंच	16		19 से 33/2 द्वारकाबाई नाथूराम से चंपालाल बालाराम	अजा
पंच	17		33/3 से 42/3 रमेश बालाराम से कांतीप्रसाद प्रहलाद तक	अनारक्षित
पंच	18		43 से 55 सोमती शंकरलाल से शिवनारायण रणछोड तक	अनारक्षित महिला
पंच	19		56 से 72 रामकिशन जगन्नाथ से बाबूलाल सीताराम तक	अनारक्षित

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कासरनी खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु.जनजाति/अनु.जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच	-	-	-	अजा महिला
पंच	1	कासरनी	1 से 15 तक संतोष गजराज से वंदना रूपसिंह तक	अनारक्षित महिला
पंच	2		16 से 32क तक लीलाबाई हरिशंकर से अमराबाई रामकुमार तक	अनारक्षित
पंच	3		34 से 46 तक कमलसिंह बाबूलाल से संगीता मोहनलाल तक	अजजा महिला
पंच	4		47 से 64 तक शोभाराम बुद्ध से सुनिता मुकेश तक	अजजा महिला
पंच	5		65 से 81 तक भागवती नत्थू से भागवती अंतरसिंह तक	अजजा
पंच	6		82 से 98 तक गबू शिवकरण से शिवशंकर रमेश तक	अजजा
पंच	7		99 से 114 तक निर्भय गंगाविशन से दीपक रामशंकर तक	अनारक्षित
पंच	8		117 से 127 तक सोनाबाई उमराव से वंदना काशीमोहन तक	अनारक्षित
पंच	9		128 से 138 तक गयाप्रसाद शिवकरण से गंगाबाई हीरामन तक	अनारक्षित महिला
पंच	10	सिंगनपुर	1 से 7 तक नंदलाल घासीराम से योगेश राजकुमार तक	अजा महिला
पंच	11		8 से 18 तक रामौतार रतन से संतोष प्रहलाद तक	अजा महिला
पंच	12		19 से 30 तक अर्जुनसिंह श्यामलाल से हरिशंकर रामदास	अजा
पंच	13		31 से 42 तक प्रहलाद बिहारी से संगीता भागीरथ	अजजा
पंच	14		43 से 54 तक शांताबाई चंपालाल से तामसीबाई टोडरमल	अजजा महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत पानतलाई खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच				अजा महिला
पंच	1	पानतलाई	1 से 20 तक अमरदास/राधेश्याम से कृष्णाबाई मांगीलाल	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	2		21 से 37 तक शांताबाई चंपालाल से गोविन्द प्रभुनारायण	अजा महिला
पंच	3		38 से 57 तक कंअरबाई पन्नालाल से निर्भयदास मांगीलाल	अजा
पंच	4		58 से 73 तक नाथूराम रामकरण से लखनलाल चंपालाल	अजा महिला
पंच	5		74 से 88 तक रामभरोस रामदास से मनोहर बुद्धलाल तक	अजा
पंच	6		89 से 102 तक गंगाविशन घुडया से कन्हैया सालकराम तक	अ.पि.वर्ग
पंच	7		103 से 111 तक जमनाप्रसाद कुंजीलाल से मांगीलाल बिहारी तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	8		112 से 125 तक सोनाबाई बिहारीलाल से हुकूमचंद नारायण तक	अनारक्षित महिला
पंच	9		126 से 145 तक रविशंकर पन्नालाल से इमरती मोहनलाल तक	अनारक्षित
पंच	10		146 से 150 तक रंभा गोटपुरी से कृष्णाबाई बूजलाल तक	अनारक्षित महिला
पंच	11		151 से 169 तक जशोदा मांगीलाल से शिव छोटेलाल तक	अनारक्षित महिला
पंच	12		170 से 186 तक दुलारी रामदास से रमेश पन्नालाल तक	अनारक्षित
पंच	13		187 से 203 सत्यनारायण रमेश से मथराबाई मांगीलाल तक	अनारक्षित महिला
पंच	14		204 से 221 तक सोमवारगिर/सूरजगिर से रामकृष्ण शिवराम तक	अनारक्षित
पंच	15		222 से 239 तक रामकुमार बाबूलाल से रामसिंह जागेश्वर	अनारक्षित
पंच	16		240 से 279 तक मोहनलाल रामकिशन से जगदीश घासीराम तक	अ.पि.वर्ग

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत चन्द्रखाल खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु.जनजाति/अनु.जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच	-	-	-	अनारक्षित
पंच	1	चन्द्रखाल	1 से 10 छन्नू ओझी से सुकल्या सालकराम तक	अजजा महिला
पंच	2		11 से 18 बिसन भैयालाल से अमरावती दरोई	अजजा महिला
पंच	3		19 से 24 मगराय सेवल्या से गोरखी चुन्नी तक	अजजा
पंच	4		25 से 31 रमोता लालसिंह से सोमा विसराम तक	अजजा महिला
पंच	5		32 से 36 झुम्मर रामदयाल से बिसराम बूचा	अजजा महिला

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु.जनजाति/अनु.जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
पंच	6		37 से 45 प्रहलाद टीकाराम से नंदराम मंगल	अजजा
पंच	7		46 से 55 हरिराम मंगल से चेताराम गुटांग तक	अजजा
पंच	8		56 से 64 बलीराम जयराम से सुखराम नत्थू	अजजा
पंच	9		65 से 75 मयाराम भाउ भूता सोमा तक	अजजा
पंच	10		76 से 85 मंगलू मुंशी से रामेश्वर शिवलाल तक	अजजा
पंच	11	गौराखाल	1 से 7 ओमप्रकाश सत्यनारायण से लक्ष्मण चुन्नी तक	अजजा
पंच	12		8 से 20 सोमा भैयालाल से दददू भैयालाल तक	अजजा महिला
पंच	13		21 से 33 बालू भैयालाल से हरिदास रामप्रसाद	अजजा महिला
पंच	14		34 से 42 किशन श्यामलाल से बालाराम सुखदेव तक	अनारक्षित
पंच	15		43 से 55 बालाराम गोलू से बंशीलाल परसू तक	अनारक्षित महिला
पंच	16		56 से 64 शोभाराम परसू से पन्नालाल विश्राम	अजजा महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत रवांग खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			प्रवर्ग आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु.जनजाति/अनु.जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच	-	-	-	अनारक्षित महिला
पंच	1	रवांग	1 से 9/2 बाबू विसराम से नानू सानू तक	अजजा
पंच	2		9/2क से 18 जयराम मंगल से कलीराम मोतीराम तक	अजजा
पंच	3		19 से 24 शिवलाल बाटू से करण रमेश तक	अजजा
पंच	4		25 से 35 झुनई आशाराम से अर्जुन पतिराम तक	अजजा
पंच	5		36/1 से 46 रतिराम से लखन साबूलाल तक	अजजा महिला
पंच	6		47 से 54/1 रामभरोस भददू से सोमजी काटू तक	अजजा महिला
पंच	7		54/2 से 61क गोकूल हीरा से कैलाश सम्मल तक	अजजा महिला
पंच	8		62 से 69 बिलकी ओझू से मांगीलाल धर्मदास तक	अजजा महिला
पंच	9		70 से 79 रामदास मोतीराम से पारू जीवनदास तक	अनारक्षित
पंच	10		85ख से 97क जगदीश सालकराम से सीता कन्हैया तक	अनारक्षित महिला
पंच	11		97ख से 106 नंदलाल सुखलाल से कृष्ण सुखलाल तक	अनारक्षित महिला
पंच	12		106क से 110 राधेश्याम अमरलाल से गुरुप्रसाद गुलाब तक	अजजा
पंच	13		111 से 112 रेवाराम सुखराम से शांति लक्ष्मण तक	अजजा महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बरकला खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुजनजाति/अनुजनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच	—		—	अजजा महिला
पंच	1	बरकला	1 से 21 सुखराम पंचम से नानकराम मांगीलाल तक	अनारक्षित
पंच	2		22 से 36/1 पूरण परसराम से जगदीश भारत तक	अजा महिला
पंच	3		38 से 53 रमेश पन्नालाल से कन्हैया बाबूलाल तक	अनारक्षित महिला
पंच	4		54 से 73/1 जगदीश बद्रीप्रसाद से शारदा शिवराम तक	अनारक्षित महिला
पंच	5		78/1 से 91 रामबिलास रामेश्वर से सकुन्तला कचरिया तक	अजा
पंच	6		91/1 से 119 कृष्णकांत जागेश्वर से श्यामलाल आत्माराम तक	अजा महिला
पंच	7		120 से 140 अशोक बद्री से संतोष अनोखी तक	अ.पि.वर्ग
पंच	8		142 से 167 राजेन्द्र रणछोड से रामशंकर लक्ष्मीनारायण तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	9		170 से 186 रामदास देवकरण से केवलराम नंदू तक	अनारक्षित
पंच	10		187 से 198/1 तक फुल्लन कोमलराम से रमेश रामप्रसाद तक	अनारक्षित
पंच	11		199 से 216 तक गेंदालाल रामेश्वर से माधव कन्हैया तक	अ.पि.वर्ग महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत झाडबीडा खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुजनजाति/अनुजनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच	—		—	अनारक्षित
पंच	1	झाडबीडा	1 से 15 नन्हेलाल कमलसिंह से रामदास बाबूलाल तक	अनारक्षित
पंच	2		16 से 26 मांगीलाल श्यामलाल से सुलोचना शोभाराम तक	अजजा महिला
पंच	3		27 से 34 प्रेमबाई शिवपाल से जगन्नाथ रामलाल तक	अनारक्षित
पंच	4		35 से 47 तक कमला श्रीराम से अर्जुन रामेश्वर तक	अनारक्षित
पंच	5		48 से 59 तक रामस्वरूप नन्हु से राजू रामभाउ तक	अनारक्षित
पंच	6		60 से 73 तक लक्ष्मीनारायण मन्नु से रामगोविन्द रामदास तक	अनारक्षित महिला
पंच	7		74 से 86 श्रीराम भैरुसिंह से राजाराम रामकिशन तक	अजजा
पंच	8		87 से 100 लक्ष्मीनारायण नाथूराम से शोभाराम जगदीश तक	अनारक्षित महिला

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुजनजाति/अनुजनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
पंच	9		101 से 114 गुलाब मयाराम से शियाराम तुलसीराम	अजजा महिला
पंच	10		115 से 134 रामाधार रामकिशन से कमल नथू तक	अजजा
पंच	11		135 से 148 सुरेश जागेश्वर से हीरू रामबकस तक	अजजा
पंच	12		149 से 166 बकस कोमल से संतोष सुभाष तक	अजजा महिला
पंच	13		167 से 182 अनोखी पन्ना से अनिल द्वारका तक	अजजा महिला
पंच	14		183 से 208 चैतराम सुखलाल से जगराम फगनू तक	अनारक्षित
पंच	15	पाढरमाटी	1 से 13 सुन्दरबाई गंगाराम से रामू हरचंद तक	अजजा महिला
पंच	16		15 से 26 रामाधार नंदू से मनोहरी रामेश्वर तक	अजा महिला
पंच	17		27 से 44 ओमप्रकाश घासीराम से दिनेश अनोखी तक	अनारक्षित महिला
पंच	18		45 से 57 दगडू बिहारी से कैलाश संतू तक	अनारक्षित महिला
पंच	19		58 से 69 शोभाराम काल्या से चंपालाल तक	अजजा
पंच	20		70 से 82 सुमरती बालकराम से भददू मल्लू तक	अजजा

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत डोलरिया खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच				अजा महिला
पंच	1	डोलरिया	1 से 12 तक भागवतसिंह बुखारसिंह से कैलाश हीरालाल तक	अनारक्षित महिला
पंच	2		13 से 32 तक शिप्राबाई प्रहलाद से आशीष दिनेश तक	अजा
पंच	3		33 से 46 तक प्रताप धनसिंह से श्रवण सुखदेव तक	अनारक्षित
पंच	4		47 से 59 तक शांताबाई शिवकरण से मनोहर दयाराम तक	अनारक्षित
पंच	5		60 से 68 तक मांगीलाल भागीरथ से इमरत विष्णु तक	अनारक्षित महिला
पंच	6		70 से 84 तक नन्हीबाई चंपालाल से रघुनाथ भागीरथ तक	अजा महिला
पंच	7		85 से 101 तक गंगाविशन दयाराम से रामबकस कन्नु तक	अजजा
पंच	8		102 से 124 तक विष्णु गुंडा से राजेश भैयालाल तक	अजजा महिला
पंच	9		125 से 147 तक किशोरी गंगाराम से रामबिलास मिश्रीलाल तक	अजजा महिला
पंच	10	झिरीखेडा	01 से 15 तक शिवराम घुडया से संजय मन्नुलाल तक	अनारक्षित
पंच	11		16 से 35 तक रामदास रामेश्वर से गोपाल देवकरण तक	अनारक्षित महिला
पंच	12		36 से 54 तक घनश्याम शिवलाल से राजेश लखनलाल तक	अजजा

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसंरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत गाडामोडखुर्द खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क0	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच				अनारक्षित
1	1	गाडामोडखुर्द	1 से 11 तक पुन्नाबाई सिगदार से महेश राधेश्याम तक	अजजा
2	2		12 से 26 तक मनोहर लक्ष्मीनारायण से शिवनारायण रघुनाथ तक	अनारक्षित
3	3		27 से 38 तक जगदीश छतरसिंह से श्रीराम भागीरथ तक	अ.पि.वर्ग महिला
4	4		39 से 49 तक द्वारकाप्रसाद रामप्रसाद से अशोक नाथूराम तक	अ.पि.वर्ग महिला
5	5		50 से 68 तक रामसिंह देवकरण से शारदाप्रसाद सालकराम तक	अनारक्षित
6	6		69 से 132 तक अशोक ललित से बलवंत देवकरण तक	अनारक्षित महिला
7	7	काल्पी	01 से 13ख तक सुशीलाबाई शंकरलाल से राजेश सत्यनारायण तक	अजजा महिला
8	8		14 से 27 तक जागेश्वर रामकिशन से जगदीश रामदास तक	अ.पि.वर्ग
9	9		28 से 48 तक बट्टीप्रसाद चंपालाल से वीरेन्द्र श्रीकिशन तक	अनारक्षित
10	10	निम्यागाँव	01 से 13 तक इमरत रामनाथ से जगदीश कुंजीलाल तक	अनारक्षित महिला
11	11		14 से 29 तक रामनिवास जुगल से रामचरण गंगाविशन तक	अजजा
12	12		30 से 50 तक कांताप्रसाद मोहनसिंह से सुखदेव रामप्रसाद तक	अजजा महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसंरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत आलमपुर खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क0	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच				अनारक्षित
पंच	1	आलमपुर	1 से 16 तक सावित्री लखन से मनीराम बाबूलाल तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	2		17 से 33 तक कन्हैया सालिकराम से मांगीलाल राधेलाल तक	अ.पि.वर्ग
पंच	3		35 से 54 तक हरिप्रसाद बाबूलाल से चंपालाल रामलाल तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	4		55 से 68 तक मांगीलाल घासीराम से सुंदरलाल चुन्नीलाल तक	अनारक्षित महिला
पंच	5		69 से 78 तक सुंदरलाल लक्ष्मण से नारायण पतिराम तक	अनारक्षित

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति /अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य /सामान्य महिला
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
पंच	6		79 से 86 छ तक विष्णु पतिराम से पुरुषोत्तम नंदकिशोर तक	अनारक्षित
पंच	7		87 से 96 तक रामकृष्ण गेंदालाल से शांति बाबूलाल तक	अनारक्षित
पंच	8		97क से 115 तक ओमप्रकाश श्रीकिशन से उर्मिला राधाकिशन तक	अजजा
पंच	9		118 से 133क तक विष्णुदास रामचरणलाल से भैयालाल मूलचंद तक	अनारक्षित महिला
पंच	10		139 से 153 तक हरेराम कांताप्रसाद से लखन सैडया तक	अ.पि.वर्ग
पंच	11		154 से 174/1 तक जयनारायण दौलतराम से कन्हैयालाल रामप्रसाद तक	अजजा महिला
पंच	12		175 से 187क तक मनोज छुटकन से केशव चुन्नीलाल तक	अजा महिला
पंच	13		188 से 207 तक बाजूलाल रामप्रसाद से अजुदयाबाई आशाराम तक	अजा
पंच	14		208 से 224 तक हीरालाल मांगीलाल से अखिलेश छोटेलाल	अजा महिला
पंच	15		226 से 240क तक राधेश्याम कुजीलाल से संतोष जगदीश	अजजा महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत छीरपुरा खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु.जनजाति /अनु.जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य /सामान्य महिला
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच	-		-	अनारक्षित महिला
पंच	1	छीरपुरा	1 से 16 कमलाबाई बाबूलाल से कमला गेंदालाल तक	अनारक्षित महिला
पंच	2		17 से 35 नंदकिशोर रामतन से रामाधार कन्नी तक	अजजा
पंच	3		36 से 51 जीवन सुखराम से गणेश प्रहलाद तक	अजजा
पंच	4		52 से 70 भागवती रामकरण से मंगल जागेशवर तक	अजजा महिला
पंच	5		71 से 85 रामदास जुगलाल से विजय परसराम तक	अजजा
पंच	6		87 से 108 रामदास रामभाऊ से रामनारायण केवलराम तक	अजजा महिला
पंच	7		109 से 124 अंत मांगीलाल सालकराम से मनोहर किशोरी तक	अनारक्षित
पंच	8	खात्माखेडा	01 से 16 रामकरण बल्लू से गोपाल हीरा तक	अजजा
पंच	9		17 से 49 आशाराम हीरा से कालूराम मन्नू तक	अजजा महिला
पंच	10	डोग	1 से 31 मनीराम चुडडी से मुकेश मांगीलाल तक	अजजा महिला
पंच	11	जवारधा	1 से 14 कैलाश गोपीकिशन से सूरज धन्ना तक	अजजा महिला
पंच	12		15 से 26 शोभाराम चैतू से रामबिलास सोहनलाल तक	अजजा महिला
पंच	13		27 से 54 सूरज शंक से अमरसिंह शंकर तक	अजजा

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अहलवाडा खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुजनजाति/अनुजनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच	—	—	—	अजजा
पंच	1	अहलवाडा	1 से 15 रामप्रसाद किशन से चेतन शिवनारायण तक	अनारक्षित
पंच	2		16 से 31 रामनाथ जोखीलाल से रूपेश कैलाश तक	अ.पि.वर्ग
पंच	3		31क से 41क लक्ष्मी गेंदालाल से सुनिता सतीश तक	अनारक्षित
पंच	4		42 से 50क भगवानदास मोजीलाल से अनिल रामदास तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	5		51 से 62 शिवराम बिहारी से शकुन राजेश तक	अजा
पंच	6		62क से 83 रामनिवास भैयालाल से कृष्णा कैलाश	अजा महिला
पंच	7		84 से 107 रामविलास शालकराम से प्रिया कोमल	अजा महिला
पंच	8		108 से 129 तक रामरतन हजारी से अनिल पूनमचंद तक	अनारक्षित महिला
पंच	9		130 से 149 तक मोतीलाल गयाप्रसाद से विष्णु राजेश तक	अजजा महिला
पंच	10	खरतलाय	1 से 25 नरेन्द्र रामचन्द्र से चिंता रामलाल तक	अजा महिला
पंच	11		26 से 43 सुकिया रामदास से संतोषी गणेश तक	अजा
पंच	12		44 से 59 किशोरी रामप्रसाद से कीर्ति विनोद तक	अनारक्षित
पंच	13		60 से 77ख लक्ष्मीनारायण बिहारी से धर्मन्द्र काशीराम तक	अजजा
पंच	14	चौकडी	1 से 13 वृद्धावन नानकराम से सरोज नरेन्द्र तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	15		14 से 31 गेंदालाल रामदास से शशीकांत केवलराम तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	16		31ग से 49 उषा लवकुश से अनसुईया हरिओम तक	अ.पि.वर्ग
पंच	17		50 से 64 गंगाराम नंदकिशोर से कृष्णाबाई गयाप्रसाद	अनारक्षित
पंच	18		65 से 105 सुरेश रामगोपाल से रानी मनीष तक	अजजा महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत केली खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुजनजाति/अनुजनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच	—	—	—	अनारक्षित
पंच	1	केली	1 से 13 तक रामकरण पूनू से ललिता सुखदेव तक	अजजा
पंच	2		14 से 22 तक कलीराम बाटू से सुखराम सुखलाल तक	अजजा महिला
पंच	3		23 से 35 तक जागेश्वर मंगल से गुल्लो विष्णु तक	अजजा

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क0	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
पंच	4		36 से 47 तक रम्मा सुंदरलाल से सुंदर शोभाराम तक	अजजा महिला
पंच	5		48 से 61 तक आत्माराम चंपालाल से नाथूराम अमरदास तक	अनारक्षित
पंच	6		63/1 से 73 तक गोदा झबू से सुमरत बुद्धू तक	अनारक्षित
पंच	7		74 से 83 तक टीकाराम पून्या से नारायण फत्तू तक	अनारक्षित
पंच	8		84 से 95 तक जुगराम भूरा से इंदर कली तक	अनारक्षित महिला
पंच	9		96 से 109 तक बाबू कली से तुलसीराम सालकराम तक	अनारक्षित महिला
पंच	10	डेहरिया	1 से 9 तक पंचम सुखराम से मुन्ना राजू तक	अजजा महिला
पंच	11		10 से 20 तक आशाराम/सुखराम से शिकारी/नानू तक	अजजा
पंच	12		21 से 34 तक गुटांगसिंह नानू से बाला मन्नु तक	अजजा महिला
पंच	13		35 से 46 तक कोदू मल्लू से कडमा भूरेलाल तक	अजजा महिला
पंच	14		47 से 60 तक नंदराम/मानू से बालाराम/जालू तक	अजजा महिला
पंच	15		61 से 74 तक बिराम भूरेलाल से पापलीबाई रिंगा तक	अजजा
पंच	16		75 से 88 तक जीकूबाई चैतू से फूलचंद भूरा तक	अजजा

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बडझिरी खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु.जनजाति/अनु.जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क0	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच	-	-	-	अनारक्षित महिला
पंच	1	बडझिरी	1 से 11/2 तक सुंदर रामकिशन से हिराय सोमा तक	अजजा महिला
पंच	2		12 से 20 तक सुभिता सोनू से सीता रामप्रसाद तक	अजजा
पंच	3		20क से 31 तक मुन्ना मंगल से सुबेदार बुद्धू तक	अजजा महिला
पंच	4		32 से 43 तक समाय कलीराम से रामलाल कलीराम तक	अजजा महिला
पंच	5		44 से 52 तक शोभाराम मोहनलाल से सीताराम भूरा तक	अजजा
पंच	6		52/2 से 56ग तक बालकराम मनीराम से आशाराम शिवलाल तक	अजजा
पंच	7		57 से 67 तक श्यामलाल सुखराम से जासो हजरू तक	अजजा महिला
पंच	8		69 से 77 तक रतिराम सुखराम से चंपालाल चिंटा तक	अजजा
पंच	9		77/1 से 87क तक राधाबाई रामसिंह से बहादुर रतन तक	अजजा
पंच	10		88 से 96 तक सुखराम मोहन से रामलाल सीताराम तक	अजजा

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु.जनजाति /अनु.जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य /सामान्य महिला
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
पंच	11		96क से 187 तक रामकिशन रामजी से सुबेदार बाबू तक	अजजा महिला
पंच	12	सिंगोडा	1 से 13 तक मिश्रीलाल मन्नी से रूपाय मन्नु तक	अजजा महिला
पंच	13		14 से 33 तक शंकर आँकार से रामकिशन मंगल तक	अजजा
पंच	14		34 से 95 तक गुलाब मुग्या से सुबेदार रामकिशन तक	अजजा महिला

ग्राम पंचायत खण्ड में स्थानों के आरक्षण की स्थिति के संबंध में सूचना

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बिच्छापुर खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु.जनजाति /अनु.जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य /सामान्य महिला
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	3	2	4	5
सरपंच	-		-	अनारक्षित महिला
पंच	1	बिच्छापुर	1 से 10 हरीराम रामेश्वर से गुलाबसिंह बाबूलाल	अनारक्षित महिला
पंच	2		11 से 23 अनोखी श्यामलाल से सुखदेव बालाराम	अजा महिला
पंच	3		24 से 33 रामबाई रामचरण से शांता हरि तक	अजा महिला
पंच	4		34 से 49 जगदीश बोदा से रामेश्वर रामकिशन तक	अजजा महिला
पंच	5		50 से 66 रघुनाथ बिहारी से लाडकीबाई गुलदार तक	अनारक्षित
पंच	6		67 से 84 छतरसिंह मोतीराम से मांगीबाई ओमकार तक	अनारक्षित
पंच	7		85 से 102 बाबूलाल तुलसीराम से भुरेलाल पन्नालाल तक	अनारक्षित महिला
पंच	8		103 से 114ख अब्दुलशाह रहीमशाह से केवलराम मुन्ना तक	अ.पि.वर्ग
पंच	9		115 से 126क रमेश देवीसिंह से रज्जाक घुडनशाह तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	10		127 से 141 शेरजबी जब्बारशाह से बाबूलाल रामबकस तक	अनारक्षित महिला
पंच	11		141क से 151 धन्नालाल रामबकस से भुरिया पूनमचंद तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	12		152 से 164 राधेश्याम किशनलाल से अमरसिंह लक्ष्मण तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	13		165 से 180क तक कला बृजलाल से अमरसिंह कुंजीलाल तक	अनारक्षित महिला
पंच	14		181 से 191 तक हेमराज धन्नालाल से भागीरथ मोजी	अनारक्षित
पंच	15		192 से 201 शिवनारायण पन्नालाल से रंगलाल कालूराम	अनारक्षित
पंच	16		202 से 213 तक मोहनलाल प्रेमसिंह से शफी शब्बीरशाह	अ.पि.वर्ग
पंच	17		214 से 225 तक मुबारिक शब्बीर से खैराती महमूद शाह	अनारक्षित
पंच	18		225क से 241ग शाकिर चंदूशाह से वंदना हरिराम तक	अनारक्षित
पंच	19		242 से अंत (09) तक जगदीश श्यामलाल से खडगसिंह गौसर तक	अजा

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत दूधकच्छ खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु.जनजाति/अनु.जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच	—		—	अजजा
पंच	1	दूधकच्छ	1 से 17 तक बाबूलाल सूरजा से लक्ष्मणसिंह तक	अजा महिला
पंच	2		18 से 34 तक राजेन्द्र जालम से सोहागसिंह रामरूप तक	अनारक्षित महिला
पंच	3		35 से 45 तक बद्रीप्रसाद दरियाव से उमेश नर्मदाप्रसाद तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	4		46 से 59 तक रूखमणी मांगीलाल से विजय भगवान तक	अजजा महिला
पंच	5		60 से 71 तक हरेशिवकरण से विजय रामाधार तक	अ.पि.वर्ग
पंच	6		72 से 84 तक सीताराम गेंडालाल से मनोहर मोतीराम तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	7		85 से 95 तक दुर्गाप्रसाद मोतीराम से लक्ष्मीनारायण तक	अनारक्षित
पंच	8		96 से 111 तक प्रकाश केदारनाथ से जमुनाबाई तक	अनारक्षित महिला
पंच	9		113 से 129 तक लछीराम मोहन से सुनील गौरीशंकर तक	अनारक्षित
पंच	10		130 से 139 तक प्रताप रामकिशन से बसु देवकरण तक	अजा
पंच	11		140 से 149 तक गिरिजा हुकुमचंद से प्रहलाद रामेश्वर तक	अजा महिला
पंच	12		150 से 169 तक माखन देवकरण से रमेश जलाल तक	अजा
पंच	13		172 से 193 तक रामबाई राजाराम से इंदू रामसुख तक	अजजा
पंच	14		194क से 284ग तक देवकी हीरालाल से सुशीला सवलसिंह तक	अजजा महिला
पंच	15		284घ से 386ख तक विष्णु रामप्रसाद से बल्लू सालकू तक	अ.पि.वर्ग

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत छिदगांवतमोली खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु.जनजाति/अनु.जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच				अजजा महिला
पंच	1	छिदगांव तमोली	1 से 15 तक शैतानसिंह हरिराम से दुलारी रामप्रसाद तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	2		16 से 31 तक रामबाई शिवराम से बद्रीप्रसाद शिवकरण	अजा महिला
पंच	3		32 से 50 तक दीपचंद हरिराम से रूखमणि पूनम तक	अजा
पंच	4		51 से 69 तक गंगादीन शिवकरण से बाबूलाल श्यामलाल	अजजा

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
पंच	5		70 से 89 तक गरीबदास मोती से गेंदालाल रतन तक	अनारक्षित महिला
पंच	6		90 से 100 तक सबलसिंह बहादर से शंकरलाल गुलजार	अजा
पंच	7		101 से 116 तक हजारीलाल बाघया से सूरजसिंह रामप्रसाद तक	अजा महिला
पंच	8		117 से 132 तक हरिराम धुलीराम से रामप्रसाद छीतर	अनारक्षित
पंच	9		133 से 145 तक सरस्वती रामलाल से रतन जंगू तक	अ.पि.वर्ग
पंच	10		146 से 164 तक बुखारसिंह सखाराम से बुद्धराम मोती	अनारक्षित
पंच	11		165 से 181 तक आनंदी नाथूराम से फूलसिंह परसराम	अनारक्षित महिला
पंच	12		182 से 199 तक शांता नर्मदाप्रसाद से कृष्णदेव धन्नालाल	अ.पि.वर्ग
पंच	13		200 से 214 तक शांता मांगीलाल से रमेश रामलाल तक	अजजा महिला
पंच	14		215 से 267 तक प्रदीप हरचंद से महेन्द्र किशोरसिंह	अ.पि.वर्ग महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसंरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत मालेगांव खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु.जनजाति/अनु.जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच	-		-	अनारक्षित
पंच	1	मालेगाँव	1 से 13 तक भैयालाल/भोलू से राधेलाल सूरत तक	अजजा
पंच	2		14 से 27 तक रन्नो मुंशी से चंदू गोटी तक	अजजा
पंच	3		28 से 39 तक शिवप्रसाद से बालकराम भूता तक	अजजा
पंच	4		40 से 56/1 तक कालूराम मौजी से श्यामलाल किशना तक	अजजा
पंच	5		57 से 65 तक सोनू मुडडी से काडमू भोदे तक	अजजा महिला
पंच	6		66 से 78 तक मनकी दस्सू से भैयालाल मंगू तक	अजजा
पंच	7		79 से 95 तक मोलाबाई से राजाराम विसराम तक	अजजा
पंच	8		96 से 109/1 तक बकस मंशा से कोवा ओझासिंह तक	अजजा महिला
पंच	9		110 से 116 तक शंकर सुका से काडमी मंगलसा तक	अजजा महिला
पंच	10		117 से 130 तक शिवदीन धुन्धु से नंदरामा झलकिया तक	अजजा महिला
पंच	11		131 से 142 तक राधीबाई मन्नासिंह से धनीराम ओझासिंह तक	अजजा महिला
पंच	12		143 से 183 तक धनीराम भादू से शांतिबाई साबूलाल तक	अजजा महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत रातामाटी खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क0	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	3	2	4	5
सरपंच				अनारक्षित महिला
पंच	1	रातामाटी	1 से 18 तक विश्राम रंगू से सोनाय रामा तक	अजजा महिला
पंच	2		19 से 30 तक बालाजी तुमला से छोटे सुखराम तक	अजजा महिला
पंच	3		31 से 44 तक गंगा बेहरा से कपूरा रिगा तक	अजजा
पंच	4		45ख से 60क तक काली गोंगो से अभयसिंह तक	अजजा महिला
पंच	5	बिटिया	01 से 11 तक शोभाजी सुखलाल से रामाजी भूता तक	अजजा
पंच	6		12 से 22 तक नाथूराम सेवल्या से बसंती आशाराम तक	अजजा
पंच	7		23 से 39 तक रामलाल झांगरू से हरिराम छोटेलाल तक	अजजा
पंच	8	जूनापानी	01 से 27 तक कल्लू पतिराम से सुदिया सखाराम तक	अजजा महिला
पंच	9		27/1 से 35 तक बाजूलाल श्यामलाल से नापूबाई सरजन तक	अजजा महिला
पंच	10		36 से 149/1 तक समती मंगू से रामबाई शिवराम तक	अनारक्षित

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत गोदागांवखुर्द खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क0	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच				अजा
पंच	1	गोदागांवखुर्द	1 से 16ख तक गोविन्ददास से तुलसी हउआ तक	अ.पि.वर्ग
पंच	2		17 से 34 तक सीताराम कल्लू से सुशीला मैकूलाल तक	अनारक्षित
पंच	3		35 से 53 तक जगदीश कन्हैया से संपतबाई रामाधार तक	अनारक्षित महिला
पंच	4		54 से 67 क तक रमेश बाबूलाल से दिनेश रंजीलाल तक	अजा महिला
पंच	5		68 से 80 ख तक मंगल हरिराम से भागीरथ मोती तक	अजा
पंच	6		81 से 93/2क तक कन्हैया ब्रजलाल से खुशीलाल बाबूलाल तक	अजा महिला
पंच	7		94 से 106 तक काशीबाई चिन्या से राधेश्याम बाबूलाल तक	अनारक्षित महिला

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
पंच	8		107 से 124 तक मनोहर गुलाबसिंह से चैनसिंह नाथूराम तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	9		125/1 से 136 तक कृष्णाबाई अमरसिंह से शारदाबाई नर्मदाप्रसाद तक	अ.पि.वर्ग
पंच	10		137 से 148 तक कलाबाई हीरालाल से बद्रीप्रसाद रामनारायण तक	अनारक्षित महिला
पंच	11		149 से 160 तक गुलाब रामकरण से गेंदालाल रतन तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	12		161 से 171 तक केदार शिवनारायण से समोता पन्नालाल तक	अनारक्षित
पंच	13	बिरजाखेडी	1 से 11 तक चैनसिंह लालसिंह से पुनिया मुरिया तक	अनारक्षित
पंच	14		12 से 29 तक बाबू जग्गू से शिवशंकर भारती तक	अनारक्षित

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सोहागपुर खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच				अजजा महिला
पंच	1	सोहागपुर	1 से 19 तक केशर रामदास से सुनिता इमरत तक	अनारक्षित
पंच	2		20 से 32 तक सुखदेव रामदास से अशोक रामदास तक	अनारक्षित महिला
पंच	3		33 से 41 तक रामदास कुंजीलाल से सुनिता गोकुल तक	अनारक्षित
पंच	4		42 से 60 तक कमला रामाधार से कांतीबाई रामदीन तक	अ.पि.वर्ग
पंच	5		61 से 87 तक कमलकिशोर गोविन्द से भाग्यश्री सुभाष तक	अजा महिला
पंच	6		88 से 100 तक सती गेंदालाल से रानू सुनिल तक	अनारक्षित महिला
पंच	7		101 से 114 तक रूखमणि मनोहर से आनंद जयनारायण तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	8		115 से 127 तक धापूबाई रामनारायण से गीता संतोष तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	9		128 से 139 तक रमेशचंद्र रामभाऊ से आनंद ओमप्रकाश तक	अनारक्षित
पंच	10		140/1 से 159 तक ठाकुरलाल गेंदालाल से राजेश पन्नालाल तक	अजजा महिला
पंच	11		159ख से 192 तक राधेश्याम देवराम से अशोक कुमार सुंदर लाल तक	अजा

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत चारखेड़ा खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति /अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य /सामान्य महिला
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	3	2	4	5
सरपंच				अजजा
पंच	1	चारखेड़ा	1 से 24/3 तक रूखमणि निर्भयदास से लालीबाई तक	अनारक्षित
पंच	2		25 से 50 तक कृष्णकुमार से मोनिका अशवनी तक	अनारक्षित
पंच	3		53 से 73 तक उमा सुखदेव से सतीष बंशी तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	4		74 से 97 तक मुकेश हृदयराम से संगीता मंशाराम तक	अ.पि.वर्ग
पंच	5		99 से 122 तक दिनेश से राधाबाई शेरसिंह तक	अजा महिला
पंच	6		123 से 142 तक सहीदशाह से ज्योति बृजलाल तक	अजजा महिला
पंच	7		143 से 159 तक गणकार शाह से नरेन्द्र तक	अनारक्षित
पंच	8		160 से 175 चंदरसिंह से रामवती राजेन्द्र तक	अजा
पंच	9		179 से 207 तक बुद्ध पंचम से अंत तक	अ.पि.वर्ग
पंच	10	मालौना	01 से 21 तक माधुरी से दुर्गाप्रसाद तक	अजजा महिला
पंच	11		22 से 51 तक कन्हैयालाल से संतोष अखिलेश तक	अजा महिला
पंच	12		54 से 71/1 तक श्यामलाल से ज्योति गणेश तक	अनारक्षित महिला
पंच	13		72 से 88/5 तक रामजीवन से रीना सोनू तक	अजा
पंच	14		88क से 99 तक ज्योति संतोष से अनिल गणेश तक	अजजा
पंच	15		100 से 115 तक रामकरण आशाराम से शांति तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	16		116 से 136/1 तक हीरालाल से जितेन्द्र इंदल तक	अनारक्षित
पंच	17		137 से 151/1 तक सुखलाल से शिखा उत्तम तक	अजजा महिला
पंच	18		152 से 170/1 तक द्वारकाप्रसाद से अंगूरी अमेदसिंह तक	अजा महिला
पंच	19		172 से 185/2 तक शांताबाई गोकुल से बीना गयाप्रसाद तक	अजजा
पंच	20		185/3 से 201 तक रामनाथ से बालकृष्ण सालिकराम तक	अ.पि.वर्ग महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत टेमरुबहार खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति /अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य /सामान्य महिला
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच				अजजा महिला
पंच	1	टेमरुबहार	1 से 10 तक प्रेमलाल चुन्नीलाल से सूरज नंदलाल तक	अजजा महिला

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति /अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य /सामान्य महिला)
	क0	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
पंच	2		11 से 21 तक सिकदार जोहरी से रामप्रसाद मंगल तक	अजजा
पंच	3		21क से 78 तक गुलाब मंगल से अनिता शिवराम तक	अजजा
पंच	4	मोगराढ़ाना	00 से 18 तक नंदकिशोर रामप्रसाद से छोटू अमरू तक	अनारक्षित
पंच	5		20 से 28 तक प्रेमलाल झीटू से रूपचंद दयाल तक	अनारक्षित
पंच	6		29 से 40 तक मलटू दौलत से मंशाराम चेतन तक	अनारक्षित महिला
पंच	7		41 से 441 तक मोहन चेतन से राधा यादव तक	अजजा महिला
पंच	8	गुलरढ़ाना	01 से 15 तक हरिराम भैयालाल से गंगू भूरे खा तक	अजजा
पंच	9		17 से 33 तक काशीराम आशाराम से पतिराम मोतीराम तक	अजजा
पंच	10		34 से 45 तक जगदीश देवाजी से भूरलाल विश्राम तक	अजजा महिला
पंच	11		46 से 61 तक सुंदरलाल रामलाल से छन्नू परसू तक	अजजा
पंच	12		62 से 127 तक गन्नू परसू से रामकिशन गंगाराम तक	अजजा महिला
पंच	13	मरापाढ़ोल	01 व 11 तक रामजी छोटे से मांगीलाल मोटे तक	अजजा
पंच	14		12 से 20 तक पतिराम लक्ष्मण से राजू आशाराम तक	अजजा
पंच	15		21 से 30 तक प्यारेलाल श्यामलाल से इमरत भैयालाल तक	अजजा
पंच	16		31 से 38 तक छन्नू नंदराम से संतराम भूरलाल तक	अजजा महिला
पंच	17	चंदियापुरा	01 से 11 तक दादू भूरिया से मनिराम भैयालाल तक	अजजा महिला
पंच	18		12 से 24 तक गेंदालाल हीरा से टीकाराम सुखराम तक	अजजा महिला
पंच	19		25 से 38 तक कडमा भूरा से आशाराम चुन्नी तक	अजजा महिला
पंच	20		39 से 60 तक लक्ष्मण नथू से रामवती रामबकस तक	अजजा महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कायदा खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति /अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य /सामान्य महिला)
	क0	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच				अजा
पंच	1	कायदा	1 से 15 तक संजू मन्नू से राजकुमारी मुन्ना तक	अजजा महिला
पंच	2		15क से 26 तक छन्नू बुद्धू से प्रहलाद पन्नालाल तक	अजजा महिला

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
पंच	3		26क से 33 तक मुन्नी रंगलाल से रामवती चिरौजी तक	अजजा
पंच	4		34 से 40 तक फागू सुखलाल से तारावती भवलू तक	अजजा
पंच	5		41 से 48 तक भूता कोल्या से तारावती प्रेम तक	अजजा महिला
पंच	6		50 से 60 तक दादू भगोनिया से जीजी चंपालाल तक	अजजा
पंच	7		61 से 69 तक हीरामन मनांग से मनोज सुखनंदन तक	अजजा महिला
पंच	8	कुमरूम	01 से 20 तक शोभाराम श्यामलाल से रामबाई लालसिंह तक	अजजा
पंच	9		21 से 40 तक रामसिंह नंदराम से रामसिंह परसराम तक	अजजा
पंच	10		41 से 56 तक पुरणा राजाराम से पिट्टू नानू तक	अजजा महिला
पंच	11		57 से 77 तक रतिराम बुद्धू से जगदीश कालूराम तक	अजजा
पंच	12		78 से 88 तक गुन्दू फूला से सुमरती आशाराम तक	अजजा महिला
पंच	13		89 से 103 तक मोतीराम विसराम से शारदा मंगल तक	अजजा महिला
पंच	14		104 से 115 तक राधेलाल कली से शंकर विसन तक	अजजा

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सौताडा खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच	-	-	-	अजजा महिला
पंच	1	सौताडा	1 से 15ग तक निर्मला रमेशचंद लीलाधर सालकराम तक	अनारक्षित महिला
पंच	2		16 से 40क तक समोता/मनोहर से देवीसिंह सालकराम	अजा महिला
पंच	3		40ख से 58ग तक धनसिंह सालकराम से नंदकिशोर मौजीलाल तक	अनारक्षित
पंच	4		58घ से 78 तक रामनारायण मौजीलाल से राजाराम दगडू	अजजा महिला
पंच	5		79 से 93 तक हरिराम दगडू से हरिकिशन श्रीराम तक	अनारक्षित
पंच	6		93क से 102क तक रामकिशन श्रीराम से मंगराई बुद्धूलाल तक	अनारक्षित महिला
पंच	7		102ख से 110ख तक फगू किशन से दुलारी जोखीलाल	अजजा
पंच	8		110ग से 119 तक दुर्गाप्रसाद रामाधार से बालाराम नाथूराम तक	अनारक्षित महिला
पंच	9		119क से 131 तक नंदकिशोर नाथूराम से नर्मदाप्रसाद बाबूलाल तक	अनारक्षित
पंच	10		132 से 147क तक गंगाप्रसाद नथमल से गेंदू मंशू तक	अजजा
पंच	11	निमाचाक लॉ	02/1 से 12/1 तक प्रेमनारायण शिवनारायण से देवीसिंह गेंदूलाल तक	अनारक्षित महिला

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क0	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
पंच	12		12/2 से 27 तक जितेन्द्र गेंदालाल से अनारबाई बाबूलाल तक	अजा
पंच	13		28 से 49 तक रूखमणी गोकुलदास से रामकृष्ण रामप्रसाद तक	अजा
पंच	14		50/1 से 63ख तक नानकराम बाबूलाल से जागेश्वर बुद्ध तक	अजजा महिला
पंच	15		63ग से 74/2 तक अनुपमा शिवलाल से मोहनलाल सुमेरसिंह	अजजा
पंच	16		75/1 से 87/1 तक भागवत बाबूलाल से समोता श्रीराम	अजजा महिला
पंच	17		89 से 516 तक बालकदास रामरतन से इंद्रकुमार अर्जुनसिंह	अजा महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत धौलपुरकला खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच				अजजा महिला
पंच	1	धौलपुरकला	1 से 19 तक सुरेशचंद रामाधार से देवकरण रणछोड	अनारक्षित महिला
पंच	2		20 से 30ख तक भागवतीबाई हरिशंकर से संतोष परसराम	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	3		31 से 40 तक धापूबाई बिहारीलाल से ओमप्रकाश रामेश्वर	अनारक्षित महिला
पंच	4		41 से 63 तक लक्ष्मीबाई प्रभुदयाल से सुंदरबाई चंपालाल	अनारक्षित
पंच	5		64 से 78 तक निर्मलाबाई बाजूलाल से रूखमणीबाई जयनारायण	अ.पि.वर्ग
पंच	6		79 से 92 तक सावित्रीबाई छतरसिंह से नर्मदाप्रसाद शिवकरण	अनारक्षित
पंच	7		93 से 113 तक शैतान जगन्नाथ से मदन डालूराम तक	अजा महिला
पंच	8		114 से 122 तक रामस्वरूप डालूराम से समोती शिवराम तक	अजा
पंच	9		122/1 से 136 तक सुरजाबाई मनीराम से माखन पन्नालाल तक	अजा महिला
पंच	10		137 से 150 रामबिलास रामप्रसाद से शिवप्रसाद रामलाल तक	अ.पि.वर्ग
पंच	11		151 से 170 कलाबाई हीरालाल से बालकिशन गिरधारी	अनारक्षित महिला
पंच	12		171 से 181 सालकराम गिरधारी से भीमसिंह चंपालाल	अनारक्षित
पंच	13		181/1 से 193क शिवचरण फत्तू से दिनेश शोभाराम	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	14		194 से 206क निर्मलाबाई विश्राम से भगियाबाई मल्लू	अजजा महिला
पंच	15		207 से 220 तक रुखियाबाई रामजी से मंगलसिंह श्यामलाल तक	अजजा महिला
पंच	16		222 से 234 तक मुंशीलाल कोलू से फूलचंद गेंदालाल	अजजा
पंच	17		235 से 445 तक रमेशचंद गेंदालाल से श्यामलाल जीरू	अजजा

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत गोदडी खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच				अनारक्षित महिला
1	1	गोदडी	1 से 18 तक सुमेरसिंह रामदीन से बंशीलाल इमरत तक	अजा महिला
2	2		19 से 30 तक गौरी बाबूलाल से हरिशंकर रामचरण	अ.पि.वर्ग महिला
3	3		31 से 43क मुल्लूसिंह करणसिंह से गेंदालाल रामकरण तक	अनारक्षित
4	4		44 से 55 तक सोमसिंह जगदीश से सागर राधेश्याम तक	अनारक्षित महिला
5	5		56 से 72 तक घुडया तुलसीराम से रामकृष्ण रामेश्वर तक	अनारक्षित महिला
6	6		73 से 88 तक सुशीलाबाई सुंदरलाल से सुइया अशोक तक	अनारक्षित महिला
7	7		89 से 102 तक हरिप्रसाद समाधार से जगदीश बंदीप्रसाद तक	अनारक्षित
8	8		103 से 114 तक लखन रामप्रसाद से सीताराम हजारी तक	अनारक्षित
9	9		114क से 134 तक लतीफशाह रोशनशाह से हरिदास रामाधार	अनारक्षित
10	10		135 से अंत तक गीता मंगल से रामनारायण हरिराम तक	अ.पि.वर्ग महिला
11	11	काथडी	1 से 21 तक रामबकस गेंदालाल से शंकरसिंह भारतसिंह तक	अजा
12	12		22 से 36 तक मल्ला गेंदालाल से अकलसिंह बिहारी तक	अ.पि.वर्ग
13	13		37 से 47 तक रमेश पन्नालाल से लीला शैतानसिंह तक	अ.पि.वर्ग महिला
14	14		48 से 66 तक आत्माराम बापूसिंह से मोहनसिंह किशोरसिंह	अनारक्षित महिला
15	15		67 से 89 तक गंगाराम सीताराम से मानसिंह जगदीशसिंह तक	अ.पि.वर्ग
16	16		90 से 106 तक भागीरथी दरियाव से जगदीश बहादुरसिंह तक	अनारक्षित
17	17		107 से 120 तक लक्ष्मीनारायण भगवानसिंह से प्रहलाद चंपालाल	अनारक्षित
18	18		121 से अंततक शंकरसिंह शिवचरण से अर्जुन नन्थूसिंह तक	अजजा महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत उन्द्राकच्छ खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु.जनजाति/अनु.जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच	-			अनारक्षित महिला
पंच	1	उन्द्राकच्छ	1 से 10 तक पार्वती भागवत से हरिराम हरगोविन्द तक	अनारक्षित
पंच	2		11 से 20 तक रामेश्वर मोती से गणेशी रामप्रसाद तक	अजजा
पंच	3		21 से 29 तक बाजूलाल जागेश्वर से शंकरलाल रामभरोस तक	अनारक्षित

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु.जनजाति /अनु.जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य /सामान्य महिला
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
पंच	4		30 से 42 तक घीसी हजारीलाल से वीरेन्द्र रामभरोस तक	अजा महिला
पंच	5		43 से 54 तक परमसुख रामप्रसाद से सुरेन्द्र शिवरीनारायण तक	अनारक्षित
पंच	6		55 से 69 तक शिवकुमार रामभरोस से रामदास मांगीलाल तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	7		70 से 80 तक बोंदर हीरालाल से रामबिलास देवकरण तक	अ.पि.वर्ग
पंच	8		81 से 94 तक आलोक पुरुषोत्तम से रामकुअर सालिकराम तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	9		95 से 112 तक हमरूनबी पीरू मोहम्मद से हरिप्रसाद राधोलाल तक	अनारक्षित महिला
पंच	10		113 से 123 तक भागीरथप्रसाद बालाराम से सुंदर रामप्रसाद तक	अजजा महिला
पंच	11		124 से 133 तक गणपतीबाई रामगोपाल से श्रीकिशन देवकरण तक	अनारक्षित
पंच	12		134 से 154 तक श्यामबाई विजयसिंह से सुमरती राधेलाल तक	अजजा महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कायरी खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति /अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य /सामान्य महिला
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच				अनारक्षित महिला
पंच	1	कायरी	1 से 20 तक कैलाश जुहारी से रामभाऊ कारू तक	अनारक्षित
पंच	2		20क से 41 तक किशोर कारू से भागीरथ फागू तक	अनारक्षित
पंच	3		42 से 58 तक जोहरी फागू से रामचरण सावंत तक	अजजा
पंच	4		59 से 74 तक रामाधार सावंत से कमल पतिराम तक	अजजा महिला
पंच	5	डोमरा	01 से 12 तक अर्जुन हरिशंकर से नर्मदा घासीराम तक	अनारक्षित
पंच	6		13 से 20क तक सुखराम गुंडू से गोलू पन्नालाल तक	अनारक्षित महिला
पंच	7	महुखाल	01 से 17 तक सुखिया मंगलू से कालू चैतू तक	अजजा महिला
पंच	8		18 से 34 तक फगनू दसनू से इमरत अमरसिंह तक	अजजा
पंच	9		35 से 45 तक रंजी गंगू से नंदा गोविन्द तक	अजजा महिला
पंच	10		46 से 59 तक किशन चेतन से गजराज रामाधार तक	अनारक्षित महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कुहीगवाडी खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
सरपंच	2	3	4	5
पंच	1	कुहीगवाडी	1 से 20/2 तक सुमेरसिंह श्यामलाल से कमल शंकरलाल	अजा
पंच	2		21 से 34/1 तक करणसिंह रामकरण से भैयालाल भाऊ	अनारक्षित
पंच	3		34/2 से 44 तक सुंदरलाल भाऊ से रामौतार गणपत	अ.पि.वर्ग
पंच	4		45 से 56 तक हीरुबाई महताप से सावित्री दीपसिंह तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	5		57 से 68/1 तक हुकुम शिवकरण से पूनाबाई झबरसिंह तक	अनारक्षित
पंच	6		68/2 से 83 तक शैतानसिंह बरजोर से रामकली फत्तू तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	7		85 से 94 तक शिवप्रसाद फत्तू से हरनारायण मांगीलाल तक	अ.पि.वर्ग
पंच	8		95 से 106 तक सुमित्रा रामगोपाल से प्रेमसिंह मोतीसिंह तक	अनारक्षित महिला
पंच	9		107 से 116 तक रामाधार सालिकराम से मोहननाथ प्यारानाथ तक	अनारक्षित महिला
पंच	10		117 से 124 तक गुलाबबाई शिवनाथ से अमरसिंह बलदार तक	अनारक्षित
पंच	11		125 से 131 तक सबरसिंह रामौतार से सुकाबाई श्रीराम तक	अजा महिला
पंच	12		132 से 144 तक मांगीलाल चैनसिंह से जितेन्द्र भागीरथ तक एवं गवाडी 1 से अंत तक श्यामलाल प्रहलाद से अंत	अनारक्षित महिला
पंच	13	आरयाबेडी	01 से 17 तक रामकिशन गंगाराम से रामभरोष रामेश्वर तक	अनारक्षित
पंच	14		19 से 36 तक रामभरोष कोठारी से राधाकिशन रघुनाथ	अजा महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत लछौरा खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
सरपंच	2	3	4	5
पंच	1	लछौरा	1 से 17 तक राधिका शंकर से गुलाबसिंह फूलचंद तक	अनारक्षित महिला
पंच	2		18 से 32 तक रामप्रसाद चेताराम से जगन्नाथ रामप्रसाद तक	अजा महिला

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
पंच	3		33 से 48 तक लक्ष्मण विश्राम से रनूबाई नानूराम तक	अ.पि.वर्ग
पंच	4		49 से 60 तक टीकम नानूराम से रमेश रामगोपाल तक	अनारक्षित महिला
पंच	5		61 से 79 तक रामचन्द्र मयाराम से गुलाब घासीराम तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	6		80 से 96 तक नंदलाल वीरम से सुन्दरलाल बाबूलाल तक	अनारक्षित
पंच	7		97 से 108 तक शिवनारायण हीरालाल से रामभरोस शिवकरण तक	अनारक्षित
पंच	8	शमशाबाद	01 से 16 तक लीमाजी छीतर से हरिराम भागीरथ तक	अनारक्षित
पंच	9		17 से 31 तक हरिप्रसाद भागीरथ से सालकराम भगन तक	अजा
पंच	10		32 से 46 तक भगवानदास बिहारी से लखन भागीरथ तक	अनारक्षित
पंच	11		47 से 61 तक रामभरोस भुजराम से गहराबाई रामगोपाल तक	अनारक्षित महिला
पंच	12		62 से 81 तक निर्भयसिंह रामसिंह से सुमेर हरनाथ तक	अजा महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत रायबोर खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच				अजजा
पंच	1	रायबोर	1 से 18 तक गंगाबाई हरिभजन से गंगाबाई चैन्या तक	अजा महिला
पंच	2		20 से 35 तक बल्लभदास सीताराम से भागवत रामलाल	अनारक्षित महिला
पंच	3		36 से 56 तक राकेश बालाराम से राधेश्याम धन्नालाल	अजा
पंच	4		57 से 68 तक लखनलाल पन्नालाल से भगवान रामलाल तक	अनारक्षित
पंच	5		69 से 82 तक कृष्णाबाई बाबूलाल से रामनाथ बाबूलाल तक	अनारक्षित महिला
पंच	6		84 से 100 तक कमला जुगल से महेश मोहन तक	अजजा
पंच	7		101 से 125 तक सुमन कचरू से बुल्लोबाई श्रीराम तक	अजजा महिला
पंच	8		126 से 136 तक इमरत बाबू से जगदीश बाबूलाल तक	अनारक्षित महिला
पंच	9		137 से 147 तक द्रोपती नारायण से कमल डोमा तक	अजा
पंच	10		148 से 169 तक संतोष इमरत से जगदीश प्रहलाद तक	अजा महिला
पंच	11		170 से 183 तक छीतर रामलाल से सूरजसिंह कालूराम तक	अनारक्षित

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसंरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत पीपल्याकला खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच				अनारक्षित महिला
पंच	1	पीपल्याकला	1 से 19क तक संतोष बट्टलाल से रमेश सुंदरलाल तक	अनारक्षित महिला
पंच	2		20 से 30 तक कुसुम बट्टीप्रसाद से रामबकस देवचंद्र तक	अनारक्षित महिला
पंच	3		31 से 43 तक मन्ना रामदास से जगन्नाथ मिट्टू तक	अ.पि.वर्ग
पंच	4		44 से 57/1 तक अमरा सुखराम से गीता दगडू तक	अनारक्षित
पंच	5		58 से 65 तक पुनिया रामाधार से सिद्धू नारायण तक	अनारक्षित
पंच	6		66 से 82 तक जियालाल राधेलाल से नर्मदा रामचरण तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	7		83 से 92 तक पन्नालाल मांगीलाल से रामसिंह सुखलाल तक	अजा महिला
पंच	8		93 से 107 तक सुखलाल रामप्रसाद से लखन जगन्या तक	अजा महिला
पंच	9		108 से 124 तक जखिया श्यामलाल से मांगीलाल शंकर	अजा
पंच	10		125 से 136 तक रामदास ओमकार से नानूराम बुद्धू तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	11		136क से 158/1 तक उर्मिला रामसिंह से रामदास गोरेलाल तक	अजा

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसंरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत नांदवा खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु.जनजाति/अनु.जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच	-			अजा महिला
पंच	1	नांदवा	1 से 18 इमरती बृजलाल से शिवप्रसाद पृथ्वीराम तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	2		19 से 30 नंदकिशोर कुंजीलाल से बोंदर घासीराम तक	अजा महिला
पंच	3		31 से 46 मांगीलाल भागीरथ से गौरीशंकर कुंजीलाल तक	अनारक्षित
पंच	4		47 से 72 जगदीश रामगोपाल से शिवराम बिहारी तक	अनारक्षित
पंच	5		73 से 90 रूपसिंह कालूराम से गिरजाबाई बृजलाल तक	अनारक्षित महिला
पंच	6		91 से 108 शुभम रामकृष्ण से आनंदीलाल रामलाल तक	अजजा महिला
पंच	7		109 से 128 गुलाब कोलू से चंपाबाई चंपालाल तक	अ.पि.वर्ग
पंच	8	पडवा	01 से 10 इमरती बंशीलाल से राधेश्याम नन्हा तक	अजा
पंच	9		11 से 22 लक्ष्मी धनसिंह से राधेश्याम गेंदालाल तक	अनारक्षित महिला
पंच	10		23 से 30/1ख रामचरण नानकराम से सुरेन्द्र कोमलराम तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	11		31 से 64ख रमेश रामप्रसाद से सुरेश अमरसिंह तक	अजजा

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत आमसागर खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य /सामान्य महिला
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच	-		-	अनारक्षित
पंच	1	आमसागर	1 से 11 मुबारिक तिजोरी से जमुनाबाई शोभाराम तक	अजजा महिला
पंच	2		12 से 20 आशाराम मानसिंह से भुरसी रामकरण तक	अजजा
पंच	3		21 से 37 मोटे मल्लू से राणा भाऊ तक	अजजा महिला
पंच	4		39 से 50 नंदू छोटेला से पाच्या शोभू तक	अजजा महिला
पंच	5		50/1 से 59 बाबूलाल रामा से पूनमचंद सूरज तक	अजजा
पंच	6		60 से 67 लछियाबाई हरिराम से इमरताबाई श्यामलाल तक	अजजा
पंच	7		68 से 76 गौराबाई रामलाल से नवलसिंह शोभाराम तक	अजजा
पंच	8	धनपाडा	01 से 11क लखनलाल परमसुख से गेंदालाल बिहारी तक	अनारक्षित महिला
पंच	9		12 से 19 राजकुंवर कालूराम से मीरा बिरजा तक	अजजा महिला
पंच	10		21 से 33 सुभद्रा चंपालाल से चैनसिंह जगन तक	अजजा महिला
पंच	11		34 से 47 रमेश सीताराम से रामरतन बृजलाल तक	अजजा

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत निमाचाखुर्द खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु.जनजाति/अनु.जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य /सामान्य महिला
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच	-		-	अनारक्षित
पंच	1	निमाचाखुर्द	1 से 18/2 रूखमणिबाई से सुरेश रामदास तक	अनारक्षित
पंच	2		18/3 से 31/1 महेश रामदास से बालकृष्ण शिवराम तक	अजा
पंच	3		31/2 से 39/2 हरनारायण शिवराम से रामजीवन जगन्नाथ तक	अ.पि.वर्ग
पंच	4		42/1 से 53 रामाधार दीनानाथ से आनंदराम रामप्रसाद तक	अनारक्षित
पंच	5		54 से 67 किशोरी नर्मदाप्रसाद से मुरलीधर कैवलराम तक	अनारक्षित
पंच	6		69 से 81 इमरत प्रहलाद से नन्हेलाल शिवप्रसाद तक	अ.पि.वर्ग महिला
पंच	7		82/1 से 104/1 दिनेश गंगाधर से लखन रामकिशन तक	अजजा

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु.जनजाति /अनु.जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य /सामान्य महिला
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
पंच	8		105/1 से 129/1 रामकृष्ण तुलसीराम से बंशीधर पन्नालाल तक	अनारक्षित महिला
पंच	9		129/2 से 142 बद्रीप्रसाद गोदूलाल से भागीरथ रामेश्वर तक	अजजा महिला
पंच	10		144 से 169 रामनारायण देवकरण से राजकुमार दुखीराम तक	अनारक्षित महिला
पंच	11		173 से 186 रूखमणि सदाराम से देवीसिंह छतरसिंह तक	अजा महिला
पंच	12		188 से 199/2 तक रामू बिहारी से सुरेश विशन तक	अ.पि.वर्ग महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बांसपानी खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु.जनजाति /अनु.जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य /सामान्य महिला
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच	-	-	-	अनारक्षित महिला
पंच	1	बांसपानी	1 से 12 तक चिरोजीलाल मोहनी से लालसिंह मंगल तक	अजजा महिला
पंच	2		13 से 24 तक बाबूराम लालसिंह से श्यामलाल गंगाराम तक	अजजा
पंच	3		25 से 38 तक सुखदेव सीताराम से मनकू हीरा तक	अजजा
पंच	4		39 से 48 तक बेटया बाटू से सुंदरलाल साबूलाल तक	अजजा
पंच	5		49 से 55 तक दादू ओंकार से विष्णु मंगू तक	अजजा
पंच	6		56 से 70 तक मिंदी भाउ से बिरजा भूता तक	अजजा
पंच	7		71 से 79 तक बासू लालवा से मांगीलाल नंदराम तक	अजजा महिला
पंच	8	बोबदा	01 से 10 तक बाबूलाल मातिंग से फत्तू विश्राम तक	अजजा
पंच	9		11 से 25 तक मोहनलाल ओंकार से बाबूलाल बाटू तक	अजजा महिला
पंच	10		26 से 40 तक शोभाराम बुद्धू से मिसरू हीरालाल तक	अजजा महिला
पंच	11		41 से 52 तक बुधिया सोना से रामजी कालू तक	अनारक्षित
पंच	12		53 से 66/2 तक गंगू बिरजलाल से गुडडी किशन तक	अजजा महिला
पंच	13		67 से 84 तक दादू रामलाल से परसराम बालाराम तक	अनारक्षित महिला
पंच	14	रूटूबरी	01 से 16 तक बुद्धू भोमका से हरीराम बब्बू तक	अजजा महिला
पंच	15		17 से 26 तक सुबेदार जिंदा से सालकराम बुद्धू तक	अजजा महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बंशीपुरा खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुजनजाति/अनुजनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच	—	—	—	अजजा
पंच	1	बंशीपुरा	1 से 14 तक अर्जुन सुकलू से मंशाराम रामलाल तक	अजजा
पंच	2		15 से 27 तक परसराम रामलाल से पुनई गोपाल तक	अजजा महिला
पंच	3		28 से 45 तक दुलई रम्मू से सुगरती मांगीलाल तक	अजजा महिला
पंच	4	इंद्रपुरा	1 से 15 तक कमलसिंह/कालूराम से मुंशी/छोटू तक	अजजा महिला
पंच	5		16 से 27 तक रुखिया विसन से मुंशी गंगाराम तक	अजजा
पंच	6		28 से 38 तक दादू गंगाराम से कालई रम्मू तक	अजजा
पंच	7		39 से 47 तक जासो बिरजा से हीरा पून्या तक	अजजा
पंच	8		48 से 60 तक नाना कडमू से मुजई भैयालाल तक	अजजा
पंच	9	गांगराढ़ाना	01 से 8 तक कमलसिंह चैतू से लखन परसराम तक	अजजा महिला
पंच	10		9 से 17 तक नानू शिवराम से बबू हीरू तक	अजजा महिला
पंच	11		18 से 27 तक सुकराम हीरू से झुमकलाल सोमा तक	अजजा
पंच	12		28 से 38 तक शंकर सालकराम से मुंशी जोखीलाल तक	अजजा महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बोरपानी खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुजनजाति/अनुजनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच	—	—	—	अजा महिला
पंच	1	बोरपानी	1 से 14 तक कुंदन छोटेलाल से चंद्रकला प्रकाश तक	अजजा महिला
पंच	2		15 से 30 तक परसराम गुंडा से इंद्रवती भैयालाल तक	अजजा
पंच	3		31 से 44 तक पतिराम कोदू से राजेश धनीराम तक	अजजा
पंच	4		45 से 61 तक पार्वती शिवरतन से रामकिशोर तक	अजजा
पंच	5		62 से 79 तक बचनसिंह राजनसिंह से भागवती तक	अजजा
पंच	6		80 से 88 तक रामकरण मोहनलाल से कान्तोबाई तक	अजजा महिला

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुजनजाति/अनुजनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
पंच	7	जडकह	1 से 8 तक रामवती प्रकाश से रामपाल पतिराम तक	अजजा महिला
पंच	8		9 से 18 तक कन्नु बुद्ध से संगीता आशाराम तक	अजजा महिला
पंच	9		19 से 35 तक रेवाराम सुखलाल से प्रेमवती कैलाश तक	अजजा महिला
पंच	10		36 से 45 तक विमनलाल समलू से मनीराम तक	अजजा महिला
पंच	11	पोंसाढ़ाना	1 से 8 तक आशाराम सोमा से सुनिता बाबूलाल तक	अजजा
पंच	12		9 से 19 तक विसराम ओमकार से झुनकी रामकरण तक	अजजा महिला
पंच	13		20 से 28 तक रामकरण पुनिया से सियाराम रामसू तक	अजजा
पंच	14	दीदमदा	1 से 7 तक बवीता पिंजू से राधा बृजलाल तक	अजजा
पंच	15		8 से 18/3 तक भददू भूरा से शिवकली रामदास तक	अजजा महिला
पंच	16		18/4 से 29 तक मन्दू दरोई से सुगन्ता अनोखी तक	अजजा
पंच	17		30 से अंत तक सुबन रामलाल से अंत तक	अजजा महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बोधी खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुजनजाति/अनुजनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच				अनारक्षित
पंच	1	बोधी	1 से 10ख तक रामचरण हीरा से ओझालाल सोमा तक	अजजा महिला
पंच	2		11 से 20 तक मीटू कालू से बायलू कालू तक	अजजा
पंच	3		21 से 30 तक सुंदरलाल बाबूलाल से रामेश्वर चुन्ना तक	अजजा महिला
पंच	4		31 से 39 तक रामदीन मोहनलाल से संभू लोटन तक	अजजा
पंच	5		42 से 49 तक तेजराम रामकरण से झुनई रतिराम तक	अजजा
पंच	6		51 से 123 तक सूरज रामप्रसाद से बिसन कालू तक	अजजा
पंच	7	आम्बा	02 से 10 तक प्यारीबाई कलीराम से हरि सुखराम तक	अजजा महिला
पंच	8		11 से 18 तक बालाराम सुखराम से प्रभुदयाल हरिराम तक	अजजा
पंच	9		19 से 32 तक भैयालाल राधेलाल से बलराम रामसिंह तक	अनारक्षित महिला
पंच	10	मन्नासा	01 से 16क तक हेमराज इमरत से जोखीलाल नंदराम तक	अजजा महिला
पंच	11		17 से 31 तक रामप्रसाद मन्नु से रामदास सुखराम तक खारी 20 से 32 तक झगू श्रीकिशन से नानू बटटू तक	अजजा महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत पाटियाकुआ खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क्र०	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	
सरपंच	—		—	अनारक्षित
पंच	1	पाटियाकुआ	1 से 15 भवला मंगल से इमरत गंगू	अजजा महिला
पंच	2		16 से 26 सूरजलाल मुंगिया से दीनदयाल गुलाब	अजजा
पंच	3		27 से 38 इमरत चैतराम से बाटू सोमा तक	अजजा महिला
पंच	4		39 से 50 शंकर भांगू से नानू छोटू	अजजा
पंच	5		50क से 61 कमला रामलाल से रामभरोस गंगाराम	अजजा
पंच	6	गोहटी	01 से 13क सोमा चिरोजी से बिहारी कालू तक	अजजा
पंच	7		13ख से 23क चुब्बी कडकसिंह से कोददा रंगू तक	अजजा
पंच	8		23ख से 34 मदन गंगू से भूरू रीठा तक	अजजा महिला
पंच	9		36 से 45 हरि रोहना से मुल्ला धन्नु तक	अजजा महिला
पंच	10		46 से 58 रामा रंजू से सकुन अनिल तक	अजजा महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत लोधीढाना खण्ड टिमरनी के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, जिसके लिए निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण केवल पंच के निर्वाचन के लिए			आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य महिला)
	क.	ग्राम	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नम्बर तक मुखिया के नाम सहित	
1	2	3	4	5
सरपंच				अजजा
पंच	1	लोधीढाना	1 से 13 गोपाल रामचन्द्र से रामकरण नीला गौलीढाना	अजजा
पंच	2		14 से 27 हरिराम शीतल से तुलसीराम राधेलाल तक गौलीढाना	अजजा
पंच	3		15 से 34 तुलाराम सुखलाल से बाटू काल्या तक	अजजा महिला
पंच	4		35 से 43 सखाराम सालकराम से पीरू भीलू तक	अजजा महिला
पंच	5		44 से 57 जोहरी धन्नु से प्यारेलाल भूतू तक	अनारक्षित महिला
पंच	6		58 से 65 किशोर चुईया से सीताराम बलकू तक	अजजा
पंच	7		66 से 80 कालू डोडी से नानू आंडू तक	अजजा महिला
पंच	8		81 से अंत तक परसराम बिसरू से नंदकिशोर झल्लू	अजजा महिला
पंच	9	डेबराबंदी	1 से 13 लखन दलसू से राधा प्यारेलाल तक	अनारक्षित
पंच	10		14 से 24 सुमती परसराम से कमल बबू तक	अजजा
पंच	11		25 से 40 फूलकाय राजाराम से बगलो ललित तक	अजजा महिला
पंच	12		41 से अंत तक रूखमा सुकल्या से प्रहलाद लक्ष्मण तक	अनारक्षित

हरदा, दिनांक 13 नवम्बर 2014

क्र. 13040-2014.—मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत, खमलाय खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है:—

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)				आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से	मकान नम्बर तक		
1	2	3	4	5	6	
सरपंच	—	खमलाय	—	—	अनुसूचित जनजाति महिला	
पंच	1	—	1	कमला बद्रीप्रसाद	8/1 सुशीला अनोखीलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	2	—	9	प्यारेलाल राधू	23 मनीषाबाई	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	3	—	23/1	रमेश रामप्रसाद	38 दिनेश कुमार	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	4	—	39	हरिशंकर रामगोपाल	54 निशाबाई	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	5	—	55	हजारी पोखर	74 अनुसुईयाबाई	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	6	—	75	प्रकाश रामचंद्र	91 प्रियंकाबाई	अनारक्षित
पंच	7	—	91/1	लखनलाल	108 शोभाबाई	अनारक्षित महिला
पंच	8	—	109	भीम कृष्णचंद	127 कंचनबाई	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	9	—	129	उमेश घासीराम	150 अनिलकुमार	अनुसूचित जाति महिला
पंच	10	—	151	शांताबाई	167 लोकेश	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	11	—	168	गोपाल गिरधारी	180 वर्षा	अनारक्षित
पंच	12	—	181	गुलाबबाई लक्ष्मीनारायण	192 अंततक	अनारक्षित
पंच	13	हरपालिया	1	रामेश्वर बालाराम	15 क कमलाबाई कचरया	अनुसूचित जाति महिला
पंच	14	—	16/2	रामभरोष सिकदार	32/2 रजनीबाई	अनारक्षित महिला
पंच	15	—	33	अनारबाई	42/2 मनीषाबाई	अनारक्षित
पंच	16	—	43/1	नारायण मांगीलाल	56 सुनिताबाई	अनुसूचित जाति मुक्त

मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत, बारंगा खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है:—

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)				आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से	मकान नम्बर तक		
1	2	3	4	5	6	
सरपंच	—	बारंगा	—	—	अनारक्षित महिला	
पंच	1	—	1	गुलाब नारायण	12 रिकी विपिन	अनारक्षित
पंच	2	—	13	ब्रजमोहन रामदास	27 नीरू राजेश	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	3	—	29	गुलाबबाई पन्नालाल	38 जयंति प्रेमनारायण	अनारक्षित महिला
पंच	4	—	39	गजराजसिंह शिवराम	61 सकुनतला भगवान	अनारक्षित
पंच	5	—	63	कुंजीलाल गोविन्द	76/1 तुलसबाई बलीराम	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	6	—	77	रमेश भीका	98 पंकज प्रभूदयाल	अनुसूचित जाति महिला
पंच	7	—	99	बसंतीबाई श्रीराम	112 मेघा सुनिल	अनारक्षित महिला
पंच	8	—	113	मंशाराम कालू	121 अरुणा राजकुमार	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	9	—	122/1	अर्जुन सुखराम	142 सोमति गंजानंद	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	10	झांझरी	21	उर्मिला लखनलाल	26 ज मालती रूपसिंग	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	11	—	26	रामकुंवर रामलाल	44 अनिता राजेन्द्र	अनुसूचित जनजाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत धनवाड़ा खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)				आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से	मकान नम्बर तक			
1	2	3	4	5	6		
सरपंच	—	धनवाड़ा	—	—	अनारक्षित महिला		
पंच	1	—	1	रेखाबाई ओमप्रकाश	15	कोमल ब्रजेश	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	2	—	16	लक्ष्मीनारायण रामकिशन	28	मालती गोविन्द	अनारक्षित
पंच	3	—	30	तुलसीराम बोदर	40/1	संगीता रामकृष्ण	अनारक्षित
पंच	4	—	41	रामनारायण नाथुराम	55	ललता चन्दूलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	5	—	56	धापूबाई रंगलाल	72	रेशम शंकर	अनारक्षित महिला
पंच	6	—	74	पन्ना बुद्ध	87/1	राहुल रामौतार	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	7	—	88/1	नाथुराम बाबूलाल	104/1	सुभाष रामाधार	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	8	—	105	राधेश्याम जागेश्वर	117	मनीषा जगदीश	अनुसूचित जाति महिला
पंच	9	—	118	गोदालाल उमराव	131	भारतीय भागवत	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	10	—	131/1	जोरोन धन्नालाल	150	सुलोचना चन्द्रराज	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	11	—	151	राजाराम सुखराम	163	सरस्वती दौलत	अनारक्षित
पंच	12	—	164	संतोष भीका	170/2	मुंशी श्यामसिंग	अनारक्षित महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत चौकड़ी खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)				आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से	मकान नम्बर तक			
1	2	3	4	5	6		
सरपंच	—	चौकड़ी	—	—	अनारक्षित महिला		
पंच	1	—	1	मथुराबाई गोदालाल	23	ब्रजलाल प्रहलाद	अनारक्षित
पंच	2	—	23/1	श्यामलाल मनोरी	40	शिवप्रसाद रामकिशन	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	3	—	41	तुलसीराम रामकिशन	62क	भागवती राधेलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	4	—	62ख	सुरेश राधेलाल	84	राधेश्याम रामप्रसाद	अनारक्षित
पंच	5	—	84क	कैलाश मोती	110	रेवाबाई रामबक्श	अनारक्षित महिला
पंच	6	—	111क	रघुनाथ माधव	135	प्रमोद रामकिशन	अनारक्षित
पंच	7	—	136	ओमप्रकाश तुलसीराम	151क	शिवप्रसाद दलसिंग	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	8	—	152	मांगीलाल नन्हू	159	पार्वतीबाई रंगलाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	9	—	160	बिशन नन्धू	174/1	पारूलबाई विजयकुमार	अनारक्षित महिला
पंच	10	—	175/2	रामसिंह नंदराम	197	महेश अमृतलाल	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	11	—	198	रामेश्वर खेमा	221	लच्छीबाई गोदालाल	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	12	—	221क	हरिशंकर बाबूलाल	230	कमल देवाजी	अनारक्षित
पंच	13	—	231	गीताबाई लक्ष्मीनारायण	254	गंरीबा रंगलाल	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	14	—	256	नन्दू बल्ला	273	अशोक कोमल	अनुसूचित जाति महिला
पंच	15	—	274	ब्रजलाल हरनाथ	293/2	किशोरी बाबूलाल	अनुसूचित जाति महिला
पंच	16	—	294	रामभरोष माधव		अततक	अनारक्षित महिला
पंच	17	लोध्याखेड़ी	1	बोदर पन्नालाल	22	संजूबाई रामविलास	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	18	—	24	अमरसिंह मोहनलाल	39	भारत रामेश्वर	अनारक्षित
पंच	19	—	40	रनछोड मयाराम	63	देवलाल रामकरण	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	20	—	64	मांगीलाल रामकरण		अततक	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत मांदला खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)					आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
1	2	3	4		5	6	
सरपंच	—	मांदला	—		—	अनुसूचित जनजाति महिला	
पंच	1	—	1	नत्थू झापू	36	लक्ष्मीबाई शिवप्रसाद	अनारक्षित
पंच	2	—	37	लक्ष्मीनारायण नत्थू	62	जगन्नाथ मांगीलाल	अनारक्षित महिला
पंच	3	—	63	दिनेश सूरजा	117	साउ छोगोलाल	अनारक्षित
पंच	4	—	118	रामकली रंगलाल	137	हंसराज वंशगोपाल	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	5	—	138	रेहना अब्दुल	162	लक्ष्मीनारायण हरदेव	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	6	—	163	रमेश गुलाब	197/10	दीपा अशोक	अनारक्षित
पंच	7	—	198	हेदरशाह रमजानशाह	224	मनोहर कुंजीलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	8	—	225	रामप्रसाद दुल्ला	259	मरुबाई लक्ष्मीनारायण	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	9	—	260	वंशीलक्ष्मीनारायण	299	मांगीलाल रामकरण	अनुसूचित जाति महिला
पंच	10	—	300	रामेश्वर रामकरण	330	रामभरोष शिवराम	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	11	—	333	रामचंद शिवराम	360	रामलाल शिवराम	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	12	—	361	रामचरण जगन्नाथ	392	जगदीश दुलीचंद	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	13	—	394	जागेश्वर पून्या	442	मांगीलाल प्रेमसिंह	अनारक्षित
पंच	14	—	443	प्रहलाद जगन्नाथ	475	विनोद रामलाल	अनारक्षित महिला
पंच	15	हियाला	1	रूपाबाई मोतीराम	14	कमलसिंह कन्हैया	अनारक्षित
पंच	16	—	15	गीता कन्हैया	24/1	गरीबदास भागीरथ	अनारक्षित महिला
पंच	17	—	24/2	रामदास भागीरथ	37/3	मुन्नालाल चंदन	अनुसूचित जाति महिला
पंच	18	—	38	मथुराबाई राधेश्याम	48	भैयालाल रामकिशन	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	19	—	49	गुडरबाई गगाविशन	61	रामेश्वर उमराव	अनारक्षित महिला
पंच	20	—	62/1	गगाराम रतनसिंह	91	भारत भवरसिंह	अनुसूचित जनजाति मुक्त

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत मुहालकला खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)					आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
1	2	3	4		5	6	
सरपंच	—	मुहालकला	—		—	अनुसूचित जाति महिला	
पंच	1	—	4	राधेश्याम रामसिंह	19	राजेन्द्रप्रसाद कालूराम	अनारक्षित
पंच	2	—	20	रमेश लक्ष्मीनारायण	40	रामबाई फत्तू	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	3	—	42	गोकुल कालूराम	62	सावित्री रामप्रसाद	अनारक्षित महिला

1	2	3	4	5	6		
पंच	4	--	63	लक्ष्मीनारायण	80	चम्पालाल बिहारी	अनारक्षित
पंच	5	--	81	रामकली ओकारप्रसाद	99	राधेश्याम प्रहलाद	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	6	--	100	उमराव फत्तू	117	रूपसिंह जागेश्वर	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त
पंच	7	--	118	कुवेर जागेश्वर	137/2	चम्पालाल	अनारक्षित
पंच	8	--	137क	शिवप्रसाद हरिकिशन	148	सुंदरलाल सुखदेव	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	9	--	150	विसमिल्ला शेरमोहम्मद	163	केवल दयाराम	अनुसूचित जाति महिला
पंच	10	--	164	भागवती हरिप्रसाद	176/2	प्यारेलाल बाबूलाल	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	11	--	178	दुर्गाप्रसाद शंकर	206	लीलाधर रामगोपाल	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	12	--	207	सुखराम रामगोपाल	235	चतरया चैन्या	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	13	--	236	कूपाराम हरीराम	259	गणेश रामलाल	अनुसूचित जाति महिला
पंच	14	नीमसराय	207	रमेशचंद्र हरिकिशन	220/1	गुलाबचंद्र परसराम	अनारक्षित
पंच	15	--	220/2	अतर परसराम	237	शिवप्रसाद भगवानदास	अनुसूचित जाति महिला
पंच	16	--	239	गंगाविशन लक्ष्मण	253/1	रामभाउ परसराम	अनारक्षित
पंच	17	--	254	मांगीलाल रामलाल	264/2	शिवनारायण शोभाराम	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	18	--	266	गीता विशन	286	शांता सीतराम	अनारक्षित महिला
पंच	19	--	287	रामा कन्हेया	303	सरजू गेदालाल	अनारक्षित महिला
पंच	20	--	303/1	गिरीश कैलाशचंद्र	808	राहुल जगदीश	अनुसूचित जनजाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत रहटाकला खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)					आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछडा वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से	मकान नम्बर तक			
सरपंच	—	रहटाकला	—	—		अनुसूचित जनजाति मुक्त	
पंच	1	--	1	अशोक रामभरोष	18	बालकृष्ण रामरतन	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	2	--	19	नाथूराम चौधरी	33	प्रेमनारायण रामेश्वर	अनारक्षित
पंच	3	--	34	सुंदरलाल कन्हेयालाल	49	रामविलास कन्हेयालाल	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त
पंच	4	--	50	रामविलास हदयराम	55	नानकराम आत्माराम	अनारक्षित महिला
पंच	5	--	56	रामकृष्ण घासीराम	68	रामचंद्र हदयराम	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	6	--	69	बाबूलाल गिरधारी	75ख	जमनादास चम्पालाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	7	--	77/1	श्यामलाल रामप्रसाद	93	शंकरलाल गोपाल	अनारक्षित
पंच	8	--	94	बालकृष्ण रामेश्वर	107	संदीप बद्रिप्रसाद	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	9	--	107	कल्लू राधेलाल	125	हरीराम गोकुलराम	अनारक्षित
पंच	10	--	126	प्रेमनारायण रामदयाल	141	लखनलाल शिवकरण	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त
पंच	11	--	142	दुर्गाप्रसाद नारायण	154	पृथ्वीराज कमलसिंह	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	12	--	155	विष्णुप्रसाद नर्मदाप्रसाद	167	लक्ष्मीनारायण कन्हेयालाल	अनारक्षित महिला
पंच	13	--	168	रामगुलाम शिवप्रसाद	183	रमेश राधेश्याम	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	14	--	184	सीताराम मांगीलाल	199	छननू गबू	अनुसूचित जाति महिला
पंच	15	--	201	भीमराज बाबूलाल	219	रामदास रामलाल	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	16	--	220	तुलसीराम बगडया	234	रामदीन शिवप्रसाद	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	17	--	234/1	संतोष राधेश्याम	253	तेजराम बगडया	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	18	--	254	कोमल शिवकरण	272	मांगीलाल पन्नालाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	19	--	273	गुलाबदास पटेल	307	ताराचंद नन्हू	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	20	--	308	कन्हेयालाल शिवकरण	532	रामदास नन्दू	अनुसूचित जाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत बेडियाकलां खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)					आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जाति महिला/ अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जनजाति महिला/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/ अनारक्षित/ अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
1	2	3	4		5	6	
सरपंच	—	बेडियाकलां	—		—	अनारक्षित	
पंच	1	—	1	हरकिशन जगन्नाथ	25	नर्मदाप्रसाद रामेश्वर	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	2	—	26	सत्यनारायण जगन्नाथ	42	शिवचरण मोतीराम	अनारक्षित
पंच	3	—	46	गोदाबाई पन्नालाल	65	प्रेमनारायण बाबूलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	4	—	66	शिवनारायण जयकिशन	84	गुलकीबाई झाबूलाल	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	5	—	84/2	भागीरथ रामलाल	104	पदमसिंग रतन	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	6	—	105	अनारबाई दीना	118	भरोष बाबूलाल	अनारक्षित महिला
पंच	7	—	121	सुखदेव रामेश्वर	140	महेश रामगुलाम	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	8	—	141	बाबूलाल मोतीराम	158	मोहन कालूराम	अनारक्षित
पंच	9	—	159	अमरदास रामप्रसाद	176	मनोहर रणछोड	अनारक्षित महिला
पंच	10	—	178/1	मुंशी रामकिशन	189	ओमप्रकाश रघुनाथ	अनारक्षित
पंच	11	भीमपुरा	1	राधेश्याम राजाराम	15	छोगालाल श्रवण	अनुसूचित जाति महिला
पंच	12	—	16क	राजकुमार नर्मदाप्रसाद	79	योगेश करणसिंह	अनुसूचित जाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत दीपगांवकलां खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)					आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जाति महिला/ अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जनजाति महिला/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/ अनारक्षित/ अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
1	2	3	4		5	6	
सरपंच	—	दीपगांवकलां	—		—	अनुसूचित जनजाति महिला	
पंच	1	—	1	कमलाबाई	16	सोनाबाई	अनारक्षित
पंच	2	—	17	राधेलाल	31	आधारसिंह	अनारक्षित महिला
पंच	3	—	32	राजेन्द्र	41	संतोष	अनारक्षित
पंच	4	—	42	संतोष	57	गुलाबबाई	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	5	—	58	भीकूबाई	72	बाबूलाल	अनारक्षित महिला
पंच	6	—	73	राजन	88	महेश विश्वकर्मा	अनारक्षित महिला
पंच	7	—	89	रमेशचंद्र	106	शांताबाई	अनारक्षित

1	2	3	4	5	6		
पंच	8	--	107	चम्पालाल	122	शेख मेहराज	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	9	--	123	शेख मुंशी	134	शेख युनूस	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	10	--	135	शेख रसूल	148	रामसिंह पुंवार	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	11	--	149	गुलाबसिंह	165	शांताबाई	अनारक्षित
पंच	12	--	166	देवीसिंह	184	संभूदयाल	अनारक्षित
पंच	13	--	185	अंजनीकुमार	196	कमलाबाई	अनुसूचित जाति महिला
पंच	14	--	198	सत्तारखां	214	बुद्ध मंगल कौरकू	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	15	--	215	सीताराम पटेल	235	रफीकखां	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	16	--	236	श्रीराम जागेश्वर	258	रामकुंवरबाई	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	17	--	262	दुरपताबाई	294	कचरू नत्थू	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	18	--	295	रफीक रसीद	328	गेदालाल पूनम	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत पोखरनी खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)					आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
1	2	3	4		5	6	
सरपंच	--	पोखरनी	--		--	अनुसूचित जनजाति महिला	
पंच	1	--	1	राधारमण रामनारायण	27	रामदास मांगीलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	2	--	28	रामकुंवर रामकरण	59/1	मनोहर हीरालाल	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	3	--	61	घीसीबाई रामलाल	86	ब्रजलाल तीरथ	अनारक्षित महिला
पंच	4	--	87	भारत बाबू	106	भागीरथ चेंतराम	अनारक्षित
पंच	5	--	108	जगदीश	134	सावित्री लक्ष्मीनारायण	अनुसूचित जाति महिला
पंच	6	--	135/1	शिवप्रसाद बद्रीपसाद	138/3घ	राधेश्याम गोकुल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	7	--	139	सरूपा राम्या	159/2	गिरधारी तुकाराम	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	8	--	160	जडियाबाई रामप्रसाद	181/2	लूमाबाई हरि	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	9	--	182	अनोखीलाल छोटेलाल	207	प्रहलाद गोरेलाल	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	10	--	208	काशीराम झापू	226/1	शब्बीर अमीरचंद	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	11	--	227	उमाशंकर गोवर्धन	246	बुदराम हब्बूलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	12	--	247	मांगीलाल जगन्नाथ	270/1	कुंवरसिंह कमल	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	13	--	270/2	सैजादबी हमीदखां	289/3क	प्रहलाद विजय	अनारक्षित
पंच	14	--	294	बलराम मांगीलाल	303/2	कमलसिंह मोती	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	15	--	305	कडूबाई बाबूलाल	326	रामेश्वर मानसिंग	अनुसूचित जाति महिला
पंच	16	--	327	सुशीला अमरसिंह	352/2	गंगाराम लक्ष्मीनारायण	अनुसूचित जाति महिला
पंच	17	--	356	शारदा रामाधार	382	गोपाल रामसिंह	अनारक्षित महिला
पंच	18	--	384	तुलसा रामा	395	रामचंद्र मांगीलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	19	--	396	ममता किशोर	413	रामगोपाल गेदालाल	अनारक्षित
पंच	20	--	414	रामनाथ	462/2	चक्रपाणी उमाशंकर	अनारक्षित

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत पड़वा खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)					आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
	1	2	3	4	5		6
सरपंच	—	पड़वा	—		—	अनारक्षित	
पंच	1	—	1/2	हरराम छोगेलाल	11	नीला भागीरथ	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	2	—	12/1	उमेशसिंह	27	मांगीलाल	अनारक्षित महिला
पंच	3	—	28	राधेश्याम	42/1	प्रेमनारायण	अनारक्षित महिला
पंच	4	—	42/2	सत्यनारायण	52/1	गयाप्रसाद	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	5	—	53	शारदाबाई	72	श्रीकेशन	अनुसूचित जाति महिला
पंच	6	—	73	गोकुल	93	हरनारायण	अनुसूचित जाति महिला
पंच	7	—	94	रामेश्वर	113	धर्मराज	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	8	—	113क	अमरदास	121क	गायत्रीबाई	अनारक्षित
पंच	9	—	123/1	सूरजसिंह	141	गयाप्रसाद	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	10	—	141क	अर्जुन	163	शारदाबाई	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	11	—	165	बलीराम	180	नीतेश	अनारक्षित
पंच	12	—	181/1	लक्ष्मीबाई	192	सूरज	अनारक्षित महिला
पंच	13	—	193	नन्हीबाई	204/1	उमेशसिंह	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	14	—	205	लीलाबाई	215ख	राजेन्द्र	अनारक्षित
पंच	15	—	216	जगदीश	230	गोपाल	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	16	—	231/1	मोहन	249	लखन	अनारक्षित
पंच	17	—	252	शिवनारायण	266	शिवशंकर	अनारक्षित महिला
पंच	18	—	282	कोमल	313	रामप्रसाद	अनारक्षित
पंच	19	—	1082	भागवत	1112	रघुनाथ	अनुसूचित जाति मुक्त

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत टेमलावाड़ीमाल खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)					आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
	1	2	3	4	5		6
सरपंच	—	टेमलावाड़ीमाल	—		—	अनारक्षित	
पंच	1	—	1/1	आधारसिंह हरिराम	15	गोदालाल विसन	अनारक्षित महिला
पंच	2	—	16/1	मुंशी हीरालाल	24/4	माला खेराज	अनुसूचित जनजाति मुक्त

1	2	3	4	5	6		
पंच	3	--	25	महेश श्रीराम	44/1	सुरेशकुमार	अनुसूचित जाति महिला
पंच	4	--	45	रामगोपाल खिल्या	59/2	हजारी	अनारक्षित
पंच	5	--	60	मथुराबाई उमेद	85	लक्ष्मीनारायण राधेश्याम	अनारक्षित महिला
पंच	6	--	87	रामप्रसाद लल्लू	104	लक्ष्मीनारायण प्रहलाद	अनारक्षित
पंच	7	--	106	झम्बारखां मालेखां	120/11	रामकुंवरबाई	अनारक्षित महिला
पंच	8	--	123	कुसुमबाई मोहनलाल	139	बिहारी गंजा	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	9	--	140	रमाबाई शांतिलाल	151	मंगलसिंह मातिग	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	10	--	152	कालईबाई नत्थू	159/2	रूपसिंग रतन	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	11	--	160	सोरठबाई खेमा	172/2	रामकिशोर पटेल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	12	--	173	राधेश्याम सोमा	182/2	गुलबीबाई शोभाराम	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	13	--	183	यशोदाबाई	197	रुपायबाई रिंगा	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	14	--	198	मांगीलाल सददू	210/5	धनसिंग घासीराम	अनारक्षित
पंच	15	--	210/6	भागीरथ जागेश्वर	471/1	करीम सलीम	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	16	टेमलावाड़ी रैयत	1	मदन घासीराम	21	हीरालाल दादू	अनारक्षित महिला
पंच	17	--	22	रम्भोबाई	35	मांगीलाल पटेल	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	18	--	35/1	शिवराम सूवेदार	51	सजनबाई दरियाव	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	19	--	52/1	कमलसिंग गुलाबसिंह	62	कालूराम शिवराम	अनारक्षित
पंच	20	खेड़ीसरकूलर	1	कमलसिंग राधेलाल	17	मोतीराम सीताराम	अनारक्षित

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत चारुवा खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)				आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से	मकान नम्बर तक			
1	2	3	4	5	6		
सरपंच	--	चारुवा	--	--	अनुसूचित जाति महिला		
पंच	1	--	1/1	गुलाबबी अब्दुलरजाक	44	बद्रीप्रसाद मांगीलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	2	--	46	राजेन्द्र मांगीलाल	83घ	वीरेन्द्र जीवन	अनारक्षित
पंच	3	--	85/1	उषाबाई रणछोड	131/1	मोहन हरीशंकर	अनारक्षित महिला
पंच	4	--	131/3	गोदालाल बाजूलाल	165	चंद्रशेखर लक्ष्मीनारायण	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	5	--	167	अशोककुमार शकरलाल	196	ओमप्रकाश धन्नालाल	अनारक्षित
पंच	6	--	197	लखनलाल बाबूलाल	240	धन्नालाल रामप्रसाद	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	7	--	243	दिनेश घासीराम	279	रामचरण सोन्या	अनुसूचित जाति महिला
पंच	8	--	280	उमराव कोदर	329	रुखजू खुमानसिंह	अनारक्षित महिला
पंच	9	--	330	अशोक पन्नालाल	387/1	रामभाउ गोदालाल	अनारक्षित
पंच	10	--	387/2	ब्रजलाल गोदालाल	422	अकबर ईस्माईलखां	अनारक्षित
पंच	11	--	426	बदरुनबी रसीदखां	453ख	रामकिशन नरसिंह	अनारक्षित महिला
पंच	12	--	454	हरकिशन बाबूलाल	480	मंगलाकान्त रामप्रसाद	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	13	--	482	दिनेश कुंजीलाल	505	गणेश मांगीलाल	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	14	महलपुरामाल	2	भगवानसिंह हलदू	120	मंगलसिंह हीरालाल	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	15	जादोपुरा	1ख	धर्मेन्द्र प्रताप	100	सुखलाल दंदीलाल	अनुसूचित जाति महिला
पंच	16	--	111	देवीसिंह नंदकिशोर	152	तीजाबाई किशोरी	अनारक्षित
पंच	17	प्रतापपुरा सेठ	1क	नारायण नन्दू	141/2	पूनमराव केशवराव	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	18	--	42/2	मिश्रीबाई मांगीलाल	100/1	हरिशंकर सीताराम	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	19	हरीपुरामाल	1	दशरथ श्यामलाल	61क	हेमराज शिवप्रसाद	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	20	--	63	जगन्नाथ गंगाराम	180	विरेन्द्र अशोक	अनुसूचित जाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत सांगवामाल खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)				आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से	मकान नम्बर तक			
1	2	3	4	5	6		
सरपंच	—	सांगवामाल	—	—	अनुसूचित जनजाति महिला		
पंच	1	—	1	पार्वती दरियाव	12	गोदाबाई रामभरोष	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	2	—	13	रामेश्वर कुंजीलाल	26	अजय गजराज	अनारक्षित
पंच	3	—	28	रामनारायण मोतीराम	40	उमाबाई रंगलाल	अनारक्षित
पंच	4	—	41/1	बंद्री रामरतन	52	संजय लक्ष्मीनारायण	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	5	—	53	प्रेमनारायण गजराज	131	भूरालाल रामाधार	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	6	रुनझुन	1	गोदालाल उमराव	22/2	तरनुमबी कुर्बान	अनुसूचित जाति महिला
पंच	7	—	23	अमरसिंग शंकरलाल	38	बंसती रमेश	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	8	—	38/1	गोरेलाल तुलसीराम	53	आशा विजेश	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	9	—	53/1	मांगीलाल सीताराम	67	ज्योति कन्हैयालाल	अनारक्षित महिला
पंच	10	—	67/1	अनोखीलाल मंगल	82	रेखा सत्यनारायण	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	11	—	83	मोहन बुद्ध	101	अनिता गंगाराम	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	12	—	102	सुरेश करणसिंह	165	सुंदरबाई गजराज	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	13	अंजरुदमाल	1	विश्राम पून्या	14	नगीन घासीराम	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	14	—	15	फललू कन्हैयालाल	25	राजू भगवान	अनारक्षित
पंच	15	—	26	हरिराम मांगीलाल	35	जीवन सेवाराम	अनारक्षित महिला
पंच	16	सांगवा सरकूलर	1	सोमा सुखराम		जगदीश सीताराम	अनुसूचित जनजाति मुक्त

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत मोरगढी खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)				आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से	मकान नम्बर तक			
1	2	3	4	5	6		
सरपंच	—	मोरगढी	—	—	अनारक्षित महिला		
पंच	1	—	2	भाउ टाटू	9	चंदरसिंग सोमा	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	2	—	10	सालकराम बाटू	26	मांगीलाल बुद्ध	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	3	—	27	नथियाबाई हरिराम	38	नंदा तुमला	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	4	—	39	जसलू बुद्ध	52	रमकू सोमा	अनुसूचित जनजाति मुक्त

1	2	3	4	5	6		
पंच	5	--	53	नाना कालू	63ख	मोजी कालू	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	6	--	65	सीताराम तुमला	73	रुखमणी अनोखी	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	7	--	74	मांगीलाल गगाराम	86	चंदरसिंग परसू	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	8	--	87/1	नंदकिशोर गणपतराम	99क	प्रेमबाई मुकुद	अनारक्षित
पंच	9	--	99ख	निजामउददीन	120	सोमा सुखराम	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	10	--	121	मिश्रीबद्ध हीरा	132	जावेद शेर मोहम्मद	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	11	--	133	मूलचंद हीरालाल	154	चम्पालाल वनसिंग	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	12	--	155	सुखलाल जुल्मा	168	रामा सावत	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	13	--	169	करीमखां शमशेरखां	193	जमनाबाई बुद्ध	अनारक्षित महिला
पंच	14	--	193ख	शिवलाल भाउ	205ख	रामरतन शिवराम	अनारक्षित महिला
पंच	15	--	206	रामकिशन कालू	222	विरजू खानू	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	16	--	223	लक्ष्मण सुखराम	236	कुर्बान रमजान	अनुसूचित जाति महिला
पंच	17	--	237	हनीफ घंघुखां	253	संतारखां सिकदारखां	अनारक्षित
पंच	18	--	254	नसरुउदीन बिल्लू	अंततक	जावेदशाह जालिमशाह	अनारक्षित

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत प्रतापपुरा खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)				आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से	मकान नम्बर तक			
1	2	3	4	5	6		
सरपंच	—	प्रतापपुरा	—	—	अनारक्षित		
पंच	1	--	1	रेवाशंकर लक्ष्मीनारायण	12	रामदास रामेश्वर	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	2	--	13	प्रेमबाई हीरालाल	28/1	ब्रजलाल बुद्ध	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	3	--	28/2	नर्मदाप्रसाद बुद्ध	41	रामजी आत्माराम	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	4	--	42	मथुराबाई रामाजी	54/1	हरनारायण मोहनलाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	5	--	56	जगदीश राजाराम	74	कमलसिंह परसराम	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	6	--	74/1	गुलाब परसराम	84/1	रघुराजसिंह बरजोर	अनारक्षित महिला
पंच	7	--	85	पिटूबाई साबूलाल	92/2	शंकर मोतीलाल	अनारक्षित
पंच	8	गोपालपुरा	1	शंकरलाल जागेश्वर	14	गुलाबसिंग जगन्नाथ	अनारक्षित
पंच	9	--	15	शारदाबाई मांगीलाल	27	रामाधार भाउ	अनुसूचित जाति महिला
पंच	10	--	28	फुतलबाई बोंदर	38ख	लाडकीबाई सुरेश	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	11	--	40	कृष्णाबाई रामनाथ	56	सोनाबाई लखनलाल	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	12	--	56क	दयाराम मल्लू	72	फगनू मोती	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	13	--	72ख	रामाधार बालचंद	91क	भगवानसिंह रामकरण	अनारक्षित महिला
पंच	14	--	92	राधेश्याम रामलाल	105	शांतिलाल श्यामलाल	अनारक्षित
पंच	15	भवरदी	1	हरिशंकर शिवप्रसाद	25	रविशंकर ताराचंद	अनुसूचित जनजाति मुक्त

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत जूनापानीभवरदी खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना हे (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)						आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/ अनारक्षित/अनारक्षित महिला
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
1	2	3	4		5		6
सरपंच	—	जूनापानी भवरदी	—		—		अनारक्षित महिला
पंच	1	—	1	ब्रजलाल	15/2	रामरतन	अनुसूचित जाति महिला
पंच	2	—	18	भगवानदास	30	श्रीराम	अनारक्षित
पंच	3	—	30/1	रमाबाई	48	चिरोजी	अनारक्षित महिला
पंच	4	—	49	समोतीबाई	60	रामकरण	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	5	—	61	सोमा	77	आत्माराम	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	6	—	77/2	परसराम	94/1	मांगीलाल	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	7	—	94/2	बुदियालाल	107	रमेश	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	8	—	108	गोदालाल	119	अनिल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	9	—	119/1	शंकर	139	कोदर	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	10	—	140	मनोहरी	156	ओमप्रकाश	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	11	भवरदी रैयत	1	दल्ला	15	रामप्रसाद	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	12	—	16	भागीरथ	27	नारायण	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	13	—	28	किशोरी	40	अंततक	अनुसूचित जनजाति मुक्त

1	2	3	4	5	6		
पंच	3	---	32	शिवचरण लछीराम	49	लक्ष्मीबाई आनंदसिंग	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	4	---	50	दशरथ मंगू	70	सैवंतीबाई सियाराम	अनारक्षित
पंच	5	लाल्याचापड़	1	संताराम कन्हैया	10	सावित्रीबाई शैतानसिंग	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	6	---	11	समियाबाई राजाराम	207	कल्लु मीरालाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	7	रिछाडिया	1	परसराम बाबू	11क	अशोक हरलाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	8	---	12	मोती भूरा	21क	सायसिंग मेवालाल	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	9	---	22	राजाराम बाटू	35	रेखाबाई	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	10	---	36क	गेदालाल मंगल	45	सुरेश सरदार	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	11	ननीमकडाई	1	रामकेवल छोटेला	15	फत्तूबाई मोतीराम	अनारक्षित महिला
पंच	12	---	16	रामदयाल हीरालाल	29	मगरायबाई नानकराम	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	13	---	30	चतरू सालकराम	40	मुगनीबाई गुलाबदास	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	14	---	41	राजाराम पेचला	52	पार्वतीबाई शिवराम	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	15	---	53	कुंजीलाल सोमा	66	मुगनीबाई सकिराम	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	16	सोनपुरा	1	सुकराम मांगीलाल	10	ज्योतिबाई जागेश्वर	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	17	---	11	गगाराम बुद्ध	19	रुखमणीबाई रामशंकर	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	18	---	20	रूपायबाई स्यानु	29	नर्बदीबाई नाथूराम	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	19	---	30	बाबूलाल हीरा	52	सुनिता भूरु	अनुसूचित जनजाति मुक्त

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत चिकलपाट खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)				आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से	मकान नम्बर तक			
1	2	3	4	5	6		
सरपंच	—	चिकलपाट	—	—	अनारक्षित		
पंच	1	---	1/1	तुलसीराम बुद्ध	14/2	मोतीराम	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	2	---	16	पतिराम	28/1	गेदलाल	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	3	---	28/2	सुकलाल	45	पार्वतीबाई	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	4	---	46/1	काशीप्रसाद	56	शोभाराम	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	5	---	57	खेमा	72	समोतीबाई	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	6	गेनाढाना	1	सोखीलाल बाबूलाल	14	पूनम	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	7	---	15	सुखराम बाबूलाल	27	भागीरथ	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	8	---	28	अनोखीलाल	40	मुन्ना	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	9	---	41	श्यामलाल	56	देवीसिंह	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	10	सुंदरपानी	1	सुन्दरबाई	14	सूरज	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	11	---	15	विसायबाई	24	रामकिशन	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	12	---	25	नाथूराम	45	शिवलाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	13	---	46	मोतीलाल	63	नेहाललाल	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	14	कुभीखेड़ा	1	सोमा	17	देवा भगन	अनारक्षित महिला
पंच	15	---	18	आलमसिंह	36	नत्थू साल्कू	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	16	---	37	मुन्ना सोमलाल	47	पाण्डू खानू	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	17	---	48	सुकशम	67	मांगीलाल हीरालाल	अनुसूचित जनजाति मुक्त

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत कुकड़ापानी खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)				आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से	मकान नम्बर तक	
1	2	3	4	5	6
सरपंच	—	कुकड़ापानी	—	—	अनारक्षित महिला
पंच	1	—	1 दादू गंदू	16 छोटेलाल बुद्ध	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	2	—	17 रूपाय बोदर	29 गंगाबाई गोविन्द	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	3	—	30 धिरोजीलाल राजाराम	41 मुंशी गंगाराम	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	4	—	42 नन्धू कडमा	52 चम्पालाल सुखराम	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	5	—	54 रामकरण मंगल	69 श्रीराम गेदालाल	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	6	—	70 चम्पालाल खातू	83 जीबू गंगाराम	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	7	—	84 मोती सालकराम	96 रूखीबाई	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	8	—	97 सोमा सालकराम	107 भूरा ओंकार	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	9	—	108 घासीराम खानू	122 मुकेश बुद्ध	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	10	भीमपुरा	1 सोमा मन्नु	9 गंगाबाई सुखराम	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	11	—	10 सुक्कू कुंजी	22 रूपाय ओंकार	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	12	—	23 मोती गूगा	36 धर्मात कालू	अनारक्षित महिला
पंच	13	—	38 मगायबाई बासू	51 सुखराम कालू	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	14	लफांगढाना	1 समोती चम्पालाल	10 साबूलाल गंगाराम	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	15	—	11 तेजराम बाबूलाल	26 सोमलाल गंगाराम	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	16	—	27 रामा जयतू	36 भोजूलाल बाबू	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	17	—	37 ओंकार जयतू	48 ज्ञानसिंग मंशाराम	अनुसूचित जनजाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत सोमगांवकलां खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)				आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से	मकान नम्बर तक	
1	2	3	4	5	6
सरपंच	—	सोमगांवकलां	—	—	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	1	—	3/2 अनिता दिनेश	24 निर्भयदास रामकरण	अनुसूचित जाति महिला
पंच	2	—	25 जुगलकिशोर तेजराम	35 राधेश्याम	अनारक्षित महिला
पंच	3	—	36 गणपत मांगीलाल	53 मांगीलाल सुखराम	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	4	—	54 गुलाब चैनसिंग	70 परसराम सीताराम	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	5	—	71 निर्मला अनोखी	95 परसराम मुंशी	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	6	—	96 निर्मला रतन	119 दुरपता नानकराम	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	7	—	120 हरिशंकर साबूलाल	139 राधेश्याम हीरालाल	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	8	—	140 अशोक	159 सुंदर कोमल	अनारक्षित
पंच	9	—	160 देवीसिंग रामलाल	174 निर्भयदास मांगीलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	10	—	175 निर्भयदास गेदालाल	185 रामाधार तेजराम	अनारक्षित
पंच	11	—	187 मंगेश बिहारी	202 अनार रामप्रसाद	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	12	—	203 रामलाल पून्या	740 लक्ष्मण	अनारक्षित

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत आमासेल खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)					आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
1	2	3	4		5	6	
सरपंच	—	आमासेल	—		—	अनुसूचित जाति महिला	
पंच	1	—	1	तेजराम मोहनलाल	16	लक्ष्मीबाई	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	2	—	17	राजेश	37	इमरतलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	3	—	38	सावित्रीबाई	53ख	प्रताप	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	4	—	54	राधामोहन	68	नत्थू	अनारक्षित
पंच	5	—	69	बसकरबाई	85	गरीबदास	अनारक्षित
पंच	6	—	86	शिवप्रसाद	111	समोता	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	7	—	112	दिनेश	131	रमेश	अनुसूचित जाति महिला
पंच	8	—	132	रामबाई	150	कोमलराम	अनुसूचित जाति महिला
पंच	9	—	151	रामप्रसाद	170	रामकुवर	अनारक्षित महिला
पंच	10	—	171	गुलाबबाई	184	रामकेशन	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	11	—	186	लखनलाल	196	रमेश	अनारक्षित महिला
पंच	12	—	197	गुलाबसिंह	208	पन्नालाल	अनारक्षित
पंच	13	—	209	कमलाबाई	225	रामबाई	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	14	—	226	शिवराम	242	मांगीलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	15	—	243	नर्मदाप्रसाद	263घ	दिनेश	अनारक्षित महिला
पंच	16	—	264	हरीराम	270	हरीप्रसाद	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	17	—	271	सुंदरलाल	284	धनजी	अनारक्षित
पंच	18	—	284/1	निर्मलसिंह	393	रघुवीर	अनुसूचित जनजाति मुक्त

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत खुदिया खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)					आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
1	2	3	4		5	6	
सरपंच	—	खुदिया	—		—	अनुसूचित जाति महिला	
पंच	1	—	1	कैलाश छोटैनाथ	20/2	धिरोजी सालकराम	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	2	—	21	जुगर रामप्रसाद	47/2	गजाधर सालकराम	अनारक्षित
पंच	3	—	48/2	मथर अनूप	63	रमेश जोखीलाल	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	4	—	64	सागरबाई रमाधार	83	ग्यारसी रामप्रसाद	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	5	—	85	शुरिया जागेश्वर	98	शंकर गंगाराम	अनुसूचित जाति महिला
पंच	6	—	99/1	राममरोष गंगाराम	118/3	मांगीलाल छीतर	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	7	—	119	संतोष गंगाविशन	139	कुसुम सुरेश	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	8	—	141	सुमंत्रा लक्ष्मण	157/2	मयाराम कन्हेयालाल	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	9	—	158	लक्ष्मीनारायण रामेश्वर	172	रमेश रामेश्वर	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	10	—	173	शिवनारायण रामेश्वर	187/2	बसंती बलराम	अनारक्षित
पंच	11	—	189	गोविन्द बाबूलाल	200क	आधार मूलया	अनारक्षित महिला
पंच	12	—	201	लाडली शिवप्रसाद	215	रुखमणी पूनम	अनारक्षित

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत सिराली खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)					आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
1	2	3	4		5	6	
सरपंच	—	सिराली	—		—	अनारक्षित महिला	
पंच	1	—	1	फकीरचंद भागीरथ	44 ड	गायत्री अनारसिंग	अनारक्षित महिला
पंच	2	—	45	सरोज नर्मदाप्रसाद	92	शारदा ताराचंद	अनारक्षित महिला
पंच	3	—	93	रामनाथ शिवप्रसाद	141/1	अनिता गोकुल	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	4	—	142	संतोष मोतीराम	184	कैलाश हरेसिंह	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	5	—	185	धन्नालाल नाथूराम	236	सुषमा भारत	अनुसूचित जाति महिला
पंच	6	—	237	कोकिला नर्मदाप्रसाद	282	चन्द्रिका हरदराम	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	7	—	284	ओंकारपद्माद रामरतन	322/6	कविता सियाराम	अनारक्षित
पंच	8	—	322/8	कैलाश मन्नालाल	362	सायराबानो आजादखान	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	9	—	363	सत्यनारायण मिठूाल	393	ममताबाई सर्वेश	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	10	—	396	लोकेश बालकृष्ण	435क	सविता केशवप्रसाद	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	11	—	436	रामदास गोपाल	466	छाया दीपक	अनारक्षित महिला
पंच	12	—	466	बालाराम सुखराम	516	दिव्या प्रवीण	अनारक्षित
पंच	13	—	516	हुकुमचंद रंगलाल	561	किर्ती विजय	अनारक्षित
पंच	14	—	563	कैलाश नाथूराम	609	दिनेश भारत	अनारक्षित
पंच	15	—	611	कुंजीलाल चतरया	648/1	फरीदखान फारूख	अनारक्षित
पंच	16	—	648/2	मुबारिक अमीरखान	684	नामजीन इस्ताख	अनारक्षित महिला
पंच	17	—	685	इस्माईल अहमीद	731	आकांक्षा योगेश	अनारक्षित महिला
पंच	18	—	732	गरीबदास मोतीराम	784	क्षमा अशोक	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	19	—	784	शिवप्रसाद बाबूलाल	808	पायल विजय	अनारक्षित
पंच	20	—	809	गोविन्द अमरसिंह	878	अनिता हरिराम	अनुसूचित जनजाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत मुहाड़िया खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)					आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
1	2	3	4		5	6	
सरपंच	—	मुहाड़िया	—		—	अनुसूचित जनजाति महिला	
पंच	1	—	1	प्रहलाद	18क	दुर्गाप्रसाद	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	2	—	19	जयनारायण	31	विजयसिंह	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला

1	2	3	4	5	6		
पंच	3	--	32/1	राकेश	45/2	सोहन	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	4	--	46	कलीराम	58	गुलखीबाई	अनुसूचित जाति महिला
पंच	5	--	59	दुर्गाप्रसाद	73	चन्द्रगोपाल	अनारक्षित
पंच	6	--	74	कोमल	92	शिवप्रसाद	अनारक्षित महिला
पंच	7	--	93	केशर	99/3	लक्ष्मीनारायण	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	8	--	100	पन्नालाल	109	ईमरतीबाई	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	9	--	110	लालू	119	निर्मलाबाइ	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	10	--	120	भागवत	138	गोदावरी	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त
पंच	11	--	144क	माखनसिंह	159	बाबूलाल	अनारक्षित महिला
पंच	12	बंदी	1	कृपाबाई	9	दगडू	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त
पंच	13	--	9/1	दिनेश	23	रणछोड	अनुसूचित जाति महिला
पंच	14	घोघड़ाखुर्द	1	सुरेश	12	राजेश	अनारक्षित
पंच	15	--	12/1	रामाधार	26	नर्मदीबाई	अनारक्षित

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत महेन्द्रगांव खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)				आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछडा वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से	मकान नम्बर तक			
1	2	3	4	5	6		
सरपंच	--	महेन्द्रगांव	--	--	अनुसूचित जनजाति मुक्त		
पंच	1	--	1	विष्णु	14	बद्रीप्रसाद	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त
पंच	2	--	16	रामाधार	38	मांगीलाल	अनारक्षित
पंच	3	--	41	विष्णु	73	माखन	अनारक्षित
पंच	4	--	79	वत्सला	98	सावित्री	अनुसूचित जाति महिला
पंच	5	--	100	रेवाराम	125	ओमप्रकाश	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	6	--	128	परसराम	150	संतोष	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	7	--	151क	महेश रामबक्श	173	शिवराम	अनारक्षित
पंच	8	--	178/1	रामाधार	191/3	रामभरोष	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	9	--	193/1	शिवनारायण	212	सुशीला	अनारक्षित महिला
पंच	10	--	214/1	सोहन	235/2	रघुवीर	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	11	--	240/1	जोखीलाल	258	मांगीलाल	अनारक्षित महिला
पंच	12	--	259	धनराज	281	हरिशंकर	अनारक्षित
पंच	13	चौकडी	282/1	लक्ष्मीनारायण रामचरण	21	रामविलास हरिराम	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त
पंच	14	खुटवाल	1	कैलाश	11	राधू किशोरी	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	15	--	12/2	महेश मंगल	21/4	मांगीलाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	16	बाबड़िया	3	सरजू रामदास	15	कोकिला घासीराम	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	17	--	17	अनोखी	25	प्रहलाद	अनुसूचित जाति महिला
पंच	18	--	26	बाबूलाल	38/1	कमलकांत	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	19	--	39/1	गोकुल	54/1	निर्भयदास भीकाजी	अनारक्षित
पंच	20	--	55	लक्ष्मीनारायण नत्थू	539क	घासीराम मांगीलाल	अनुसूचित जनजाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत मकड़ाई खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)					आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
1	2	3	4		5	6	
सरपंच	—	मकड़ाई	—		—	अनुसूचित जनजाति मुक्त	
पंच	1	—	1	रतिराम मितापसिंग	18/1	भूपेन्द्र शाह	अनारक्षित
पंच	2	—	20	हकीमाबी		रंजना अनिल	अनारक्षित महिला
पंच	3	दुगालिया	1	सीटू बाबू	17/1	सुकिया तुलसी	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	4	—	18	हरेसिंह दशरथ	34	मांगीलाल चिरोजी	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	5	दृगपालपुर	1	रविकुमार पूनम		रामाधार	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	6	भुराली	1	रामेश्वर शिवलाल	10	हरोलीबाई	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	7	—	11	मांगीलाल दादू	32	जयश्री	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	8	पीपलपानी	1	पार्वतीबाई	49	सुखलाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	9	—	59	इशाकशाह अहशान	118/1	हरिसिंह नत्थू	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	10	वारानाला	1	लीलाबाई		मीरा मंगलू	अनुसूचित जनजाति मुक्त

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत सावंरी खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)					आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
1	2	3	4		5	6	
सरपंच	—	सावंरी	—		—	अनुसूचित जनजाति मुक्त	
पंच	1	—	1	दादू राजराम	22/2	जमनाबाई रामसिंह	अनारक्षित
पंच	2	—	23	सीताराम बाटू	38/2	बाबू मन्डू	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	3	—	39	भोया रोहणा	47/1	राजाराम पटेल	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	4	—	48/2	भोमका टोगे	58	नानीबाई रिंगा	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	5	झिरपी	1	जलील महाजन	16	अनोखी दीपालाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	6	—	17	सामू भाउ	29/2	गोपाल सुखराम	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	7	—	30/1	काली नाथूराम	47/2	विश्राम जिराती	अनुसूचित जनजाति महिला

1	2	3	4	5	6		
पंच	8	—	49	भारत रतन	66/1	मोतीराम पटेल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	9	बासीगढ	1	हजारीलाल भायलू	12	राजाराम शिवलाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	10	—	13	भुदली ओंकार	66	मीराबाई मगलू	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	11	आरया	1	सालकराम बालू	20	नत्थू तुमला	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	12	—	21	लाला तुमला	57	रतनलाल साबूलाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	13	कालाकहू	1	आशाराम ओंकार	15	सोनईबाई चुन्नीलाल	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	14	—	16	गोपीकिशन भोग्या	29	नर्मदाप्रसाद रामेश्वर	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	15	—	31	नत्थू भग्गा	44	परसराम बाबूलाल	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	16	—	45	साबूलाल सीताराम	55	बलीराम हीरालाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	17	—	56	गंगाराम हीरालाल	63/3	मांगीलाल बरजू	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	18	खारी	1	जुगरीबाई गजराज	11	कमलाबाई कमलसिंह	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	19	—	12	जागेश्वर सोमू	24	कल्लू दुर्ग	अनारक्षित महिला
पंच	20	—	25	बाबूलाल मुंशी	59	गुलाबसिंग गेदालाल	अनारक्षित

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत जामुखो खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)					आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछडा वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग महिला/ अनारक्षित/अनारक्षित महिला	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
	1	2	3	4	5		
सरपंच	—	जामुखो	—		—	अनारक्षित महिला	
पंच	1	—	1	छोटू दादू	10	हरेराम कालू	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	2	—	11	केसू भाउ	18	शिवराम धन्नु	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	3	—	19	परसू जंगू	26	राजू रामगोपाल	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	4	—	27	गजरी सबूदार	33	सददू लक्ष्मण	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	5	—	33क	जासोबाई नंदूराम	36 ड	लखनलाल गजराज	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	6	—	37	रामकरण गगाराम	41	संजू परसू	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	7	—	41क	मनीराम फागू	83/2	अमृतलाल हरसिंह	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	8	मोरतलाई	1	ग्यारसराम रामकिशन	13	श्रवणसिंह मंशाराम	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	9	—	14	लीलाबाई शंकरलाल	21	राधेश्याम रामेश्वर	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	10	मगरया	1	भारतसिंग दशरथ	17	सम्मल सजन	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	11	—		छोटू गोटया		गोरेलाल नीबू	अनुसूचित जनजाति मुक्त

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत गोमगाँव खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)				आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से	मकान नम्बर तक		
1	2	3	4	5	6	
सरपंच	—	गोमगाँव	—	—	अनारक्षित	
पंच	1	—	2ख कयूब ययूब	12	कादरखान कालू	अनारक्षित महिला
पंच	2	—	13 जानू भूरा	26	जगराम रामा	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	3	—	27 केवलराम	40	राधाबाई मोजीराम	अनारक्षित
पंच	4	—	41 विष्णुप्रसाद	51	श्रीकिशन घनश्याम	अनारक्षित
पंच	5	—	52 हुकुमसिंह	62	धन्नु सूरा	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	6	—	63 बालकिशन घासीराम	75	रमजान वसीर	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	7	—	76 जुग्गा वसीर	90	छोटे लाल	अनारक्षित
पंच	8	—	91 राधेश्याम किशन	98	नन्हू	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	9	—	99 रामसिंह	110	रामनिवास	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	10	—	111 नर्मदाप्रसाद		अंततक	अनुसूचित जाति महिला
पंच	11	रामपुरी	1 मोना	11	हीरालाल	अनारक्षित
पंच	12	—	12 माखनलाल	18	रामाधार नंदू	अनारक्षित महिला
पंच	13	—	20 भगवानदास		अंततक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	14	उमरी	1 मनीष कैलाशनाथ	11/2	दादू	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	15	—	12 शोभाराम	21क	काल्या	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	16	—	22 विसराम	38	रमेश	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	17	—	39 शोभाराम	49ख	चंपालाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	18	—	50 हीरा		अंततक	अनुसूचित जनजाति महिला

— मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत जिनवानिया खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)				आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से	मकान नम्बर तक		
1	2	3	4	5	6	
सरपंच	—	जिनवानिया	—	—	अनारक्षित महिला	
पंच	1	—	5 दिनेश बाबूलाल	33/1	शारदाबाई शिवराम	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	2	—	33/2 लक्ष्मण चुन्नीलाल	55/2	शिवनारायण चंदरसिंह	अनारक्षित महिला
पंच	3	—	56 इंदरबाई भागीरथ	86	गणेश शिवकरण	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	4	—	88 गजराजसिंह रामकरण	122/2	लालूप्रसाद रामप्रसाद	अनारक्षित महिला
पंच	5	—	123/2 रामकुंवरबाई रामकिशन	148ग	प्रहलादसिंह बाबूलाल	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	6	—	149/1 द्वारकाबाई नर्मदाप्रसाद	168/1क	गंगाविशन कुंजीलाल	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	7	—	168/1ख साखुबाई रामाधार	181	अमरदास गंगाराम	अनुसूचित जाति महिला

1	2	3	4	5	6		
पंच	8	--	182	राजाराम रामाजी	207/1	प्रेमराज कुंजी	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	9	--	208	किशोरी सीताराम	234/1	रामनाथ शिवदान	अनुसूचित जाति महिला
पंच	10	--	235	भागीरथ सिकदार	257	सुमनबाई राधेश्याम	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	11	--	258/1	नारायणराव श्यामराव	279	अमृतलाल गेदालाल	अनारक्षित
पंच	12	--	280	समोताबाई शंकर	305	मनोहरराव रामाराव	अनारक्षित
पंच	13	--	306	गीताबाई गंगाविशन	328	चंद्रशेखर सालकराम	अनारक्षित
पंच	14	--	329	उमेश भाउ	354	गरीबदास जगन्नाथ	अनारक्षित
पंच	15	--	354/1	श्यामसंदर भागीरथ	366	मथुराप्रसाद कांताप्रसाद	अनारक्षित महिला
पंच	16	--	367	जगदीश रामनारायण	394	ग्यारसराम करसन	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	17	मानपुरा	1	गरीबदास जगन्नाथ	19घ	दिनेश गेदालाल	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	18	--	20	मांगीलाल बाबू	40	शोभाराम रोना	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	19	--	41	सत्यनारायण कुंजीलाल	49/3	राधेश्याम रेवाराम	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	20	--	49/3	शिवलाल मल्लू	अंततक	कमलसिंह विसराम	अनुसूचित जनजाति मुक्त

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत भगवानपुरा खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)				आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछडा वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से	मकान नम्बर तक		
1	2	3	4	5	6	
सरपंच	--	भगवानपुरा	--	--	अनुसूचित जाति मुक्त	
पंच	1	--	1	सरजूबाई गजाधर	13 सुखलाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	2	--	19	शिवनारायण दशरथ	31 रामदास	अनारक्षित महिला
पंच	3	--	32	तुलसाबाई प्रतापसिंग	48 गुलाबबाई गेदलाल	अनारक्षित महिला
पंच	4	--	49	दशरथ गेदालाल	65 पंचम. रामाजी	अनारक्षित
पंच	5	--	66	अर्जुनसिंह पूजराज	84 आत्माराम शोभाराम	अनारक्षित
पंच	6	--	85	जसोदाबाई रामेश्वर	107 हरिराम मांगीलाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	7	--	108	शोभाराम गूंगा	123 विश्राम भूरा	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	8	--	124	गंगूबाई पटेल	146 ब्रजलाल मोहनलाल	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	9	--	147	राजराम गंगाराम	713 मिश्रीलाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	10	बहाड़रैयत	1	हुसैन चुन्नी	20 अब्दुल रफीक	अनारक्षित
पंच	11	--	21	महरूननिशा शेखहुसैन	53 मुबारिकखान	अनारक्षित
पंच	12	बिचपुरीरैयत	1	मोती सीताराम	9 राजाराजा	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	13	--	10	हरिराम	23 कमलसिंह	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	14	बिचपुरी सर.	1	पतिराम सोमा	21 फत्तू मोतीराम	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	15	--	22	रेवाराम फत्तू	47 गेदालाल	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	16	--	48	आशाराम मोती	70 रामसिंह	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	17	--	71	चिरोजीलाल मोना	103 गंगाबाई	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	18	केवलारी	1	अमरसिंह रोहणा	24 राजाराम	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	19	--	26	विश्राम डोगरिया	41 हरेसिंह	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	20	--	66	गोविन्द चंदरसिंह	87 रामदास	अनुसूचित जाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत जटपुरामाल खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होता है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)				आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से	मकान नम्बर तक	
1	2	3	4	5	6
सरपंच	—	जटपुरामाल	—	—	अनारक्षित
पंच	1	—	1 जयनारायण शिवराम	13 दुलारीबाई कुंजीलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	2	—	15 रामप्यारी सीताराम	29 चम्पालाल शिवकरण	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	3	—	32 अरूणाबाई दलसिंह	48 तुलसीराम रामप्रसाद	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	4	—	49 शिवशंकर भागीरथ	60 शिवप्रसाद रामभाऊ	अनारक्षित
पंच	5	—	61 गयाप्रसाद शिवकरण	80 देवीप्रसाद रामप्रसाद	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	6	—	81 कांताप्रसाद रामप्रसाद	97 राधा रामलाल	अनारक्षित
पंच	7	—	98 ओंकार कन्हेया	117 सोमा गगाराम	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	8	—	118 मोतीराम हरिकरण	146 दयाराम मोहनसिंह	अनुसूचित जाति महिला
पंच	9	जटपुरारैयत	1 रामाधर रामभाऊ	18 सेरिया खुबू	अनारक्षित
पंच	10	खेडीमाल	2 चम्पालाल कुंजीलाल	11 ओंकार पन्ना	अनारक्षित महिला
पंच	11	—	12 हरनारायण चैनसिंह	20/6 मुन्नालाल सोमा	अनारक्षित
पंच	12	—	22 ताराबाई नंदू	42 भागीरथ चंदर	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	13	सोनपुरा	1 रामशंकर रामलाल	26 मधुराप्रसाद राम्या	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	14	—	29 घुडया रामेश्वर	41/2 रामकृष्ण राजाराम	अनारक्षित महिला
पंच	15	—	41/3 गोविन्द राजाराम	55/2 जगदीश बटदलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	16	—	57 गुलकीबाई रामाधर	71क चैनसिंह सुखराम	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	17	—	72 जयनारायण साबूलाल	89/3 दानू हीरालाल	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	18	—	90 बुद्धलाल भाऊ	105/1 गुलाबसिंह मंगल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	19	—	106 जयनारायण मंगल	114क दयाराम नाथूराम	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	20	—	114ख शंकरलाल सुखराम	136 गुलाबसिंह बिहारीलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत डेड़गांवमाल खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)				आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से	मकान नम्बर तक	
1	2	3	4	5	6
सरपंच	—	डेड़गांवमाल	—	—	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	1	—	0 राजेश राठौर	20/2 निलाबाई	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	2	—	21 सरजूबाई	39/2 किरणबाई	अनारक्षित
पंच	3	—	41 धीसीबाई	49 अमरदास मुकाती	अनारक्षित
पंच	4	—	51 दुजियाबाई	69 बालाराम	अनुसूचित जाति महिला
पंच	5	—	70 नत्थीबाई	94/1 समोताबाई	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	6	—	95 कल्लू	111/1 रामचंद्र	अनारक्षित महिला
पंच	7	—	111/2 रामदयाल	124/1 हरकिशन	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	8	—	125/2 ओमप्रकाश	149 हरेराम	अनारक्षित महिला
पंच	9	—	151 हेमराज	170 प्रेमनारायण	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	10	दामोदरपुरा	1/2 मोहन	11/4 गंगाप्रसाद	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	11	—	12/1 शकुबाई	19/1 सुखदेव	अनारक्षित
पंच	12	—	19/2 गंगाविशन	31 मोहन	अनारक्षित

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत डोलगांवकलां खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)				आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से	मकान नम्बर तक	
1	2	3	4	5	6
सरपंच	-	डोलगांवकलां	-	-	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	1	--	1 चंपालाल केशव	13 चैनसिंह	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	2	--	14 जयनारायण घासीराम	33क रामविलास	अनारक्षित
पंच	3	--	34 लक्ष्मीबाई	49 ब्रजलाल	अनारक्षित महिला
पंच	4	--	50 किशोरी	64/1 ओमप्रकाश	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	5	--	66 धनराज	81 प्रहलाद रतनलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	6	--	82 सुभद्रा	98/1 सुशिला जगदीश	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	7	--	98क सुमंत्रा	118 कमलाबाई सुखराम	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	8	--	119 कुसुमबाई	145 नर्मदाप्रसाद	अनारक्षित
पंच	9	बेड़ियाखुर्द	1 लक्ष्मीनारायण चम्मालाल	16 शांताबाई	अनुसूचित जाति महिला
पंच	10	--	17 संतोष	32 सुरेश रामेश्वर	अनारक्षित
पंच	11	--	34/1 आशाराम	44 शिवनारायण	अनारक्षित महिला
पंच	12	--	45 अमरसिंह	73 गोदू राजाराम	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	13	--	74 सोमा	99 जागेश्वर	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	14	डोलगांवखुर्द	1 रामकिशन कन्हेया	13 भगवानसिंह	अनारक्षित महिला
पंच	15	--	14 भागवतसिंह	30 अजबसिंह	अनारक्षित
पंच	16	--	31 अंतरबाई	46 मनोज राधेश्याम	अनारक्षित महिला
पंच	17	--	47 लक्ष्मीबाई	59 मांगीबाई गरीबा	अनारक्षित
पंच	18	--	60 सखाराम	72 हरिप्रसाद	अनारक्षित महिला
पंच	19	--	73 गिरीशकुमार	88 लक्ष्मीनारायण भागीरथ	अनारक्षित
पंच	20	--	89 रामदास	109 मोहनलाल कन्नू	अनुसूचित जाति मुक्त

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत पहटकलां खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)				आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से	मकान नम्बर तक	
1	2	3	4	5	6
सरपंच	-	पहटकलां	-	-	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	1	--	1 शंकरलाल बालाराम	13 धन्नु नल्थू	अनारक्षित महिला
पंच	2	--	14 जसवंत नाथूराम	35 त्रिवेणी बट्टी	अनारक्षित महिला
पंच	3	--	36 हरिओम राजाराम	48 कमलसिंह नल्थू	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	4	--	49 तुलसीराम बाबूलाल	64 परसराम सीताराम	अनुसूचित जाति महिला
पंच	5	--	65 जल्लाद राजाराम	87 फुलबाई रामेश्वर	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	6	--	87 उमेदसिंह मांगीलाल	107 सुमित्रा शिवराम	अनारक्षित

1	2	3	4	5	6		
पंच	7	—	108	भागवती रामेश्वर	118	राधाबाई रामलाल	अनारक्षित
पंच	8	—	119	अनोखीलाल हरनारायण	130	भारत फत्तू	अनारक्षित
पंच	9	—	131	जयनारायण रामदास	149	गोकुल रामकिशन	अनारक्षित
पंच	10	—	152	सीकू भीका	163	रामलाल हरकिशन	अनारक्षित महिला
पंच	11	—	165	बाबूलाल रामप्रसाद	179	रूपकुंवर लखीसिंह	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त
पंच	12	—	181	दलसिंग रामकरण	199	मयाराम रामलाल	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	13	—	200	दयाराम रामलाल	212	मोहन काशीराम	अनारक्षित महिला
पंच	14	—	213	सुरेश रनछोड	228क	ताराचंद रामेश्वर	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	15	—	229	मांगीलाल प्रहलाद	239	शिवशंकर फत्तू	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	16	—	240	अजुध्याबाई गिरधारी	260	पवन हंसराज	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत बाबड़िया खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)					आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछडा वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
1	2	3	4		5	6	
सरपंच	—	बाबड़िया	—		—	अनारक्षित महिला	
पंच	1	—	1	शिवचरण	17	सूरजसिंह	अनारक्षित
पंच	2	—	19	गंगाराम	40	रुखमणी	अनुसूचित जाति महिला
पंच	3	—	41	रामदास	45	किशोर	अनारक्षित महिला
पंच	4	—	50	पारुबाई	65	हरिराम	अनारक्षित
पंच	5	—	66	बरजोर	81	शेराबाई	अनारक्षित महिला
पंच	6	—	82	दयाराम	100	रामप्रसाद	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	7	—	101	राजूबाई	118	सुशिला	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	8	—	119	बदाम	142	मांगीलाल	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	9	—	143	छोटेला	148	रामशंकर	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	10	—	149	चम्पालाल	165	देवराज जोशी	अनारक्षित
पंच	11	जूनापानी	1	रामेश्वर	15	भैयालाल	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त
पंच	12	—	16	श्रीकिशन	199	राधाकिशन	अनारक्षित

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत रामपुरा खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)				आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से	मकान नम्बर तक			
1	2	3	4	5	6		
सरपंच	—	रामपुरा	—	—	अनुसूचित जनजाति महिला		
पंच	1	—	1/1	मूलचंद गोदालाल	10	जगदीश रामसिंह	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	2	—	12	मनोहर रामसिंह	26	रामभाउ गुमान	अनुसूचित जाति महिला
पंच	3	—	27/1	कालूराम बाबूलाल	42	महेश केश्या	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	4	—	43	जुगारबाई जागेश्वर	54/1	राधाकिशन रामप्रसाद	अनारक्षित महिला
पंच	5	—	54/2	गंगाकिशन आधारसिंह	59	धापूबाई प्रहलाद	अनारक्षित महिला
पंच	6	—	60	सलीमखां रसूलखां	70/1	फैजू राजबक्श	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	7	—	70/2	शब्बीरखां दिलदारखां	78ख	आजादखां	अनारक्षित महिला
पंच	8	—	78ग	सुमंत्राबाई रतनलाल	83	महेशचंद बाजूलाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	9	—	83/3	मधुसूदन महेशदास	97	किशोरसिंह शिवकारण	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	10	—	98	संतोष गुलाब	106	संतोषसिंह गुलाबसिंह	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	11	—	107	हरनाथ लक्ष्मण	115/2	किशोरसिंह प्रहलाद	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	12	गोमगांववली	116	विजयसिंह रामेश्वर	3	रघुनाथ फत्तू	अनारक्षित
पंच	13	विक्रमपुरकलौ	1	किशोरसिंह जगन	9/2	भगवान चम्पालाल	अनारक्षित
पंच	14	—	10/1	मांगीलाल भगन	16	प्रेमनारायण बाबूलाल	अनारक्षित
पंच	15	—	17	बाबूलाल रामलाल	27	शिवप्रसाद प्रहलाद	अनुसूचित जाति महिला
पंच	16	—	28	रामोतार जगन्नाथ	38	किशन डालू	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	17	—	38/1	रामजीवन रामाधार	49/1	ब्रजलाल बाबूलाल	अनारक्षित
पंच	18	—	49/2	उमशसिंह बाबूलाल	62	भगवान गोपाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	19	—	63	संतोष किशोर	77	जगदीश रामबक्श	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	20	—	81	शिवप्रसाद रामदीन	102	सीताबाई मांगीलाल	अनुसूचित जनजाति मुक्त

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत मरदानपुर खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)				आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से	मकान नम्बर तक			
1	2	3	4	5	6		
सरपंच	—	मरदानपुर	—	—	अनुसूचित जनजाति महिला		
पंच	1	—	1	कमलाबाई श्रीकिशन	15	मांगीलाल विंदा	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	2	—	18	रमेश मोहन	37	जयकिशन रामगोपाल	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला

1	2	3	4	5	6		
पंच	3	--	38	राधानारायण	54	संतोष मंशाराम	अनारक्षित महिला
पंच	4	--	55	गंगाविशन नन्हू	65	ईश्वरदास रामहेत	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	5	--	66	रामाधार रामचंद्र	82/1	अमृतलाल रामविलास	अनुसूचित जाति महिला
पंच	6	--	82/2	गुलकी राजाराम	105	रामौतार बहादर	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	7	धूपकरण	1	कमलसिंह भीमसिंह	14	रामनाथ बाबूलाल	अनारक्षित
पंच	8	--	15	कमला जगन्नाथ	35	देवीसिंह गंगाराम	अनारक्षित
पंच	9	--	36	दम्भू जगन	56	प्यारेलाल पन्ना	अनुसूचित जाति महिला
पंच	10	--	57	केवलराम कन्हैया	72	शंकरलाल ताराचंद	अनुसूचित जाति महिला
पंच	11	--	72क	सालकराम गोकुल	88	सूरजसिंह गुलाबसिंह	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त
पंच	12	--	89	भगवानसिंह प्रहलाद	121	अमराबाई हरनारायण	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	13	पंधानिया	1	किशनलाल हरिप्रसाद	21	रामदास बलीराम	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	14	--	22	जयकिशन गिरधारी	51	गंगादीन हजारीलाल	अनुसूचित जाति मुक्त

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत पीपल्याभारत खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)				आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछडा वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से	मकान नम्बर तक			
1	2	3	4	5	6		
सरपंच	--	पीपल्याभारत	--	--	अनुसूचित जनजाति मुक्त		
पंच	1	--	1	कन्हैया	14/1	संध्या	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त
पंच	2	--	14/2	जरसू	29/1	कल्पना	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	3	--	30	शौभाराम चंदर	38/1	रामाबाई	अनारक्षित महिला
पंच	4	--	38/2	आत्माराम	48	विमला	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	5	--	49	राधाकिशन करणसिंह	61	कोकिला	अनारक्षित
पंच	6	--	62	शेराबाई अजबसिंह	70	उदय	अनारक्षित महिला
पंच	7	--	71	अरुणा	106	हजारी	अनारक्षित
पंच	8	काकडकच्छ	1	भगवान	18/3	सोहनलाल	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त
पंच	9	--	19/1	किशोरीसिंह बंदीप्रसाद	24/2	वीरसिंह	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	10	--	25/1	कलीबाई गंगाराम	37	लालसिंह	अनारक्षित
पंच	11	तिमाचा	1	गेदालाल लच्छीराम	30	ज्योति	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	12	लोनी	1	सुशीलाबाई चैनसिंह	8	रिंकी	अनारक्षित
पंच	13	--	10	बाबूलाल रतन	24	अमावती	अनुसूचित जाति महिला
पंच	14	--	25/2	फत्तूखा कादरखा	43	माया	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	15	--	44	शांताबाई भगवानसिंह	60	अरविंद	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	16	--	61	सालकराम रामप्रसाद	81	जितेन्द्र	अनुसूचित जाति महिला
पंच	17	--	82	भागवतसिंह गेदालाल	89	संगीता	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	18	--	90	गंगाविशन छीतर	102	शर्मिला	अनारक्षित महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत बारंगी खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण						आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)
	(केवल पंच के निर्वाचन के लिए)						
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
1	2	3	4		5		6
सरपंच	—	वारंगी	—		—		अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	1	—	1	चंद्रभागा पन्नालाल	16/3	नबूबाई सुरेशसिंह	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	2	—	18	शारदा रामकिशन	30	ममता रामदास	अनारक्षित
पंच	3	—	31	कबीरदास	60	रामलाल	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	4	—	63/1	रामाधार	82	गिरजा	अनुसूचित जाति महिला
पंच	5	—	83	वंदना	100	सुमेर	अनारक्षित महिला
पंच	6	—	101	रामेश्वर	117	सुनिता	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	7	—	118	सुभाष	130	राधाबाई	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	8	—	130	ड अमरदास	147	मनीष	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	9	—	148	बसंतीबाई	745	भजनलाल	अनारक्षित
पंच	10	कमताड़ी	1	भागीरथ	23	दिपिका	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	11	—	24	शहीदखां	40	जयाबाई	अनारक्षित महिला
पंच	12	—	40/1	आनंद	59	आमीन	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	13	—	60	समीमखां	78	उमेश	अनारक्षित
पंच	14	—	78	क दातारसिंह	132	इस्लामखां	अनुसूचित जाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत पाहनपाट खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण						आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)
	(केवल पंच के निर्वाचन के लिए)						
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
1	2	3	4		5		6
सरपंच	—	पाहनपाट	—		—		अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	1	—	1	दयाराम	21	मांगीलाल	अनुसूचित जाति महिला
पंच	2	—	22	मदनलाल	33/3	श्यामलाल	अनारक्षित
पंच	3	—	34	शंकरलाल	48	घासीराम	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला

1	2	3	4	5	6		
पंच	4	--	50	गणपत	59	आधारसिंग	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त
पंच	5	--	60	भारतसिंह	74	उमाबाई	अनारक्षित महिला
पंच	6	--	75	कन्हैयालाल	83/4	रामनारायण	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	7	--	84	चम्पालाल	94/2	दिनेश कुमार	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	8	--	95/2	भीमसिंह	109/3	बलीराम	अनारक्षित
पंच	9	--	110	जगदीश	126	भवरबाई	अनारक्षित
पंच	10	--	127	लक्ष्मीनारायण	150	चम्पालाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	11	--	153	गजराज	166	रामकृष्ण	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	12	--	167	मांगीलाल		अंततक	अनारक्षित

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत कुड़ावा खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)				आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछडा वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से	मकान नम्बर तक			
1	2	3	4	5	6		
सरपंच	--	कुड़ावा	--	--	अनुसूचित जनजाति मुक्त		
पंच	1	--	2/1	गजराज रामगोपाल	25	शांतराम रामाजी	अनारक्षित महिला
पंच	2	--	27	मुकेशसिंह गुलाबसिंह	41	संतोष मांगीलाल	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	3	--	43	अमरसिंह रामलाल	57/1	शेरसिंह जगन	अनारक्षित
पंच	4	--	57/2	शिवनारायण राजाराम	73	हरिसिंह रेवाजी	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	5	--	74	दौलतसिंह दयाराम	92/1	देवीसिंह रामेश्वर	अनारक्षित
पंच	6	--	92/2	हरेसिंह रामेश्वर	114	रेवाराम जागेश्वर	अनारक्षित महिला
पंच	7	--	115	राधेश्याम जागेश्वर	126/3	राधेश्याम रामकरण	अनुसूचित जाति महिला
पंच	8	--	126	रेवाराम शिवलाल	145/1	लक्ष्मीनारायण शिवप्रसाद	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	9	--	145/2	अमरसिंह शिवप्रसाद	167/2	सत्यनारायण दलसिंह	अनुसूचित जाति महिला
पंच	10	--	168	गोविन्द बाबूलाल	178/2	मुकेश सेवाराम	अनारक्षित
पंच	11	--	179/1	रामहेत लक्ष्मीनारायण	197/2	हब्बू मोहन	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त
पंच	12	--	197/3	रमेश नंदू	214	भागवत जगन्नाथ	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	13	--	216	जयसिंह भीकाजी	231/3	रामनिवास अजबसिंह	अनारक्षित महिला
पंच	14	--	232	यशवंत गगाराम	254/1	कृष्णकांत भगवान	अनारक्षित
पंच	15	--	254/3	शिवनारायण दलसिंह	277	संतोष मांगीलाल	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त
पंच	16	--	277/4	फत्तू कुंजीलाल	290	प्रेमेश्वर नर्मदाप्रसाद	अनारक्षित महिला
पंच	17	मुहालखुर्द	292	दयाराम शिवचरण	341	नरेन्द्र शिवनारायण	अनुसूचित जनजाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत पीपल्याखुदिया खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)					आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
	1	2	3	4	5		6
सरपंच	—	पीपल्याखुदिया	—		—	अनुसूचित जनजाति मुक्त	
पंच	1	—	1	बाबूलाल	20ख	नारायण	अनुसूचित जाति महिला
पंच	2	—	20ग	नर्मदा	43	रामनारायण	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	3	—	44	गगाविशन	63	रामचरण	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	4	—	66	रूखमणी	87	चैती	अनुसूचित जाति महिला
पंच	5	—	88	शिवप्रसाद	109	बसंती	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	6	—	110	रामनाथ	129	नर्मदा	अनुसूचित जाति महिला
पंच	7	—	130	पुनिया	140	गुलाब	अनारक्षित
पंच	8	—	141	रामदुलारी	155	भागीरथ	अनारक्षित महिला
पंच	9	—	157	श्रीराम	165	नर्मदा	अनारक्षित
पंच	10	—	166	सरजू	176	शिवनारायण	अनारक्षित महिला
पंच	11	—	177	राधेश्याम	193	मदनलाल	अनारक्षित महिला
पंच	12	—	194	प्रकाश	206क	राजेश	अनारक्षित
पंच	13	—	207	चंद्रगोपाल	224	सुकू	अनारक्षित
पंच	14	—	224/1	शिवेन्द्रशाह	240	पूनमचंद्र	अनारक्षित महिला
पंच	15	—	241	फगनी	262	सतोका	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	16	—	263	आधारसिंह	278क	रामू	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	17	—	279	रामदास		अंततक	अनारक्षित

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत बम्हनगांव खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)					आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
	1	2	3	4	5		6
सरपंच	—	बम्हनगांव	—		—	अनारक्षित महिला	
पंच	1	—	2	संतोष पूरनसिंह	14	गणेश रामचरण	अनारक्षित महिला
पंच	2	—	16	रामाधार नत्थू	25	सुमन अर्जुन	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला

1	2	3	4	5	6		
पंच	3	—	25/1	कोकिला लक्ष्मीनारायण	32	शंकरलाल लक्ष्मीराम	अनारक्षित महिला
पंच	4	—	33	शिवराम रामप्रसाद	50	रामलाल रतनया	अनुसूचित जाति महिला
पंच	5	—	51	शिवराम सीताराम	70	लखनलाल रामप्रसाद	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त
पंच	6	—	73	जशोदा मांगीलाल	90	रहमान रमजान	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	7	—	91	हजारी गिरधारी	103	सुखराम दरोगा	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	8	—	104	पूनम गबू	133	मोहन मांगीलाल	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	9	—	133/1	शिवराम राहूजी	148	शिला श्यामलाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	10	बोंडगाँव	1	राजेश भीका	19	कमलसिंह रामप्रसाद	अनारक्षित
पंच	11	—	20	कृष्णाबाई गौरीशंकर	42	द्रोपताबाई नारायण	अनारक्षित
पंच	12	बिचपुरीसेठ	1	रामलाल अल्लू	136	मुकेश शिवराम	अनुसूचित जाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत सारंगपुर खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)				आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछडा वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से	मकान नम्बर तक		
1	2	3	4	5	6	
सरपंच	—	सारंगपुर	—	—	अनुसूचित जनजाति मुक्त	
पंच	1	—	1	सारिका	10/2 शिवनारायण	अनारक्षित महिला
पंच	2	—	10/3	रामदास	25 गणेशराम	अनारक्षित
पंच	3	—	26	साउबाई	44 राधेश्याम	अनारक्षित
पंच	4	—	45	सवलसिंह	62 ग्यारसीबाई	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	5	—	63	कडूबाई	88 भागवतसिंह	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	6	—	90	कैलाश	103 लखनलाल	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	7	—	104	मुकेशकुमार	117/2 हरिराम	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	8	—	119	जानकीबाई	133/2 लक्ष्मीबाई	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	9	—	134	मिश्रीलाल	146 संतोष	अनुसूचित जाति महिला
पंच	10	—	147	सदाराम	168 रामजय	अनारक्षित
पंच	11	—	169	सीमाबाई	195 शंकर	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	12	—	196	रमेश	अंततक	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत मक्तापुर खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)					आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
1	2	3	4		5	6	
सरपंच	—	मक्तापुर	—		—	अनारक्षित	
पंच	1	—	1	पार्वती शंकर	14	सुनिता ओमप्रकाश	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	2	—	15	बसूबाई कोमलराम	31	खैरुन अब्बास	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	3	—	32	सुल्तान शेखलाल	43	रोहित महेशकुमार	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	4	—	44	निर्मयदास रामेश्वर	63	शोभा शांतिलाल	अनारक्षित
पंच	5	—	65	विरजू हीरालाल	80	अनिता सुखराम	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	6	—	81	रफीक प्यारुखां	95/1	रामदास जगन्नाथ	अनुसूचित जाति महिला
पंच	7	—	96	शंकरलाल फत्तू	110	अहमद सुभानखां	अनारक्षित
पंच	8	—	110/1	रामकृष्ण गेदालाल	131	सादिक दिलावर	अनारक्षित
पंच	9	—	132	सुधाबाई रामनारायण	146	साबराबी मेहबूबखां	अनारक्षित महिला
पंच	10	भवरदीमाल	1	धन्नालाल रामभाउ	15	सरस्वती सत्यनारायण	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	11	—	16	दजिया मनोरी	29	अजय श्यामलाल	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	12	—	30	समोताबाई छगन	42	रिकी लक्ष्मण	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	13	—	43	गुलकीबाई मोती	54	राजाराम भीका	अनुसूचित जनजाति मुक्त

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत छुरीखाल खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)					आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
1	2	3	4		5	6	
सरपंच	—	छुरीखाल	—		—	अनारक्षित	
पंच	1	—	1	मोजीराम जिददू	11	सुखराम भुजाग	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	2	—	12	मीरा श्यामलाल	29	रमलीबाई जंगू	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	3	—	30	सुखराम नाना	84	रामभरोष दयाराम	अनुसूचित जनजाति मुक्त

1	2	3	4	5	6		
पंच	4	जामन्याढाना	1	रामचरण रामेश्वर	11	बसू सोमा	अनुसूचित जाति महिला
पंच	5	—	12	अमरसिंह सोमा	22	प्रमोद हुकुमचंद	अनारक्षित महिला
पंच	6	—	23	गिरधारी ओंकार	32	सीताराम देवकरण	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	7	—	33	द्वारका लच्छीचंद	44	बसंती हजारी	अनारक्षित
पंच	8	—	45	कंगली बाबू	54	जगदीश हुकुमचंद	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	9	—	55	कलीराम रामा	65	ब्रजलाल लखन	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	10	—	66	राधेश्याम रामप्रसाद	75/1	सोमा बाटू	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	11	—	76	साबूलाल सोमा	81	भागवतीबाई बुद्ध	अनुसूचित जनजाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत धनकार खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)					आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछडा वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग महिला/ अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
1	2	3	4		5	6	
सरपंच	—	धनकार	—		—	अनुसूचित जनजाति मुक्त	
पंच	1	—	1	द्वारका गोदालाल	8	गोदालाल दरियाव	अनारक्षित महिला
पंच	2	—	9	लालसिंह	25	विजयसिंह	अनारक्षित महिला
पंच	3	—	26	सागर देवकरण	43	शिवप्रसाद	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	4	—	44	धीरी	60	संजूबाई	अनुसूचित जाति महिला
पंच	5	—	61	प्रेमबाई	71	राजाराम बोदर	अनारक्षित
पंच	6	—	72	श्यामबाई	86	पार्वती	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	7	—	89	सुशिला	105	गायत्री	अनारक्षित
पंच	8	—	105/5	आनंदकुमार	238घ	भागीरथ	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	9	जात्राखेडी	1	लखनलाल बाबूलाल	11	आधारी	अनारक्षित
पंच	10	—	12	अरुणकुमार	27ग	नर्मदा	अनारक्षित महिला
पंच	11	—	28	ब्रजमोहन	46क	तेजराम	अनारक्षित
पंच	12	—	47	तुलसीराम	61	अनारसिंह	अनुसूचित जाति महिला
पंच	13	—	62	शोभाराम शिवकरण	89घ	बासूदेव रामप्रसाद	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	14	दीपगाँवखुर्द	1	प्रवीण रामभरोष	12	मांगीलाल भाउ	अनारक्षित महिला
पंच	15	—	13	लक्ष्मी शिवकरण	32	पूनम	अनुसूचित जाति महिला
पंच	16	—	33	तुलाराम	49	अमरसिंह	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	17	—	51	मनीष	65	नर्मदाप्रसाद	अनारक्षित महिला
पंच	18	—	66	जगदीश	77	सुशिला	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	19	—	79	नर्मदाबाई	239ग	कविताबाइ	अनुसूचित जनजाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत रामटेकरैयत खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)					आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
1	2	3	4		5	6	
सरपंच	—	रामटेकरैयत	—		—	अनारक्षित महिला	
पंच	1	—	1	भोग्या सुखराम	6	बाबूलाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	2	—	7	रामोबाई	14	रेमायबाई	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	3	—	15/1	जोखीलाल	25	जयराम	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	4	—	25/2	मोजीराम	35	मांगीलाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	5	—	36	चम्पालाल	44/1	गुलाबसिंह	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	6	—	44/2	नंदराम	57	सालकराम	अनारक्षित
पंच	7	—	59	मांगीलाल	75	जीपलीबाई	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	8	—	76	जशोदाबाई	84	सालकराम	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	9	—	84/1	कालूराम	96	मांगीलाल	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	10	—	97	कुंजीलाल	107	बुधियाबाई	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	11	—	108	सीताबाई	121	बाबईबाई	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	12	—	123	सीतूबाई	138	प्रदीपदास	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	13	अंजरुदरैयत	1	चंदरसिंह	9	मेदालाल गोमा	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	14	—	10	किशोरीलाल	17	लालचंद सोमा	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	15	—	18	चम्पीबा	28	काल्या चिपलू	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	16	—	29	कमलसिंह	38	मुंशी	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	17	—	39	नत्थू	47	गोगाय	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	18	—	48	सुकियाबाई	57	मोजीराम	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	19	—	57क	प्यारीबाई	62	चंदाबाई	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	20	—	62/2	परसराम	68	परसराम मुंशी	अनुसूचित जनजाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत जामन्याखुर्द खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)					आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
1	2	3	4		5	6	
सरपंच	—	जामन्याखुर्द	—		—	अनुसूचित जाति मुक्त	
पंच	1	—	1	गीना बिलदारसिंह	12	झुनई तुमला	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	2	—	13	रामगोपाल पातिंग	30	मन्तो मंगलू	अनुसूचित जनजाति मुक्त

1	2	3	4	5	6		
पंच	3	—	31	शिवप्रसाद रंगलाल	57	मनोहर शोभाराम	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	4	डाब्या	1	जारसिंग सुमरिया	11	दूना कुटवार	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	5	—	12	फुलवतीबाई बाबूलाल	23	बाबूलाल सुखलाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	6	—	24	सालकराम साबूलाल	34	पूनम खानदेव	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	7	—	35	लाबू भूश	46	लक्ष्मण सुखराम	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	8	—	47	शोभाराम मेहतू	60	कमलसिंह सुखदेव	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	9	घोडापाट	1	झन्नकी मोतीराम	14/1	हरिप्रसाद साबूलाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	10	—	15	जसोबाई सोमा	25	वशी हजारी	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	11	—	26	विरजा मंगल	42	कल्लू फालतू	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	12	—	44	रजनी राधेश्याम	61	दिनेश लालताप्रसाद	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	13	भवरपानी	1	ओमप्रकाश मांगीलाल	14	रामचंद्र बोदर	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	14	कोथमी	1	श्याम तेजराम	23	आत्माराम घासीराम	अनारक्षित महिला
पंच	15	—	24	हरिराम सुखदेव	38	मोतीराम सुखराम	अनारक्षित
पंच	16	—	39	अमरसिंह पुन्या	66	हरिशंकर राजाराम	अनुसूचित जनजाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत हसनपुरा खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)				आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से	मकान नम्बर तक		
1	2	3	4	5	6	
सरपंच	—	हसनपुरा	—	—	अनारक्षित	
पंच	1	—	1	राहुल	8/2 चम्पालाल	अनुसूचित जाति महिला
पंच	2	—	9/2	शोभाराम	20 साबूलाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	3	—	21	लच्छू	31/1 केवलराम	अनारक्षित
पंच	4	—	37	भागवतीबाई	47 श्रीकिशन	अनारक्षित
पंच	5	—	48	मांगीलाल	56 मोती	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	6	—	56/1	मुंशी	64 गगाबाई	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	7	—	65	बुद्ध	73 अमरदास	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	8	—	74	मुंशी	82/1 नागू	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	9	—	83	बाबूलाल	96 हीरा	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	10	—	97	खुशहल	124 बुद्ध	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	11	—	125	बाबूलाल	138 गोरईबाई	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	12	—	139	अनारसिंग	202 रविशंकर	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	13	रकट्या	1	सुनिल	17 चम्पा	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	14	—	18	साबूलाल	28 रमेशचंद्र	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	15	—	29	सुखलाल	41 कलीराम	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	16	—	42	शोभाराम	58 बुद्ध	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	17	—	59	सुकियाबाई	74 शोभाराम	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	18	—	75	गेदालाल	189 हरनारायण	अनुसूचित जनजाति मुक्त

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत सावलखेड़ा रैयत खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)				आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से	मकान नम्बर तक	
1	2	3	4	5	6
सरपंच	—	सावलखेड़ा रैयत	—	—	अनारक्षित
पंच	1	—	1 सुखचंद भैयालाल	8ख आशाराम	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	2	—	10 बाबूलाल कुजीलाल	19 कालू सलकू	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	3	—	20 भूरा सलकू	33 गणेश गंगाविशन	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	4	—	34 फुलकईबाई मोतीराम	40 अर्जुन मांगीलाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	5	—	41 बाबूलाल डोकरा	52क समोतीबाई बंशीलाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	6	—	54 चम्पालाल रामू	64 मुंशी ओंकार	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	7	—	65 जिमाईबाई बाबू	70क रतिराम मोतीराम	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	8	—	71 मंगल मोती	77 शिवराम मुन्सी	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	9	—	78 छोटे लाल सीताराम	83 गंगाराम ओंकार	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	10	—	84 सुकियाबाई साबूलाल	93 नदराम सुखराम	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	11	—	94 हरिराम रिंगा	98ग रामलाल विश्राम	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	12	—	99 बुद्ध गंगाराम	106 कोलई फालतू	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	13	—	107 चिरोजीलाल दादू	419 गोपाल हीरालाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	14	मुहाल सरकूलर	1 राजाराम नंदराम	15 ललताबाई रामकरण	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	15	—	16 जयनारायण हीरालाल	28 शोभाराम शिकारी	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	16	—	28क सुंदर पन्नालाल	40 कलईबाई बाबूलाल	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	17	—	41 सोमाजी सोमा	56 श्यामलाल बुद्ध	अनुसूचित जाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत नहालीकला खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)				आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से	मकान नम्बर तक	
1	2	3	4	5	6
सरपंच	—	नहालीकला	—	—	अनारक्षित महिला
पंच	1	—	1 बाबूलाल	22 रामभरोष	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	2	—	23 देवीसिंह	43 लखनलाल	अनारक्षित महिला

1	2	3	4	5	6		
पंच	3	—	43क	पृथ्वीसिंह	55	सुमंत्राबाई	अनारक्षित
पंच	4	—	56	शंकरलाल	71	पार्वतीबाई	अनारक्षित महिला
पंच	5	—	72	राधेलाल	83	चम्पालाल	अनारक्षित महिला
पंच	6	—	84	राजाराम	110क	पांडू	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	7	—	110ख	चंपालाल	152	बाबूलाल	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	8	बिचपुरीमाल	1	बाबूलाल	12/1	बाबू	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	9	—	13	कृष्णाबाई	24	चुन्नीलाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	10	—	27	बलीराम	40	सुखलाल	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	11	—	40ख	प्यारीबाई	53	कालूराम	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	12	—	55	सोनाजी	408	गोविन्द	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	13	मुडासेल	1	पून्या	11	धापूबाई	अनुसूचित जाति महिला
पंच	14	—	12/1	मथूराबाई	21	गंगाविशान	अनारक्षित
पंच	15	—	22	प्रेमबाई	30	मोती	अनारक्षित
पंच	16	—	30क	बंशीलाल	40	शंकूरखां	अनारक्षित महिला
पंच	17	—	42/1	बशीरखां	49	नवाबखां	अनारक्षित
पंच	18	—	49क	वहीदखां	86	द्वारकाबाई	अनुसूचित जनजाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत बड़नगर खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)				आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से	मकान नम्बर तक		
1	2	3	4	5	6	
सरपंच	—	बड़नगर	—	—	अनुसूचित जनजाति महिला	
पंच	1	—	1	डालूजी लादूजी	18/1 कोमलराम श्रीकिशन	अनुसूचित जाति महिला
पंच	2	—	18/2	पार्वतीबाई श्रीकिशन	44 तुलसीराम घासीराम	अनारक्षित
पंच	3	—	45	गुलाबसिंग निर्भयसिंह	59 गीताबाई जालाजी	अनारक्षित
पंच	4	—	60	लीलाबाई मोतीराम	77/1 चैनसिंह सुखराम	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	5	—	77/2	प्रतापसिंग चैनसिंग	85 जसमल सुखराम	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	6	—	87	प्रेमबाई मांगीलाल	99 रोदालाल सुखलाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	7	—	102	सजनबाई हीरासिंह	112ख बाबूलाल दशरथ	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	8	—	112ग	भूरीबाई अनेक	अंततक	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	9	सालाबैडी	1/1	समोती शंकर	13 महेश श्यामलाल	अनारक्षित महिला
पंच	10	—	13/1	रामदीन झाबू	अंततक	अनुसूचित जनजाति मुक्त

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत सक्तापुर खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)					आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
1	2	3	4		5	6	
सरपंच	—	सक्तापुर	—		—	अनारक्षित	
पंच	1	—	1	कमल	10/1	महताप	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	2	—	11	मनोहर	17	फत्तू	अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त
पंच	3	—	17/1	जमनादास	27	प्रहलाद	अनारक्षित महिला
पंच	4	—	28	रामनाथ	40/1	हेमनारायण	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	5	—	41	रमशे	49	राधेश्याम	अनारक्षित
पंच	6	—	50	अनिलकुमार	57	जागेश्वर	अनारक्षित
पंच	7	—	58	राधेश्याम	66/1	दशरथ	अनुसूचित जाति महिला
पंच	8	—	67	पार्वती	92स	विजेश	अनुसूचित जाति महिला
पंच	9	धौलपुर	66	उमाशंकर	89	मयाराम	अनुसूचित जाति महिला
पंच	10	नहालीखुर्द	85	ब्रजबाई	96	रामशंकर	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	11	बाफला	1	जगदीश	21	गंगाविशान	अनारक्षित
पंच	12	—	22	शिवनारायण	46	पुन्नाबाई	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	13	—	46/1	सत्यनारायण	80	संतोष	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत कालकुण्ड खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)					आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
1	2	3	4		5	6	
सरपंच	—	कालकुण्ड	—		—	अनारक्षित	
पंच	1	—	1	हरनाथ	17	दौलत	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
पंच	2	—	18	कलावती	27	रामनाथ	अनारक्षित
पंच	3	—	28	नर्मदाप्रसाद	42क	हरिराम	अनारक्षित

1	2	3	4	5	6		
पंच	4	--	43	नन्हेलाल	54	शिवप्रसाद	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त
पंच	5	--	55	शिवनारायण	72क	कैलाश	अनूसूचित जाति मुक्त
पंच	6	--	73	लक्ष्मण	108	गोर्वधन	अनूसूचित जनजाति महिला
पंच	7	डगावाभट्ट	1	चादबी	31	गुलामबी	अनूसूचित जाति महिला
पंच	8	भटपुरा	1	हनीफखा	7	खुदाबक्श	अनारक्षित महिला
पंच	9	--	8	आलाबक्श	15	कालूखां	अनारक्षित महिला
पंच	10	--	16	बालूखां	23	मुन्नुखां	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	11	--	23/2	चुन्नुखां	28	मुवारिकखां	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त
पंच	12	--	29	बानोबी	36	आजादखां	अनारक्षित
पंच	13	--	37	फातमाबी	47	रामजीवन	अनारक्षित
पंच	14	--	48	रामकृष्ण	75/4	नेकआलमखां	अनूसूचित जाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत कानपुरा खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)					आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछडा वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
1	2	3	4		5	6	
सरपंच	--	कानपुरा	--		--	अनारक्षित	
पंच	1	--	1	शिवनारायण प्रहलाद	18	रामा भारत	अनारक्षित महिला
पंच	2	--	19	सोनाबाई रामगोपाल	31	शारदाबाई भागीरथ	अनारक्षित
पंच	3	--	32	सोना बट्टी	47/2	रामबक्श रामभाउ	अनूसूचित जाति महिला
पंच	4	--	47/3	विमलाबाई शिवराम	62	बुदिया बिहारी	अनूसूचित जाति महिला
पंच	5	--	62क	सुनिता राजू	77ख	राधेश्याम अनोखी	अनूसूचित जनजाति महिला
पंच	6	--	78/1	लक्ष्मीबाई अनोखी	95	धनसिंग बाबूलाल	अनूसूचित जनजाति महिला
पंच	7	--	96	भारतीबाई पर्वतसिंग	114	ध्यानसिंग गुलाबसिंग	अनारक्षित
पंच	8	--	114/1	उमेदसिंग गुलाबसिंग	140	भवूतनाथ उमेदनाथ	अनारक्षित महिला
पंच	9	--	141	शारदाबाई मंगलनाथ	165	महेतापसिंग मोतीसिंग	अनूसूचित जाति मुक्त
पंच	10	--	170	कुवरपालसिंह नंदकिशोर	191	गायत्री नंदलाल	अनारक्षित
पंच	11	शोभापुर	1	पतंगबाई हरिराम	11	रमेश गोप्या	अनारक्षित महिला
पंच	12	--	12	नारायण रामकरण	21	महेशकुमार शिवकरण	अनारक्षित
पंच	13	--	22	लक्ष्मीनारायण रामरतन	35/1	रामू श्रीकिशन	अनूसूचित जनजाति मुक्त
पंच	14	--	35/2	नंदराम सुखराम	48	श्रीकिशन खुडया	अनूसूचित जाति मुक्त

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत काल्याखेड़ी खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)					आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
	1	2	3	4	5		6
सरपंच	—	काल्याखेड़ी	—		—	अनारक्षित	
पंच	1	—	1/1	डालू गजराजसिंग	4/2	कृष्णाबाई आशाराम	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	2	—	6/1	रामदास गुलाबसिंग	17/2	विष्णु घनश्याम	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	3	—	17/3	मोहनलाल कन्हैया	28	तेजराम शिवराम	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	4	—	29	वेनीसिंह धनसिंह	42क	महेश रामाधार	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	5	—	44	दूरपाल सुंदरलाल	58	पूनमचंद्र	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	6	नीमखेडामाल	1	समोती रामपद्माद	12/2	जगदीश चंदर	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	7	—	13	सोमा नाना	22	कमलाबाई गब्बू	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	8	—	23	प्यारसिंह मंगल	32	अमरसिंह गन्हू	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	9	—	33	गुलाबसिंह सोमा	34/1	परसराम भागीरथ	अनारक्षित
पंच	10	नीमखेडामाफी	1	धनसिंह देवाजी	18	गुलाबसिंह नम्भू	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	11	—	19	दगडें गोरेलाल		गोपाल मोहन	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	12	साक्टया	1	चम्पालाल महताप	13	हरिकिशन सुभाष	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	13	—	14	सुभेरसिंह चैनसिंह	28	संतोष जगन्नाथ	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	14	—	29	नबूबाई पूनम	47	ममताबाई रामनिवास	अनुसूचित जाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत पटाल्दा खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)					आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
	1	2	3	4	5		6
सरपंच	—	पटाल्दा	—		—	अनुसूचित जाति महिला	
पंच	1	—	1	रतनलाल दामू	16	रायजू सम्मल	अनारक्षित
पंच	2	—	17	रायसिंह झूरी	28	अब्दुल हाफिज	अनुसूचित जनजाति मुक्त

1	2	3	4	5	6		
पंच	3	--	29	बुदिया	38/2	पंचम सोमा	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	4	--	39	सददू भूरा	54	भूता जलाम	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	5	--	55	रामकली फुलचंद	72	दीना	अनारक्षित महिला
पंच	6	नीमढाना	2	नारायणदास	15	गंगाबाई सीताराम	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	7	--	16	कबई ज्ञानू	27	फुलचंद मंगल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	8	--	28	विश्राम मंगल	40	सोनायबाई	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	9	--	41	मालजी मातिग	57	शिवराम	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	10	झापनादेह	1	चम्पालाल हीरालाल	13/1	मोती मंगल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	11	--	13/2	शिवराम मोती	24	प्यारीबाई भैयालाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	12	--	25	नानकराम दादू	36	राधेलाल बाबू	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	13	--	37	श्यामलाल बाबू	54	गोविन्द	अनारक्षित महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत आमाखाल खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)				आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछडा वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से	मकान नम्बर तक			
1	2	3	4	5	6		
सरपंच	--	आमाखाल	--	--	अनारक्षित महिला		
पंच	1	--	2	दिनेश श्यामलाल	15	अब्दुलअजीज अब्दुल हफीज	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	2	--	16	पतिराम भूरा	31	सुकुमाबाई मोहन	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	3	--	32	जागेश्वर मोतीराम	40क	अर्जुन चिरोजी	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	4	--	40ख	वबू कुंजी	51	मिश्रीलाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	5	--	51क	भूरईबाई सवरसिंह	61	हजारी भूरसा	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	6	--	62	मंवाली दादू	76	राजाराम कुंजी	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	7	--	77	सकाराम राजाराम	91	अंततक	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	8	रतनपुर	1	सुखराम मातिग	15	सावित्री चिरोजी	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	9	--	16	जुगूलाल छोटेलाल		अंततक	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	10	जामन्याकलों	1	रामकुंवर बादू	8	नन्ही पतिराम	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	11	--	9	मंगल झूका	23	रुखमा रामकरण	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	12	--	24	गेदू राजाराम	37	बुदियाबाई लक्ष्मण	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	13	--	38	सुखलाल सोमा	51	भुरई गेदालाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	14	--	51क	बाबूलाल पिन्टा		अंततक	अनुसूचित जनजाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत नगावामाल खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण					आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	(केवल पंच के निर्वाचन के लिए)						
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
1	2	3	4		5	6	
सरपंच	—	नगावामाल	—		—	अनुसूचित जनजाति महिला	
पंच	1	—	1	बालकसिंह भीमा	14	लाड़कीबाई प्यारसिंह	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	2	—	15	गजबसिंह कमोद	27	ग्यारसराम दलसिंह	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	3	—	28	सुशीला हरिराम	41	शौभाराम श्रवण	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	4	—	43	सायराबाई बाबूलाल	56	गुलाबसिंह कनकसिंह	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	5	—	57	भूरा नत्थू	69	कलीबाई सुखदेव	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	6	—	70/1	तुलसाबाई मोहन	81	तुलसीराम रूखडया	अनारक्षित
पंच	7	—	82	कमलाबाई बाबूलाल	91	लेखराम मांगीलाल	अनारक्षित महिला
पंच	8	—	92	शिवराम गगाराम	108	प्रेमबाई रंगलाल	अनारक्षित
पंच	9	—	109	सागरबाई रामसिंग	139	ओमप्रकाश घासीराम	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	10	नगावा सरकूलर	1	काशीराम दरियाव	44	बबिताबाई रामकिशन	अनारक्षित महिला
पंच	11	देवपुर	1	अजय उदयसिंह	27	नेमीचंद गंगाराम	अनारक्षित
पंच	12	—	28	राधेश्याम रामकिशन	49	संतु अमरचंद	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	13	—	51	विश्राम नंदराम	81क	सुभाबाई मुकेश	अनुसूचित जाति महिला
पंच	14	—	82	देवीसिंह रेवाराम	105	दुर्गालाल मनोहर	अनुसूचित जनजाति मुक्त

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत कालधड खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण					आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	(केवल पंच के निर्वाचन के लिए)						
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
1	2	3	4		5	6	
सरपंच	—	कालधड	—		—	अनुसूचित जनजाति महिला	
पंच	1	—	1	शंकर प्रहलाद	14	मिश्रीलाल	अनारक्षित महिला
पंच	2	—	16/1	गुलाबसिंग शिवप्रसाद	32/1	जगदीश	अनारक्षित

1	2	3	4	5	6		
पंच	3	--	32क	सत्यनारायण	41/2	गणेश	अनारक्षित
पंच	4	--	42	जगदीश	53/1क	गणेश	अनारक्षित महिला
पंच	5	--	54	शंकरलाल	69क	गुलाबदास	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	6	--	70	सुखराम	80	घनश्याम	अनुसूचित जाति महिला
पंच	7	--	81	प्रताप	93	मंशाराम	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	8	--	94	कलीबाई	110	गौरीशंकर	अनुसूचित जाति महिला
पंच	9	--	112	जोगीलाल	126	रमेश	अनुसूचित जाति महिला
पंच	10	--	127	हजारी	497ख	विपतसिंह	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	11	--	498क	मोजीराम	570	राधेश्याम	अनारक्षित

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत लोलागरा खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)					आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछडा वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
	1	2	3	4	5		6
सरपंच	--	लोलागरा	--		--	अनारक्षित	
पंच	1	--	1	हरनाथ शिवराम	18	भारतसिंह रामेश्वर	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त
पंच	2	--	19	आनंदसिंह गोदालाल	31	देवीसिंह बहादरसिंह	अनारक्षित
पंच	3	--	31/1	उमेशसिंह देवीसिंह	41	रणछोड कुजी	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	4	--	42	अनोखी गुलाब	49	नवलसिंह शोभाराम	अनुसूचित जाति महिला
पंच	5	--	50	मिश्रीलाल बाबूलाल	58	पतिराम रामाधार	अनुसूचित जाति महिला
पंच	6	--	58/1	साउबाई रामाधार	70/1	मनोहरसिंह धनसिंह	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	7	--	70/2	गीताबाई गुलाबसिंह	107	महेश उमराव	अनारक्षित
पंच	8	विक्रमपुरखुर्द	1	रामसहाय मांगीलाल	19	श्रीराम किशोरीलाल	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	9	--	21	कैलाश मदनलाल	39	रुखमणी मांगीलाल	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	10	--	40	भगवानदास रामया	61	राजाराम मोती	अनुसूचित जनजाति मुक्त

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत सारसूद खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)					आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछडा वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग महिला/ अनारक्षित/अनारक्षित महिला	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
1	2	3	4		5	6	
सरपंच	—	सारसूद	—		—	अनुसूचित जनजाति मुक्त	
पंच	1	—	1	सत्यनारायण जोखीलाल	20	अमरदास नाथूराम	अनारक्षित महिला
पंच	2	—	21	कलाबाई राधेश्याम	36/1	संजय उमाशंकर	अनारक्षित महिला
पंच	3	—	37	सत्यनारायण रामेश्वर	52	ब्रजलाल बिहारी	अनारक्षित
पंच	4	—	53	गणेश बाबू	67	रामेश्वर	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	5	—	68	मथुराबाई जागेश्वर	88	संतोष राधेश्याम	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	6	—	89	जमनादास रामदास	106	मनोहरसिंह	अनारक्षित
पंच	7	—	108	लालसिंह सुखदेव	131	गंगादीन दशरथ	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	8	—	133	किशोरी मुकुन्द	156	धिसा गोवर्धन	अनुसूचित जाति महिला
पंच	9	—	157	रामगोपाल रामभाउ	187	सुखदेव गिरधारी	अनुसूचित जाति महिला
पंच	10	—	188	भागवतसिंह शंभूदयाल	800/1	राजेन्द्र रामदास	अनुसूचित जनजाति महिला

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत जयमलपुरा खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)					आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछडा वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग महिला/ अनारक्षित/अनारक्षित महिला	
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से		मकान नम्बर तक		
1	2	3	4		5	6	
सरपंच	—	जयमलपुरा	—		—	अनारक्षित महिला	
पंच	1	—	1	शोभाराम ताराचंद्र	16	सतीबाई गन्नु	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	2	—	17	रमेशकुमार श्रीकिशन	30	लक्ष्मण जगन्नाथ	अन्य पिछडा वर्ग महिला

1	2	3	4	5	6		
पंच	3	---	31	श्रीराम जगन्नाथ	41	कमलसिंह जगली	अनारक्षित
पंच	4	---	42	नगीनचंद दगडूलाल	58	रामकिशन रतन	अनारक्षित
पंच	5	---	60	मिश्रीलाल पून्या	76/1	गंगाबाई भागीरथ	अनुसूचित जाति महिला
पंच	6	---	76क	मांगीलाल शिवलाल	83	भागीरथीबाई नर्मदाप्रसाद	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	7	---	84	सत्यसाईकृष्ण छत्रसिंह	94/2	अमरसिंह गुरुमुख	अन्य पिछडा वर्ग महिला
पंच	8	---	94/3	रामकृष्ण बाबूलाल	109क	मुन्ना मोतीराम	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	9	---	110	बाबू आडू	133	मनाहर रामेश्वर	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	10	हीरापुर	1	नेमीचंद जयसिंह	88	सलीता संतोष	अन्य पिछडा वर्ग मुक्त

मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 29-क के अनुसरण में, एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह सूचित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत कडौलाराघौ खण्ड खिरकिया के ऐसे प्रत्येक स्थान (सीट) के, लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में दर्शाये गये अनुसार है :-

सारणी

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा सरपंच या पंच)	वार्ड का विवरण (केवल पंच के निर्वाचन के लिए)				आरक्षण की स्थिति (यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति महिला/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति महिला/अन्य पिछडा वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग महिला/अनारक्षित/अनारक्षित महिला)		
	वार्ड क्रमांक	ग्राम का नाम	मकान नम्बर से	मकान नम्बर तक			
1	2	3	4	5	6		
सरपंच	—	कडौलाराघौ	—	—	अनारक्षित महिला		
पंच	1	---	2	रमेश चुन्नीलाल	20/1	नितिन रामभरोष	अनारक्षित महिला
पंच	2	---	22	सीताराम सिंगदार	44/1	गजराजसिंग	अनुसूचित जाति महिला
पंच	3	---	44क	सोमजी समरू	59	शिवनाथ	अनारक्षित
पंच	4	---	60	सावित्री रघुनाथसिंह	80	भगवानसिंह मांगीलाल	अनारक्षित
पंच	5	---	81	सोनाबाई प्रहलाद	108	दशरथ प्रहलाद	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	6	---	108/1	रामदास शिवप्रसाद	117	जागेश्वर शिवप्रसाद	अनुसूचित जनजाति मुक्त
पंच	7	---	118	कुवरशाह किशन	137	मंगत हरिकरण	अनुसूचित जनजाति महिला
पंच	8	---	137क	भारतसिंह गुमानसिंह	145/1	भागीरथ रतन	अनुसूचित जाति मुक्त
पंच	9	---	146	भरोष रतन	148/4	रामन्ज शुक्ला	अनारक्षित महिला
पंच	10	चौकी	1	तोताराम विश्राम	27	राजेश शिवराम	अनुसूचित जनजाति मुक्त

रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर.